

ग्रन्थ प्राप्ति स्थान—

१. गरेवीलाल रतनलाल कटारिया  
सेवाड़ी बाजार, व्यावर ( राजस्थान )

२. कमल प्रिन्टर्स  
मदनगंज-किशनगढ़ ( राजस्थान )

प्रथमावृत्ति }  
१००० }

वीर निर्वाणोत्सव, वीर नि० सं० २४६८

मूल्य  
स्वाध्याय

मुद्रक :

नेमीचन्द्र वाकलीबाल

कमल प्रिन्टर्स

मदनगंज-किशनगढ़ ( राजस्थान )





श्री महावीरप्रसादजी सांगाका पाटनी  
किशनगढ़-रेनवाल  
( जन्म-१८-२-१९२६ )

## निवेदन

इस असार संसारमें धर्म ही मनुष्यका एकमात्र सहायक है। धर्म रूपी नौकाके बिना इस संसार सागरसे पार पाना बड़ा दुष्कर कार्य है। देव, शास्त्र और गुरुके प्रति सच्चा विनय एवं हृषि आस्था रखनेवाला प्राणी मुक्तिके मार्गकी ही ओर अग्रसर होता है।

यह मेरा परम सौभाग्य था कि सिद्धचक्र मण्डलके यज्ञोत्सव पर मुझे आचार्यश्री एवं उनके संघके सम्पर्कमें आनेका अवसर मिला। गुरु-समागम बड़े पुण्योदयसे प्राप्त होता है और पूज्य श्री १०८ आचार्य श्री ज्ञानसागरजी महाराज एवं उनके सुयोग्य शिष्य पूज्य श्री १०८ मुनि श्री विद्यासागरजी महाराजके दर्शनसे मैंने स्वयंको कृतकृत्य अनुभव किया।

मेरी भावना हुई कि किसी प्रकारसे मैं अपने तन, मन, धनसे महाराजकी सेवामें लग सकूं तभी सुयोगसे आचार्यश्री रचित 'प्रवचनसार'के प्रकाशनकी बात चली तो मानो मेरी मनोकामना पूर्ण होती दिखाई दी। इस ग्रंथका प्रकाशन मैंने अपने पूज्य पिताजी श्री जमनालालजी सांगाका की पुण्य स्मृतिमें करवाया है। मेरी हार्दिक कामना है कि इस ग्रंथका प्रत्येक जैन परिवारमें नियमित स्वाध्याय हो, ग्रंथ प्रकाशनकी सार्थकता सच्चे अर्थोंमें तभी प्रकट हो सकेगी।

ग्रंथके अध्ययन मननसे जैनसमाजमें धार्मिक प्रवृत्तिकी ओर अधिकाधिक रुचि हो, तभी मैं अपने द्रव्यका सदुपयोग मानूंगा।

आचार्यश्री के चरणोंमें श्रद्धानन्त—

आशीर्वादका आकांक्षी  
महावीरप्रसाद पाटनी

श्रीमान् सेठ जमनालालजी सांगाका ( पाटनी )

## संचिप्त जीवन परिचय

स जातो येन जातेन याति देश समुन्नतिम् ।

अस्मिन् वसारसंसारे मृतः को वा न जायते ॥

भारत देशकी परम्पराएँ महान् रही हैं क्योंकि वसुन्धराने इस देशमें सदासे युद्धवीर, कर्मवीर और दानवीर विभूतियोंको लन्म दिया है। ऐसी ही दानवीर विभूतियोंमें राजस्थानके एक कस्बे किशनगढ़ रेनवालके निवासी ख० श्री जमनालालजी सांगाका भी थे। यह कस्बा उन्हें कभी विस्मृत नहीं कर सकता क्योंकि घनकी तीन गतियोंमें से ( दान, भोग, नाश ) श्रेष्ठगति ही उनका लक्ष्य रही थी।

आप १५ वर्षकी व्यवस्थामें ही कलकत्ता चले गए थे और जीवनके अन्तिम समय तक वहीं रहे। नौकरीसे अपने व्यावसायिक जीवनकी शुरुआत कर आपने इलाली अपनाई। अपने पुरुषार्थसे पर्याप्त द्रव्य अर्जित कर सदैव उसके सहुपयोगकी चिंता इस सीधे-सादे व्यक्तित्वको सताती रही और इसीलिये मुक्त हस्तसे दान देना आपका ख्यभाव होगया।

श्री सम्मेदशिखरजी तीर्थदेवतामें तेरापंथी कोठीके अन्तर्गत आपने पाण्डुकशिलाका निर्माण कराया तथा तेरापंथी कोठीमें ही ५२ चैत्यालयोंकी रचनाके भीतर पंचमेहुजीका निर्माण कराया।

अपने मूल निवासस्थान रेनवालमें सांगाका जैन भवन, श्री दि० जैन चैत्यालय, श्री सुन्दरदेवी जैन पाटनी रा० प्रा० विद्यालय तथा श्री दि० जैन दातव्य औषधालयके भवन वर्षों तक आपकी उदार दानप्रियताकी घोषणा करते रहेंगे। 'थथा पिता तथा पुत्र' वाली उक्तिके अनुसार आपके सुपुत्र श्री महावीरप्रसादजी पाटनी भी अपने पूर्व निवार्हण करनेकी सुनुसरण कर अपने पूर्वजोंकी कीर्तिको समुच्छ्वल करनेमें सचेष्ट हैं। श्री महावीरप्रसादजी आपके दत्तकपुत्र हैं। महावीरजी गोद आनेसे पूर्व निवार्हण निवासी श्री रोडमलजी पाटनीके वसन्तकुमार नामवारी सुपुत्र रहे हैं। आपने निवार्हणमें श्री दि० जैन नशियोंमें एक चैत्यालयका निर्माण करवाया है।

प्रस्तुत ग्रन्थके सम्पूर्ण ग्रकाशन व्ययको वहन करनेकी स्वीकृति प्रदान कर आपने अतिशय उदारताका परिचय दिया है और समाजके अन्य घनिकोंके सामने भी आदर्श उपरिधत्त किया है।

मैं आपके उच्चवल भविष्य एवं दीर्घायुकी कामना करता हूँ।

—प० विद्याकुमार सेठी, बजमेर



## श्री जमनालालजी सांगाका पाटनी

जन्म—

फाल्गुन शुक्ला ४  
सं० १६४५

—स्वर्गारोहण

माघ वदी १५  
सं० २०२६



## दो शब्द

गत आश्विन मासमें कुचामनके पर्यूषण पर्वको व्यतीत कर जब मैं आचार्य श्री १०८ ज्ञानसागरजी महाराजकी सेवामें किशनगढ़ रेनवाल पहुँचा और प्रस्तुत ग्रन्थ प्रवचनसारको आदोपांत पढ़नेका सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय मेरे भाव हुए कि वर्तमान कालमें दिग्म्बर जैन समाजमें निश्चयनयकी मुख्यता तथा व्यवहारनयकी मुख्यताको लेकर बहुत खिचाव हो रहा है, उनमें समन्वयमूलक सद्भावनापूर्वक आर्यमार्गका विरोध नहीं करते हुए सज्जा समाधान—लौकिक संस्कृत विद्याके धुरन्धर विद्वान्, आत्माके साधक, चिरतपस्ची, उपाध्याय एवं आचार्य परमेष्ठी द्वारा विरचित प्रस्तुत ग्रन्थ द्वारा ही हो सकता है। यह एक अनुपम अप्रकाशित निधि है; इसके प्रकाशनसे अध्यात्मप्रेमी भाइयोंको एक आदर्शमार्गकी सत्प्रेरणा प्राप्त होगी। हर्ष है कि मेरी इस प्रार्थना पर पूर्ण ध्यान देकर श्री १०८ श्री विद्यासागरजी महाराजने अपना अमूल्य समय व्यतीत करते हुए इसकी प्रतिलिपि पूर्ण करके दी। इस ग्रन्थकी कई विशेषताएँ हैं—

१. मूल ग्रन्थकी गाथाओंका केवल छायानुवाद ही नहीं बल्कि उसके मार्मिक लक्ष्यको अनुष्टुप् सरीखे छोटे श्लोकोंमें रचकर गागरमें सागर भरनेका प्रयत्न किया है।

२. इसके साथ ही श्लोकका भाव भी यदि कहीं स्पष्ट न हुआ हो तो उसीका समर्थक एक हिन्दी भाषामय पद्य बनाकर एक बड़ी कमीकी पूर्ति भी इस ग्रन्थमें आचार्य महाराज द्वारा की गई है।

३. सारांश एवं शंकापूर्वक सरल हिन्दी गद्यमें विवेचन करके तो आचार्यश्री ने अपने अनुपम पाण्डित्य एवं क्षयोपशमके द्वारा संस्कृतसे अपरिचित आवालवृद्ध सज्जनोंका बड़ा भारी उपकार किया है; स्थान २ पर प्रत्येक जटिल विषयको समझानेके लिए बड़ी सरल परिभाषायें लिखकर लौकिक दृष्टान्तों द्वारा उन गम्भीरतम विषयोंका सरलीकरण करके दिग्म्बर जैन मुनि संघके अपवादको दूर करनेका बड़ा सुन्दर प्रयत्न किया है क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि वर्तमानमें दिग्म्बर जैन मुनियोंमें चौके और खानपानकी शुद्धि पर ही जोर दिया जाता है, इसके अतिरिक्त साधु महात्मा कुछ भी लोकके उपकार करनेका ध्यान नहीं रखते हैं। अधिक कहाँ तक कहा जाय, इस ग्रन्थके अत्यन्त सरल एवं हृदयमें अद्भुत व्योतिके संचार करनेवाले वाक्य पढ़कर पाठक इस प्रयत्नकी भूरि २ प्रशंसा किए विना नहीं रहेंगे।

आचार्यश्रीने आध्यात्मिक ग्रन्थोंके साथ २ उच्चतम साहित्यिक ग्रन्थोंका भी प्रणयन किया है। आप स्वर्गीय श्री १०८ आचार्य श्री वीरसागरजी एवं श्री १०८

आचार्यश्री शिवसागरजी महाराजके संघमें सफल उपाध्यायके रूपमें भी रह चुके हैं और इस वृद्धावस्थामें भी श्री १०८ श्री विद्यासागरजी सहश विद्वान् साधुका तिर्माण करके सदा ज्ञान और ध्यानमें ही लीन रहते हुए अभीष्टेन्नानोपयोग भावनाकी पूर्ण सावना कर रहे हैं। इस कार्यकी श्री १०८ आचार्य धर्मसागरजी महाराज भी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं।

जब सम्यक्दर्शनकी महिमाके ही इतने गीत गाए जाते हैं तो सम्यक्दर्शन, ज्ञान एवं चारित्रके एकात्मक रूप रत्नत्रय मोक्षके मार्गका क्या कहना है। हमारा उसके प्रति वहुमान कैसे नहीं होगा? सम्यग्दर्शन रूपी वृक्षकी सफलता तो चारित्रसे ही है, सम्यग्दर्शन तो चारों नतियोंमें भी हो सकता है किन्तु सम्यक्चारित्रकी पूर्णता तो मनुष्यगतिके अतिरिक्त कहीं नहीं है।

मैं इस ग्रन्थके कई मौलिक अवतरणोंसे अत्यन्त प्रभावित हुआ हूँ और उन मार्मिक स्थलोंको ध्यानपूर्वक पढ़नेके लिए पाठकोंसे निवेदन भी करना चाहता था किन्तु खांडकी रोटी जिधरसे तोड़ो उधरसे ही मीठी है। इस ग्रन्थका कोई भी भाग उपेक्षणीय नहीं है। यह सारा ही ग्रन्थ कमसे कम तीन बार पढ़नेके योग्य है।

इस ग्रन्थके प्रकाशनके मनोरथको पूर्ण करनेमें श्री महावीरप्रसादजी पाटनी, किशनगढ़ रेनवालसे हमें आर्थिक सहायताके रूपमें ५००१) रु० की राशि प्राप्त हुई, इसके लिए इनको ग्रन्थमालाकी ओरसे जितना बन्धवाद दें उतना ही धोड़ा है। ये वहें उत्साही और कृतज्ञ सज्जन हैं।

ग्रन्थकी पूर्ण संलग्नतासे प्रेस कापी करके श्री परिणित महेन्द्रकुमारजी पाटनी, काव्यतीर्थ, मदनगंज किशनगढ़ने प्रकाशन कार्यमें सक्रिय सहयोग दिया एतदर्थ उन्हें भी इससमय नहीं भुलाया जा सकता।

श्री नेमीचन्दजी वाकलीवालको भी सुन्दर एवं आकर्षक मुद्रणके लिए धन्यवाद दिए विना नहीं रह सकता, जिनके प्रयत्नोंके कारण यह ग्रन्थ इतना सुन्दर बन पड़ा है। आध्यात्मिक ग्रन्थ एक शुप्क चट्टानके समान है जिसे कोई नहीं चाटना चाहता किन्तु आकर्षक एवं पठनीय ग्रन्थका छपना इस दिशामें बहुत आवश्यक प्रयत्न है।

विनीतः—

रेनवाल (किशनगढ़)

५-६-७१

विद्याकुमार सेठी

न्यायतीर्थ, काव्यतीर्थ

(विद्याभूषण, सिद्धान्तभूषण)

भूतपूर्व हैड प्रिंटर

राजकीय ओसवाल लैन उद्य० विद्यालय, अजमेर

# अभिमत

( १ )

पूज्य आचार्य श्री १०८ श्री ज्ञानसागरजी महाराजके व्यक्तित्वसे पहिलेसे पूर्ण परिचय होते हुए भी किशनगढ़ रेनवालके चातुर्मास योगमें आचार्य महाराजकी विद्वत्ता, अध्यात्मप्रवचनशैली व द५ वर्षकी अवस्थामें भी उत्कृष्ट संयम साधना को नजदीकसे देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ ।

पूज्य महाराज द्वारा रचित प्रवचनसारकी टीकामें जैन दर्शनके गूढ़ तत्त्व अनेकान्तको ध्यानमें रखते हुए द्रव्यार्थिक व पर्यायार्थिक नयकी समन्वयताके साथ जो वस्तुस्वभावका विवेचन किया गया है वह पठनीय होनेके साथ मनन करने योग्य है । मेरी हार्दिक भावना है कि पूज्य आचार्य महाराज शतायु होकर इसीप्रकार हम जैसे अज्ञानी जीवोंका सत्प्ररूपणाओं द्वारा मार्गदर्शन करते रहें ।

गुलाबचन्द गंगवाल  
किशनगढ़-रेनवाल

२३-६-७१

( २ )

आचार्य कुन्दकुन्दप्रणीत प्रवचनसार पर आचार्य अमृतचन्द्र एवं जयसेनाचार्यने संस्कृतमें विशद् टीकाएँ लिखी हैं । उसी परम्परामें ज्ञानमूर्ति, चारित्रविभूषण आचार्य श्री १०८ ज्ञानसागरजी महाराजने गाथाओंका संस्कृत व हिन्दीमें पद्यानुवाद तथा भावार्थ लिखा है । गाथाओंके गूढ़ार्थ एवं फलितार्थ आपके व्यापक अध्ययन, मनन, चिंतन एवं अनुभवकी देन हैं । वृद्धावस्थामें भी आप अहर्निश जिनवाणीकी आराधनामें लीन रहकर अध्यात्मप्रेमियोंको अपनी रचनाओं एवं प्रवचनोंका लाभ दे रहे हैं । यह हमारे लिए परम सौभाग्यका विषय है ।

दयोदय, वीरोदय, जयोदय, सुदर्शनोदय, भद्रोदय, विवेकोदय, समयसारकी तात्पर्यवृत्तिकी हिन्दी टीका तथा प्रवचनसार पर आपकी यह कृति आपकी अमूल्य देन हैं । ज्ञान एवं आत्मसाधनामें तत्पर इस साधकको जैन जगत् समझे एवं समय रहते उससे लाभ उठाये, यही भावना है । जिनेन्द्रदेवसे प्रार्थना है कि वे इस योगीको दीर्घायु प्रदान करें जिससे वह अध्यात्मप्रेमियोंको अपनी वाणी एवं लेखनीका लाभ देता रहे ।

लादूलाल जैन, एम. ए., सा. रत्न  
प्रधानाध्यापक

१६-६-७१  
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय  
लांबा हरिसिंह

## प्रस्तावना

दर्शनके क्षेत्रमें विश्वको जगद्गुरु भारतकी देन वड़ी अद्भुत रही है। भारतीय मनीषियों, तत्त्वचिन्तकों एवं दर्शनिकोंकी हृषि स्थूल भौतिक जगतमें ही उलझी न रह सकी है, उन्होंने शाश्वत और चिरन्तन सत्यको समझने एवं खोजनेका अनवरत प्रयत्न किया है और अपनी सतत साधनाके परिणामस्वरूप भौतिकताके चाकचिक्यमें अभित इस संसारी प्राणीको जीवन मरणके चक्रसे 'मुक्त' होनेका दिव्य संदेश दिया है। इस दिव्य आध्यात्मिक सन्देशकी आवश्यकता हर कालमें रही है, इस कलिकालमें तो इसके अतिरिक्त हमारी कोई जारण नहीं है। सुखकी कामना करने वाला प्राणी आजके इस वैज्ञानिक जगतमें परपदार्थोंसे 'कस्तूरीके मृगकी भाँति' सुख पानेके लिए आतुर है, मगर उसकी स्थिति "ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया" वाली हो रही है। कारण कि उसकी हृषि पर की ओर लगी हुई है और यह निर्विवाद सत्य है कि "पराधीन सपनेहु सुख नाहिं।" अतः इस संकटकालमें तीर्थद्वारों द्वारा प्रदर्शित और आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट मार्ग ही एकमात्र अवलम्ब है।

सनातन जैन परम्परामें कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुन्दकुन्दाचार्यका अद्वितीय स्थान है। उनके रचित समयसार, पंचास्तिकाय और प्रवचनसार नामक परमागमोंमें जिनवाणीका सार आजाता है। 'प्रवचनसार'में लैसा कि शीर्षकसे सुविदित है, जिन प्रवचनका सार संग्रहीत किया गया है। कुन्दकुन्दप्रणीत प्रवचनसार पर अमृतचन्द्राचार्य एवं जयसेनाचार्यकी संस्कृतमें विशद टीकाएँ प्राप्य हैं, परन्तु वे संस्कृत भाषासे अनभिज्ञ सामान्य बुद्धिके अध्यात्मप्रेमी पाठकके उपयोगकी नहीं। श्री हेमराजजी पाठडे व ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने हिन्दीमें और श्री हिमतलाल जेठालाल ज्ञाहने गुजरातीमें इन टीकाओंके अनुवाद एवं भावार्थ अवश्य लिखे हैं परन्तु इनसे इस विषयकी शुष्कता और जटिलता कम नहीं हुई है। सम्भव है, इन रचनाओंके पीछे अपनी बात अपनों तक ही सीमित रखनेकी भावना रही हो परन्तु वर्तमानमें ऐसी सङ्कीर्णता वेमानी है। अध्यात्मप्रेमी पाठक इन्हें पढ़नेका साहस व श्रम करके भी उतना लाभ नहीं उठा पाता। वह वाग्जालमें ही इतना उलझ जाता है कि विषय पीछे छूट जाता है। अतः प्रामाणिक ज्ञानको विना तोड़े मरोड़े जन जन तक सरल शब्दोंमें पहुँचानेकी आवश्यकताका अनुभव कर पूज्य श्री १०८ आचार्य श्री ज्ञानसागरजी महाराजने मूल गायाओंके भावको लेकर संस्कृत अनुष्टुप् श्लोकों, हिन्दी पद्यानुवाद एवं गद्यमें सारांशकी रचना की है, जिसका रसात्मादन जैन दर्शनकी जटिल एवं किलष्ट शब्दावलीसे सर्वथा अपरिच्छित अध्यात्मज्ञान वड़ी तन्मयतासे कर सकता है।

गाथाओंके भावको आचार्य श्री ने अनुष्टुप् सहश लघु श्लोकमें बद्ध कर 'गागरमें सागर' भरा है, जो उनकी उत्कृष्ट कवि प्रतिभाको मुखर करता है। संस्कृतसे सर्वथा अनभिज्ञ पाठकके लिए गीता छन्दमें उन्हीं भावोंको पद्यबद्ध कर प्रतिदिन नियमित रूपसे पाठ करनेके लिए सुलभ किया गया है।

सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंश इसका 'सारांश' है। संस्कृतमें साहित्यिक काव्य ग्रन्थोंकी रचना करनेवाले इस महर्षिकी तत्सम पदावलीको यहाँ दूँ ढाना अमसाध्य है— हिन्दी गद्यमें तद्भव शब्दावलीका ही प्राधान्य है। "गद्य कवीनां निकषं वदन्ति" इस रूपमें भी इस ग्रन्थका गद्य आदर्श, सरल, सर्वथा निर्देष, सरस एवं इच्छित अर्थका प्रस्फुटन करनेवाला है। अतः आचार्यश्रीके कवि व्यक्तित्वके साथ उनके उत्कृष्ट गद्यकार रूपको प्रकट करनेमें भी सर्वथा सक्षम है। आचार्यश्रीने गद्यकी सूत्र शैली अपनाई है। विवेचन करनेके अनन्तर अनुच्छेदके अन्तमें सम्पूर्ण विवेचनका सार सूत्रबद्ध कर दिया है। समझानेके लिए दृष्टान्त, उदाहरण और उत्तेक्षणाएँ व्यावहारिक जीवनसे चुनी गई हैं अतः पाठकको कहीं भी गरिष्ठताका बोझ नहीं वहन करना पड़ता— एक उदाहरण इस तथ्यकी पुष्टिमें सहायक होगा—

आत्मा और कर्मके मेलको उदाहरणसे स्पष्ट करते हुए आचार्यश्री लिखते हैं— "संसारी आत्माके साथमें कर्मका सम्बन्ध तो पुरुषके साथ स्त्रीके सम्बन्धकी तरह है। जिसप्रकार स्त्रीके प्रभावमें पुरुष और पुरुषके प्रभावमें स्त्रीका प्रचलन रहता है, वैसे ही आत्मपरिणामोंसे कर्मोंका और कर्मोंके प्रभावसे आत्माका प्रचलन रहता है।" इस सरल उदाहरणको पढ़कर फिर कोई शंका नहीं रह जाती।

"शंका" और "उत्तर"के रूपमें लिखित इस सरस गद्यको पढ़कर अनुभूति होती है मानों आचार्यश्री समुख विराज कर ही हम अल्पज्ञोंकी शंकाओंका समाधान कर रहे हैं। यह ग्रन्थकी सफलताका द्योतक है।

ग्रन्थ तीन अधिकारोंमें विभक्त है। पृष्ठ १ से ६७ तक ज्ञान प्रस्तुपक प्रथम अधिकार है। ६८ से १३४ पृष्ठोंमें ज्ञेयाधिकार है और १३५ से अन्त तक चारित्राधिकार है। समस्त ग्रन्थमें आचार्यश्रीने जैन दर्शनकी प्रमुख विशेषता अनेकान्तसे विवेचन किया है। आज निश्चय और व्यवहारकी मुख्यताको लेकर जो खिंचाव और तनाव चल रहा है, उसका आर्षमार्गानुसार सच्चा समाधान प्रस्तुत किया है।

प्रथम अधिकार में तात्त्विक शब्दावली—द्रव्य, गुण, पर्याय, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, सोह, सुख, सदर्शन, अदर्शन, कुदर्शन आदिकी सरल समीक्षीन परिभापाएँ दी गई हैं। उनमें से कुछको यहाँ उद्धृत करना अप्रासंगिक न होगा—

॥ ज्ञानके द्वारा ज्ञाननेमें थावे उसे वस्तु या अर्थ कहते हैं। ( पृ० ४ )

॥ जो अपने आपको स्वीकार करते हुए भी औरसे और रूपमें होता रहे, उसे द्रव्य कहते हैं। ( पृ० ४ )

॥ द्रव्यको स्थित रखनेवाली शक्तिको गुण और उसके परिवर्तनको पर्याय कहते हैं। ( पृ० ४ )

॥ कषायोंकी तीव्रतारूप संक्लेश परिणामका नाम अशुभ और कषायोंकी मंदतारूप विशुद्ध परिणामका नाम शुभ है तथा निष्कषाय होनेका नाम शुद्ध दशा है। शुद्धदशामें वास्तविक इन्द्रियातीत सुख होता है और शुभ दशामें इन्द्रियजन्य सांसारिक सुख होता है तथा अशुभदशामें यह आत्मा एकान्त घोर दुःखका ही अनुभव किया करता है। ( पृ० ४६ )

“सुखका ज्ञानके साथमें अविनाभाव सम्बन्ध है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ सुख होता है और जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ सुख भी नहीं होता।” ऐसी अन्य अनेक सूक्तियाँ सम्पूर्ण अधिकारमें विखरी हुई हैं—

“वास्तवमें तो क्रोई भी पदार्थ न तो भला ही है और न बुरा ही है। हर एक पदार्थ अपने अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके अनुसार परिणामन करता है। ज्ञान उसे जानता है।” ( पृ० २८ )

“न तो ज्ञान ही वन्धका कारण है और न आत्माकी चेष्टा ही वन्धका कारण है। वन्धका कारण तो आत्माका रागद्रेष्य है।” ( पृ० २६ )

“सुख तो आत्माका गुण है जो ज्ञानका सहचर है।” ( पृ० ४४ )

“अशुभभावसे शुभभाव पर आए विना शुद्ध भाव पर नहीं पहुँचा जा सकता है।” ( पृ० ५५ )

गाया द५ में मोहके चिह्नोंकी व्याख्या करते हुए आचार्यश्रीने “करुणा भावो यतिरिएमणुएसु”का अर्थ “नर, पशुओं पर करुणाका न होना” लिखा है जो विद्वानोंको पुनर्विचारके लिए प्रेरित करनेवाला है। उपलब्ध हिन्दी संस्कृत टीकाओंमें सर्वत्र “पशु और मनुष्यों पर भी दया बुद्धिका होना मोहके सद्भावका दूसरा चिह्न है” ऐसा लिखा है। आचार्यश्रीने स्पष्ट किया है कि “करुणाका होना मोहका चिह्न है, ऐसा अर्थ तो किसी भी तरह समझमें नहीं आता है क्योंकि कुन्दकुन्द स्वामीने ही करुणाको ‘धम्मो दया विशुद्धो’ आदि वोधपादुहकी गाया सं० २५ आदिमें धर्म बताया है।” ( पृ० ६०-६१ )

द्वितीय ज्ञेयाधिकार में स्याद्वाद शैलीसे परवादियोंके एकान्तमतकी समीक्षा करते हुए शीघ्रातिशीघ्र ज्ञायक स्वभावरूप अपनी शुद्धात्माका अवलम्बन लेकर सदा सदाके लिए जन्म मरणके चक्रसे मुक्त होनेकी वात कही गई है। गाथा १ से ३४ तक सामान्यद्रव्यका स्वरूप, लक्षण, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, धौव्यका स्वरूप, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिकनय, सप्तभज्ज्व, चेतना और उसके भेदोंका विशद विवेचन किया गया है। गाथा ३५ से ५६ तक द्रव्यके भेदों जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और कालका और अनन्तर अशुद्ध जीवका वर्णन हुआ है। गाथा ६५, ६६ में शुभोपयोग, अशुभोपयोगका स्पष्टीकरण किया गया है। फिर जीव और पुद्गलका विस्तृत विवेचन, द्रव्यकर्म और भावकर्म जैसे गूढ़ विषयोंको सरल शब्दोंमें स्पष्ट कर यह प्रतिपादित किया गया है कि सब पदार्थ ज्ञेय हैं और जीव इनका ज्ञाता है। आत्मा शाश्वत है और अन्य सब पदार्थ क्षणिक हैं। इस प्रकार पदार्थोंमें समत्व त्याग कर अपनी आत्मामें विशुद्धता, कोमलताको प्राप्त करनेवाला जीव मिथ्यादर्शनका नाश कर सकता है। परन्तु शुद्धात्माके ध्यानके लिए दुरभिप्रायका नाश करके सम्यग्दृष्टि होने पर मुनि अवस्था धारण करना आवश्यक होता है क्योंकि सांसारिक भंकटोंमें फँसे हुए रागद्वेष युक्त जीवके ऐसा ध्यान शुद्धात्माके विषयमें कभी नहीं हो सकता है। ग्रन्थकारके इन मंतव्योंको अब आचार्यश्रीकी निम्न सरल उक्तियोंके माध्यमसे भी देखिए—

\* हर एक वस्तु तात्कालिक होकर भी शाश्वत है। ( पृ० ६६ )

\* मनुष्यता और पशुता न तो केवल जीवकी ही अवस्था है और न केवल अजीव कहलानेवाले पुद्गल द्रव्यकी ही अवस्था है। यह तो जीव और पुद्गल इन दोनोंकी संयोगी अवस्था होती है। ( पृ० ६६ )

\* नवीनता आजानेका नाम उत्पाद है, प्राचीनता न रहनेका नाम व्यय है किन्तु ऐसा होते हुए भी तत्पन बने रहनेका नाम धौव्य है। ( पृ० ७१ )

\* आत्मा तो अपने भावकर्मका ही कर्ता है न कि द्रव्यकर्मका। ( पृ० ६२ )

\* कोई भी जीव किसी भी तरहसे दुखी न रहे, इसप्रकारके सदूचिचारका नाम ही शुभ भाव है। यह जीवके लिए पुण्यवन्धकारक है। परपीड़ाकारक विचारका नाम अशुभ भाव है। यह पापवन्धकारक है। परमात्म चित्तनमें निमग्न रहनेरूप उदासीनभाव वीतरागभाव है। यह पुण्य और पाप दोनों ही तरहके वंधसे रहित होकर आत्माको पूर्ण शांतिदायक होता है। ( पृ० १२१ )

\* उपयोगकी एकाग्रता निश्चलताका नाम ध्यान है। ( पृ० १३२ )

द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक तथोंको आचार्यश्रीने दाहिनी और वार्यों ओँख बताया है। इसप्रकार इस अधिकारमें आचार्यश्रीने भेदविज्ञानका रहस्य खुलासा किया है।

तीसरे चारित्राधिकार में बताया गया है कि यद्यपि ज्ञान आत्माका अनन्य गुण है परन्तु ज्ञानकी सार्थकता पवित्र आचरणके द्वारा होती है। आचरणके अभावमें ज्ञान पंगु है, सफलता चारित्रके ही आधीन है। अतः हर एक मनुष्यको चारित्र धारण करना चाहिए क्योंकि मनुष्यगतिमें ही चारित्र धारण किया जा सकता है सम्यग्दर्शन तो अन्य गतियोंमें भी हो जाता है। गाथाओंमें क्रमशः चारित्र धारण करनेकी रीति, साधुके कर्तव्य, आहार-विचार, मुनियोंके भेद, परिग्रह, पंच पाप, स्त्रीमुक्ति-निषेध, चारित्रकी महत्वा, अटल समता, सज्जा मुनि, वैयावृत्य, सत्संगति आदि विषय आया है जिसकी आचार्यश्रीने आर्षग्रन्थोंके आधारपर श्वेताम्बर समाजके व इतर समाजके प्रामाणिक ग्रंथोंसे उद्धरण प्रस्तुत करते हुए सरल शब्दोंमें व्याख्या प्रस्तुत की है। इस अध्ययनके बाद किसी शङ्काकी सम्भावना नहीं रहती। आचार्यश्रीके शब्दोंमें कुछ स्थापनाएँ इस प्रकार हैं—

\* वस्त्रोंके साथ साथ संसारके सभी पदार्थोंसे निष्पृह होकर रहना और अपने मानसिक मैल ( कषाय भाव )को दूर करके सर्वत्र ही समता भावको स्वीकार करना दिगम्बरत्व होता है। ( पृ० १४३ )

\* कर्मवन्धके लिए अन्य प्राणियोंके घात रूप हिंसाकी कोई अपेक्षा न होकर पर पदार्थोंके प्रति होनेवाला इस जीवका सोह ममत्वरूप परिग्रह भाव ही बलवान है। ( पृ० १५० )

\* रागद्रेष्टके अभावका नाम धर्म है। ( पृ० १५४ )

\* न तो किसीसे दूर भागना ही निष्परिग्रहता कही जा सकती है और न किसीको पकड़े रहना ही, क्योंकि परिग्रह तो आत्मेतर पदार्थोंमें इष्टानिष्ट कल्पनाका नाम है। ( पृ० १६४ )

\* समुचित श्रद्धान और द्वादशांगका ज्ञान होकर भी यदि चारित्र धारण नहीं किया जावे तो मुक्ति नहीं मिल सकती है। ( पृ० १७१ )

\* किसीको भी कोई कष्ट न हो इसप्रकारका सर्वोदयी सुन्दर विचार तो जैनधर्मका प्राण है। ( पृ० १७६ )

\* जहाँ तक हो सके अहिंसाका व्यवहार करनेवाला और असमर्थ अवस्थामें भी अहिंसाका पक्षपाती जैन है। इसके विपरीत जो हिंसा करनेमें ही प्रवृत्त हो रहा हो वह अजैन होता है। ( पृ० १७६ )

उपर्युक्त समुचित सदाचारके वर्णनके अनन्तर ग्रंथकारने उपसंहाररूप संक्षेपमें चार बातोंका ( संसार परिभ्रमण, संसारसे छूटना, संसारसे छूटनेके उपाय, मुक्त जीव ) विवेचन कर ग्रंथ पठनका लाभ मुक्तिदर्शी कर ग्रंथकी समाप्ति की है ।

इस प्रकार तीन अधिकारोंके गहन, गूढ़ विषयको अतीव सरल शब्दावलीमें आचार्यश्रीने सामान्यवुद्धिके पाठकके लिए सुलभ कर हम पर अतीव उपकार किया है । प्रत्येक श्रावक एवं त्यागीको इस सद्ग्रंथका पारायण करना चाहिए । आचार्यश्रीने कुछ गाथाओंको अतीव सरल जानकर उनका गद्यमें अनुवाद नहीं किया है, उन गाथाओंका सरल शब्दानुवाद पू० १०८ श्री विद्यासागरजी महाराजने लिखा है जिसे परिशिष्टमें जोड़ दिया गया है ।

प्रस्तुत कृति 'प्रवचनसार'के अतिरिक्त आचार्यश्रीने समयसारकी तात्पर्यवृत्तिकी हिन्दी टीका, सम्यक्त्वसार शतक तथा साहित्यिक काव्य ग्रन्थोंका भी प्रणयन किया है जिनमें प्रमुख हैं—जयोदय ( मूल प्रकाशित ), वीरोदय, सुदर्शनोदय, दयोदय, भद्रोदय, ऋषभचरित आदि । काव्यप्रेमियोंके लिए ये सभी काव्य पठनीय हैं । आत्म साधनामें तल्लीन इन महर्षिने जिनवाणीकी सेवा कर धर्मकी प्रभावना की है । लोक सदा सदाके लिए आपका ऋणी है । इस अवस्थामें भी आप अहो-रात्र अध्ययन, अध्यापन और चिंतनमें लबलीन रहते हैं । आपके व्यक्तित्वको लखकर यही अनुभूति होती है मानों ज्ञान, विनय, धैर्य, सहिष्णुताने मूर्त रूप धारण कर लिया हो, आपका थोड़ेसे क्षणोंका सामीप्य भी परम सौभाग्यका विषय है । धन्य हैं आपके सुयोग्य शिष्य पूज्य १०८ श्री विद्यासागरजी महाराज, जिन्हें आपके सतत सान्निध्यमें ज्ञानका लाभ प्राप्त हो रहा है ।

श्रीमद् १००८ जिनेन्द्रप्रभुसे यही प्रार्थना है कि वे निवृत्तिमार्गके इन पथिकोंको चिरायु करे ताकि समाजको अधिकाधिक लाभ प्राप्तिका अवकाश रहे ।

मैं आचार्य और शिष्यके इस आदर्श युगलके चरणोंमें नतमस्तक हूँ ।

श्रद्धाभिभूत-


चेतनप्रकाश पाटनी

प्राध्यापक, हिन्दी विभाग  
जोधपुर विश्वविद्यालय


जोधपुर  
१५ अक्टूबर, ७१



# प्रवचनसार







आचार्यश्री के सुयोग्य शिष्य, वाल ब्रह्मचारी  
श्री १०८ श्री विद्यासागर जी महाराज


# यह मेरी भावना है सब इसकी स्वाध्याय करें

यह “ज्ञान” प्रणीत प्रवचनसार नयनाभिराम उपवन है,  
हर एक इसमें करे निवेश तो निश्चय दुःख शमन है।  
मेधावीजन ! भव्य सुजीव यहाँ करते निशदिन रमण हैं,  
रीति और विवेकसे चल द्रुत, करते निर्मल निज तन मन हैं ॥१॥

भाषामयी गीतावृत्तलता है हरित पूरित लहलहा,  
वर-वचन-रससिक्त परिमल अति प्रवाहित है जहाँ।  
नासिकाऽकर्षक हैं अनुष्टुप् सुमन उत्कुलित अहा,  
है अमरदल गुंजार करता, सुधा सेवन कर रहा ॥२॥

सरस आत्मामृत भरित ‘सारांश’ सर है स्थित सदा,  
बड़भागी गाहकर जिसमें खोवे निज श्रम-आपदा।  
इसमें तरज्ज्ञत हैं अहो ! प्रचुर उदाहरण वीचियाँ,  
सबको मुदित करती सदा हैं भव्यजनकी रीतियाँ ॥३॥

कीदृश पद कमल देखो ‘ज्ञान’ रविसे खिल रहे,  
स्वार्थहीन मुमुक्षुमुख हैं देख उनको लस रहे।  
ध्यानी सुधी विमल हंस हैं नित्य सेवा कर रहे,  
यत्र तत्र भटके हुए जन निर्भीक होकर मिल रहे ॥४॥  
करूँ मनन “प्रवचन” का सदा, है यही अभिलाष मेरी।  
रे शीघ्र ही जिससे मिटै अबुध “विद्या” की भव फेरी ॥







ज्ञानमूर्ति चारित्रविभूपण वयोवृद्ध  
आचार्यश्री १०८ श्री ज्ञानसागरजी महाराज

प्रकाशित प्रमुख कृतियाँ :

सम्यक्त्वसारगतक, समयसार टीका, प्रवचनसार टीका, कर्तव्य पथ प्रदर्शन,  
जयोदय, वीरोदय, दयोदय, सुदर्शनोदय, भद्रोदय, विवेकोदय





तमः श्री परमात्मने ।

श्रीपद्मगवत्कुण्डलाचार्यविरचितः

# प्रवचन सारः

ज्ञानमूर्ति आर्थिविष्णुपण

आचार्य श्री १०८ श्री ज्ञानसागरजी महाराज कृत

संस्कृत अनुष्ठप्, हिन्दी पदानुवाद एवं

सारांश सहित



एस सुरासुरमणुसिंदर्बंदिदं धोदघाइकम्ममलं ।  
पणमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥१॥  
सेसे पुण तित्थयरे ससब्बसिद्धे विसुद्धसब्बमावे ।  
समणे य णाणदंसणचरित्ततव वीरियायारे ॥२॥

सुरासुरमनुष्ठेन्द्र – वंदितं घातिवातनम् ।

प्रणमामि वर्द्धमानं धर्मतीर्थप्रवर्तकम् ॥३॥

इतरानपि तीर्थेशान प्रणमामि तथा ऽखिलान् ।

सिद्धान् विशुद्धसज्जावान् मुनीनाचारतत्परान् ॥४॥

नर सुर असुर आदि से पूजित घातिवात कर्त्ता भगवान् ।

वर्द्धमान तीर्थङ्कर हैं उनको मेरा हो नमन महान् ॥

ऐसे ही जो और तीर्थकर होवेंगे होगये च हैं ।

केवलि सिद्ध साधु उनके चरणों में भी करवद्ध रहें ॥५॥

ते ते सब्वे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं ।  
 वंदामि य वद्वन्ते अरहंते माणुसे खेते ॥३॥  
 किञ्चा अरहंताणं सिद्धाणं तह एमो गणहराणं ।  
 अजभावयवग्गाणं साहूणं चेदि सब्वेसि ॥४॥

नृलोके वर्चमानांस्तान् सर्वानिष्ठ्यर्हतः सदा ।  
 एकहेलं प्रणम्याथ प्रणमामि पुनः पृथक् ॥३॥  
 नत्वा ऽर्हतस्त्रिभिर्योगैः सिद्धान् गणधरानपि ।  
 उपाध्यायानथो साधून् सर्वानिह पुनः पुनः ॥४॥  
 नमस्कार हो अरहन्तोंको सिद्धोंको गणपतियोंको ।  
 उपाध्याय लोगोंको भी फिर मेरा यों सब-यतियोंको ॥  
 विशुद्ध दर्शन वोध विधायक जिनके उत्तम आश्रमसे ।  
 साम्यभावको मैं पा करके पाऊं निर्वाण क्रमसे ॥५॥

**सारांशः**—यहाँ प्रथम वृत्तमें स्वामी कुन्दकुन्दाचार्य देवने भगवान् वद्वमान तीर्थङ्करको नमस्कार किया है । सो इसमें विचारकी बात यह है कि—कुन्दकुन्दाचार्यके समयमें तो श्री वद्वमान स्वामी आठों कर्मोंसे रहित हो चुके थे, फिर भी यहाँ पर उनके लिये धातिधातकर्त्ता ही क्यों कहा गया है ? तो इसका उत्तर यह है कि—आत्माके द्वारा जीतने योग्य यद्यपि आठ कर्म हैं परन्तु उनमेंसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय इसप्रकार इन धातिया कहलानेवाले चार कर्मों पर तो प्रयत्नपूर्वक विजय प्राप्त करनी पड़ती है, वाकीके अधातिया कहलानेवाले चार कर्म तो उन पूर्वोक्त धातियाकर्मोंको दूर हटा देने पर फिर समयानुसार अनायास ही इस आत्मासे दूर हो जाया करते हैं एवं धर्मतीर्थ प्रवर्तक तथा सकलज्ञ भी धातिकर्मोंके नाश होते ही हो जाते हैं । इसी बातको ध्यानमें रखते हुए आचार्यश्री ने ऐसा लिखा है ।

तेसि विशुद्धदंसणणाणपहाणासमं समासेज्ज ।  
 उवसंपयामि सम्मं जत्तो णिव्वाण संपत्ती ॥५॥

संपज्जदि णिव्वाणं देवासुरमणुयरायविहवेहिं ।  
जीवस्स चरित्तादो दंसणाणप्पहाणादो ॥६॥

विशुद्धदर्शनज्ञानं प्रधानं तेषामाश्रमम् ।  
गत्वा साम्यमवाप्नोमि निर्वाणावासिरित्यतः ॥५॥  
सदृष्टिज्ञानयुक्तेन चरित्रेणोह देहिनः ।  
सम्पद्यते समं मुक्ति सुरेशनृपवैभवैः ॥६॥

उनके प्रबचनसारको यहाँ हिन्दी छन्दोंमें गाऊँ ।  
अपना और भद्रलोगोंका जिसपरसे हित कर पाऊँ ॥  
सम्यग्ज्ञानसहित चेतनका चरित सदा सुख भरता है ।  
श्री सुरेश (देवासुर) मानवराज विभवयुत शिवपदको करता है ॥३॥

**सारांशः**—सम्यक्दर्शन सम्यक्ज्ञान सहित जो सम्यक्चारित्र है वह सराग और वीतरागके भेदसे दो प्रकारका होता है । वीतराग चारित्रसे तो साक्षात् निर्वाणकी प्राप्ति होती है किन्तु सराग चारित्रसे देवेन्द्रपद प्राप्त करके तदुपरान्त मनुष्यभवमें चक्रवर्ती या बलदेव वगैरह की राजविभूतिको प्राप्त करके फिर मुनि होकर मुक्ति प्राप्त करता है । एवं सरागचारित्र परम्परा मुक्तिका कारण माना गया है; यही यहाँ बतलाया है । मूलग्रंथकी छठी गाथाका शुद्ध पाठ ‘संपज्जदि णिव्वाणं देवेसुरमणुयरायविहवेहिं’ ऐसा है क्योंकि सम्यक्हृष्टि जीव मरकर असुरोंमें कभी भी उत्पन्न नहीं होता है । यह बात दूसरी है कि कोई सम्यग्हृष्टि जीव चारित्र धारण करके भी किसी असुरकुमारकी विभूतिको देखकर उसका सम्यक्त्व नष्ट हो जानेसे लालायित होकर निदान बंध करले तो वह मरकर धरणीन्द्र जैसी अवस्था भी प्राप्त कर लेता है । इस अपेक्षासे ‘देवासुरमणुयरायविहवेहिं’ ऐसा पाठ भी हो सकता है ।

आगे चारित्रके स्वरूपको प्रगट कर बतलाते हैं :—

चारितं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिहिं ।  
मोहकखोह विहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥७॥

परिणमदि जेण दब्वं तक्कालं तम्मय त्ति पण्णत्तं ।  
तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुण्यव्वो ॥८॥

चरणं शमरूपेण चारिं धर्मं नाम भाक् ।  
आत्मनः परिणामो हि मोहक्षोभातिगः शमः ॥७॥  
येन रूपेण पर्येति तदा ॐ त्मा तन्मयः स्वयम् ।  
भवतीति पुनः धर्मनाम्ना ॐ त्मापि निगद्यताम् ॥८॥

जो शमभावरूप होता है वही धर्म है कहलाता ।  
मोहक्षोभविहीन आत्मपरिणाम लैनमत यों गाता ॥  
धर्मरूप परिणत आत्मा भी धर्म कहा जा सकता है।  
क्योंकि भावसे भाववान तन्मयता तत्क्षण रखता है ॥९॥

जीवो परिणमदि जदा सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो ।  
सुद्धेण तदा सुद्धो हवदि हि परिणामसब्भावो ॥६॥  
एतिथ विणा परिणामं अत्थो अत्थं विणेह परिणामो ।  
दब्वगुणपञ्जयत्थो अत्थो अतिथित्पिण्वत्तो ॥१०॥

यदा परिणमत्यात्मा शुभेन शुभं इष्यते ।  
अशुभेनाऽशुभः शुद्धः शुद्धेन परिणामतः ॥९॥  
परिणाममृतेनार्थः परिणामश्च तं विना ।  
यतोऽर्थः सन् द्रव्यगुणं पर्यात्मा प्रकीर्त्यते ॥१०॥

यहाँ शुभाशुभशुद्धरूपसे तीन तरह परिणमन करे ।  
है परिणमन स्वभाव चेतन जो कि तदा तन्नाम धरे ॥  
वस्तु विना परिणाम और परिणाम विना न वस्तु कोई ।  
क्योंकि द्रव्य गुण पर्यवाली वस्तु वही जो हो सोई ॥५॥

सारांशः—ज्ञानके द्वारा जाननेमें आवे उसे वस्तु या अर्थ कहते हैं,  
वह द्रव्य गुण और पर्यात्मक सत्ताको स्वीकार किये हुए सद्गूप होता  
है । जो अपने आपको स्वीकार करते हुए भी औरसे और रूपमें होता  
है उसे द्रव्य कहते हैं । उस द्रव्यको स्थित रखनेवाली शक्तिको गुण  
और उसके परिवर्तनको पर्याय कहते हैं । ये तीनों वातें जहाँ पर हों

वह वस्तु ज्ञानका विषय हुआ करती है। अब यहाँ पर एक बात विचारणीय है, वह यह है कि—

गुण और पर्याय ये दोनों बातें जिसमें हों वह द्रव्य होता है। उसीको वस्तु कहते हैं और वही ज्ञानका विषय होता है, ऐसा हरएक विद्वान् मानता है परन्तु श्री कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं कि द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों बातें जिसमें हों वह वस्तु ज्ञानका विषय होती है। मानलो हमारे सम्मुख एक चीज आई जो हमारे अनुभवमें इसप्रकार आती है कि—

यह एक खट्टे रसवाला आम है। इसमें आम तो विकारी द्रव्य है। जिसका रस गुण है और खट्टापन उस रस गुणकी पर्याय है। सो वहाँ पर वह उस आमका रसगुण खट्टेपन मात्र ही नहीं, किन्तु उससे अधिक दायरेवाला है। वहाँ खट्टापन मिटकर मीठापन आनेवाला है। इसीप्रकार आम भी रसगुण मात्र ही न होकर वह उससे भिन्न कहलानेवाले रूप, स्पर्श, गन्धादि अनेक गुणोंका पुङ्ग है। जिससे रसगुण कथञ्चित् भिन्न है, जो कि रसना इन्द्रियके द्वारा पहिचाना जाता है। एवं द्रव्य, गुण पर्याय ये तीनों हमारी हृष्टिमें भिन्न भिन्न होकर भी ऐसे भिन्न नहीं हैं कि उनको हम देशापेक्षया भी भिन्न कर सकें। जिस प्रदेश अर्थात् वस्तुमें खट्टेपनको लिए हुए हमें रसका अनुभव होता है, वहीं पर उसके साथ साथ इतर स्पर्शादि गुणोंके पुङ्गात्मक आमका भी अनुभव हो रहा है। वस्तु परिणमनशील होती है। जो अपने परिणमन के साथमें तादात्म्य, अभिन्न भावको लिए हुए हुआ करती है। वस्तुमें हरसमय कोई न कोई परिणमन अवश्य होता ही है। वस्तुको छोड़कर परिणमन नहीं होता है। इसीप्रकार परिणमनके बिना वस्तु भी स्थित नहीं रह सकती है।

आत्मा भी वस्तु है अतः परिणमनशील है। जिसका परिणमन शुभ, अशुभ और शुद्धके भेदसे तीन तरहका होता है और जब जैसा परिणमन होता है उस समय वह आत्मा ही स्वयं वैसा बन जाता है।

शुभ परिणमनके समय शुभ तथा अशुभके समय अशुभ और शुद्धके समय यह आत्मा ही शुद्ध हो जाता है।

अब आत्माके किस परिणमनका क्या फल होता है, यही बताते हैं :—

धर्मेण परिणदप्या अप्या जदि सुद्धसंपयोगजुदो ।  
पावदि णिवाणसुहं सुहोवजुतो व सग्गसुहं ॥११॥  
असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवीय णेरइयो ।  
दुक्खसहस्रैहिं सदा अभिंधुदो भमदि अच्चंतं ॥१२॥

शुद्धोपयोगवान् मुक्ति धर्मात्मा प्रतिपद्यते ।  
शुभोपयोगवान् स्वर्ग-सुखं स इति शासनम् ॥११॥  
अशुभोदयतः किन्तु कुनरो नारकः पशुः ।  
भूत्वा भ्रमति संसार-वने दुःखीभवन् भ्रशम् ॥१२॥

शुद्धोपयोग युत होता है पाता है निर्बाण वही ।  
जब होता है शुभोपयोगी तो पाता है स्वर्ग सही ॥  
अशुभोदयसे तो कुमर्त्य तिर्यक्ष नारकी हो करके ।  
घोर दुःख पाता अनन्त संसारितया यह मर करके ॥६॥

**सारांशः**—यहाँ पर पाठक देख रहे हैं कि शुद्ध और शुभके साथमें तो उपयोग शब्द है किन्तु अशुभके साथ उपयोग शब्द न होकर उदय शब्द दिया गया है। ऐसा क्यों? इसका मतलब यह है कि शुद्ध या शुभ उपयोगकी अवस्थामें आत्मा अपने आत्मत्वको स्वीकार किये हुए रहता है किन्तु अशुभकी दशामें आत्मभावसे दूर हटकर उत्पथको अपनाये हुए रहा करता है। शुद्ध या शुभोपयोगी जीव धर्मात्मा होता है और अशुभोपयोगी जीव अधर्मी, पापी, पाखण्डी होता है। इसीलिये वह नरकादिक दुःखोंका भाजन होता है।

**शङ्खः**—आपने शुभोपयोगी जीवको धर्मात्मा बताया सो हमारे तो समझमें नहीं आया क्योंकि धर्म तो शुद्धोपयोगका नाम है, जिससे मुक्तिकी प्राप्ति होती है। एवं वह जिसके हो उसे धर्मात्मा कहना ठीक है

जैसा कि यहीं पर नं० ११ की गाथामें—‘यदि आत्मा शुद्धसम्प्रयोगयुत-स्तदा तदा धर्मेण परिणतो भवति यतो निर्वाणसुखं प्राप्नोति’ लिखा हुआ है। तथा और भी जैन ग्रंथोंमें हमने तो यहीं सुना है कि जो जीवको मुक्ति प्राप्त करा देता है, वहीं धर्म है जैसा कि श्री रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें कहा है—‘देशयामि समीचीनं धर्मं कर्मनिवर्हणम् । संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे ॥२॥’ इस श्लोकसे भी स्पष्ट हो रहा है। शुभोपयोग तो अशुभोपयोगकी तरहसे ही संसारका कारण है। यह बात दूसरी है कि—अशुभोपयोगसे नरक निगोदमें जाता है और शुभोपयोगसे स्वर्गमें जाता है।

**उत्तरः—** यह तो तुम्हारा कहना ठीक है कि जीवको मुक्ति प्राप्त करानेवाला धर्म है किन्तु संसारमें ही बुमानेवाला अधर्म होता है। फिर भी जैनाचार्योंने उस धर्मको सम्यकदर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूपसे तीन भागोंमें विभक्त कर बताया है जैसा कि इसी ग्रंथकी छठी गाथामें भी आया है। उसमें भी प्रधानता सम्यक्चारित्रकी है क्योंकि सफलता चारित्रके हीं आधीन है। सरल शब्दोंमें, समता भावका नाम चारित्र है जो कि मोह और क्षोभसे या अहंकार और ममकारसे रहित आत्माका परिणाम होता है। जैसा कि यहीं सातवीं गाथामें बताया जा चुका है। वह चारित्र दो प्रकारका होता है। एक तो मोह और क्षोभसे सर्वथा रहित होता है अतः संसाराभावरूप अपने कार्यको करनेमें पूर्ण समर्थ होता है उसे शुद्धोपयोग या वीतराग चारित्र कहते हैं।

दूसरा वह होता है—जहाँ मोहका तो अभाव होता है परन्तु क्षोभ ( राग द्वेष )का सर्वथा अभाव न होकर आंशिक सद्भाव बना रहता है जिससे वह अपनी शक्तिका विकास न कर सकनेके कारण तत्काल अपने कार्यको सम्पन्न नहीं कर सकता है। ऐसे चारित्रको ही सरागचारित्र या शुभोपयोग कहते हैं। इस शुभोपयोग वाला जीव लौकान्तिक या अनुत्तरिक देव तथा बलभद्र तीर्थकरादि पद पाता हुआ

अपनी आत्मामें समाइवासन प्राप्त करता है। जो कि शुभोपयोग एक अशक्त धर्मात्माके लिए शक्ति सम्पादनका हेतु होनेसे ठीक ही है।

**चङ्गाः—**तो फिर टीकाकार अमृतचंद्राचार्यने उसे ( शुभोपयोग ) हेय क्यों लिखा ?

**उत्तरः—**उन्होंने शुद्धोपयोगको दृष्टिमें रखते हुए शुभोपयोगको हेय बताया है, सो ठीक ही है। शुद्धोपयोगकी अपेक्षासे तो शुभोपयोग हलका ही है। जैसे मानलो, दो मनुष्य एक स्थान पर जानेके लिये रवाना हुए। इनमेंसे जो द्वाध्यवसायी है वह वेरोकटोक सीधा शीघ्रता से चला जारहा है। दूसरा भी उसी सङ्क पर धीरे धीरे वीचमें विश्राम लेते हुए चल रहा है। ये दोनों ही एक ही पथके पथिक हैं परन्तु चलनेमें उत्तमता पहिले मनुष्यकी है। इसीप्रकार शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी इन दोनोंका सम्यक्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रलूप मार्ग एक ही है। दोनों ही मुक्तिको लक्ष्यमें लेकर चलते हैं अतः दोनों ही वर्मानुयायी हैं। भेद इतना ही है कि वह ( शुद्धोपयोगी ) द्वेद रहित है और यह ( शुभोपयोगी ) खिन्नताको लिए हुए है। जैसा कि टीकाकार श्री अमृतचन्द्र लिखते हैं—

यदायमात्मा धर्मपरिणतस्वभावः शुद्धोपयोगपरिणामिमुद्वहति तदा  
निःप्रत्यनीकशक्तितया स्वकार्यकरणसमर्थचारित्रः साक्षात्मोक्षमवाप्नोति ।  
यदा तु धर्मपरिणतस्वभावोऽपि शुभोपयोगपरिणत्या संगच्छते तदा सप्रत्य-  
नीकशक्तितया स्वकार्यकरणसमर्थः कर्थंचिद्विरुद्धकार्यकारिचारित्रः शिखितस-  
षुतोपसिक्तपुरुषो दाहदुःखमिव स्वर्गमुखवन्धमवाप्नोति ।

आचार्य महाराज कहते हैं कि मानलो दो मनुष्य हैं जिनके रूपके हवा लगनेसे शरीरमें दर्द होगया है। दोनों ठीक होना चाहते हैं। इनमें एक व्यायामशील है जो दण्ड वैठकादि करके पसीना निकल जानेसे अनायास ही स्वस्थ होजाता है। दूसरा अपने शरीरके दर्दको मिटानेके लिए अग्नि पर उष्ण किये हुए तेल या वृत्तकी मालिश करता है जिसमें उसका दर्द तो धीरे २ कम होजाता है परन्तु इसके जो गरम

गरम तेल लगाया जारहा है उसकी कुछ पीड़ा भी होरही है। इसीप्रकार शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी ये दोनों ही मोक्षमार्गी हैं। दोनों ही धर्मात्मा हैं परन्तु इनमेंसे शुद्धोपयोगी जीव तो अपनी पूर्ण शक्तिसे धर्ममें लगा हुआ रहता है अतः साक्षात् मोक्षको प्राप्त कर लेता है, और शुभो-पयोगी जीव भी धर्मरूप अवश्य परिणत होरहा है फिर भी वह अपनी शक्ति दबी हुई होनेसे अपना अभीष्ट कार्य पूरा न कर सकनेके कारण सुधाररूप चेष्टाके साथ साथ कुछ विगाड़रूप चेष्टाको भी लिये हुए होता है अतः स्वर्गसुख प्राप्त करता है। मतलब यह है कि शुभोपयोगी जीव अंपूर्ण धर्मात्मा होता है।

अशुभोपयोगी जीव तो सर्वथा ही धर्मशून्य अधर्मी पापी होता है जिससे वह कुयोनियोंमें परिभ्रमण करता रहता है। जैसा कि श्रीअमृतचंद्रजी बारहवीं गाथाके अर्थमें लिख रहे हैं—‘यदायमात्मा मनागपि धर्मपरिणति-मनासादयन्नशुभोपयोगपरिणतिमालम्बते तदा कुमनुष्यतिर्यङ् नारकभव-भ्रमणरूपदुःखसहस्रवन्धमनुभवति’। यह सब लिखनेका तात्पर्य यह है कि अशुभोपयोग अत्यन्त हेय है। इससे शुभोपयोग अच्छा है क्योंकि इसके हो जाने पर धर्म की अभिरुचि अवश्य होती है परन्तु उस धर्मकी पूर्णता शुद्धोपयोगके विना नहीं हो सकती है। वास्तविक अतीन्द्रिय स्वाभाविक आत्मोय सुखकी प्राप्ति शुद्धोपयोग वालेको ही होती है, यही अब बताते हैं—

अइसयमादसमुत्थं विसयातीदं अणोवममणंतं ।  
अब्बुच्छणं च सुहं सुदधुवओगप्पसिद्धाणं ॥१३॥  
सुविदिदपयत्थसुत्तो संजमतवसंजुदो विगदरागो ।  
समणो समसुहदुक्खो भणिदो सुद्धोवओगोत्ति ॥१४॥

आत्मोत्थं विषयातीत - मनन्तमनुपद्रवम् ।

अत्युन्नतमनुपमं सुखं शुद्धोपयोगिनाम् ॥१३॥

ज्ञाततत्वार्थसूत्रस्य संयतस्य विरागिणः ।

समदुःखसुखस्यैष उपयोगः प्रशुद्धयति ॥१४॥

शुद्धोपयोगसे ही चेतन नित्य सुखी कहलाता है ।  
 अनुपम विषयातीत आत्मगत वह अनन्तसुख पाता है ॥  
 तत्वार्थश्रद्धानी होकर संयमतपयुत जो योगी ।  
 समसुखदुःखतया विराग हो वह शुद्धोपयोग भोगी ॥७॥

**सारांशः**—यहाँ आचार्यश्रीने शुद्धोपयोगवालेको ही वास्तविक सुख होता है ऐसा कहते हुए यह वतलाया है कि शुद्धोपयोग उसी पुरुषके होता है जो सर्वप्रथम यथार्थ तत्त्वोंका श्रद्धान करके अपने उपयोगको अशुभसे हटाकर शुभरूप बना लेता है । वाह्य संपूर्ण पदार्थोंका त्याग करते हुए संयम धारण करके साधु दशाको स्वीकार कर लेता है । फिर अपने अंतरंगमें भी स्फुरायमान होने वाले रागद्वेष भाव पर भी विजय प्राप्त करता हुआ पूर्ण विरागता पर आजाता है । उसकी दृष्टिमें न तो कोई शब्द ही होता है और न कोई मित्र ही होता है । वह सुख और दुःखको विलकुल समान समझता है । आत्मामें उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, मद, मात्सर्य और ईर्षा आदि विकारी भावोंका मूलोच्छेद करके जबतक अपने आपको शुद्ध न बना लिया जावे तबतक वास्तविक पूर्ण शान्ति नहीं मिल सकती है । और इन सब विकारोंका मूलोच्छेद इस दुनियाँदारीकी भंभटवाले कौटुम्बिक जीवनमें फैसे रह कर कभी नहीं हो सकता किन्तु इससे मुक्त होकर निर्द्वन्द्व दशा अपनानेसे ही हो सकता है ।

**शङ्काः**—क्या आत्मा वास्तवमें अशुद्ध है ?

**उच्चरः**—वास्तव शब्दका मतलब होता है केवलपन । केवल (अकेले) पनकी अवस्थामें विकार नहीं हो सकता है । परन्तु इस आत्माके साथमें अनादिकालसे कर्मपुद्गल परमाणुओंका मेल होरहा है अतः इस संसारी जीवमें विकार है ।

**शङ्काः**—आत्माके साथ कर्मोंका मेल है तो भी क्या हुआ ? कर्मोंका एक भी परमाणु आत्मरूप और आत्माका एक भी प्रदेश कर्मपरमाणुरूप नहीं हुआ है, फिर आत्माका क्या विगड़ गया । आत्माके प्रदेश भिन्न हैं और कर्मपरमाणु भिन्न हैं । जैसे कुछ गेहूं हैं । इनमें कुछ कड़र मिला

देनेसे ये कङ्करदार होगये, फिर भी गेहूं, गेहूं ही हैं और कङ्कर, कङ्कर ही हैं। हम जब चाहे गेहूंसे कङ्करोंको निकालकर बाहर कर सकते हैं।

**उत्तरः—** कर्मरूप पुद्गल परमाणुओंके साथ आत्माका सम्बन्ध होकर भी कोई भी कर्मपरमाणु आत्मरूप और कोई सा भी आत्माका प्रदेश कर्मपरमाणु रूपमें नहीं हो गया है। यह बात तो ठीक है किन्तु आत्मा और कर्मोंका गेहूं और कङ्करोंके समान मेल नहीं है क्योंकि आत्माके प्रदेश गेहूंकी तरह भिन्न नहीं होते हैं। आत्मा तो असंख्यात प्रदेशोंका एक अखण्ड द्रव्य है। वह किसी तूम्बीके ऊपर मिट्टीकी तरह आत्माके ऊपर कर्मपुद्गसे लिपट रहा हो, ऐसा नहीं है। सरल रीतिसे समझनेके लिये संसारी आत्माके साथमें कर्मका सम्बन्ध तो पुरुषके साथ स्त्रीके सम्बन्धकी तरह है। जिसप्रकार स्त्रीके प्रभावमें पुरुष और पुरुषके प्रभावमें स्त्रीका प्रचलन रहता है वैसे ही आत्मपरिणामोंसे कर्मोंका और कर्मोंके प्रभावसे आत्माका प्रचलन रहता है। मतलब यह है कि जैसे अग्निके सम्पर्कसे मोम अपने घनत्वको त्यागकर पिघल जाया करता है वैसे ही स्त्री पुत्रादि बाह्य पदार्थोंके सम्पर्कमें मोहनीयादि कर्मोंके उदयको पाकर आत्मा भी रागद्वेषादि विकारोंके रूपमें परिणत हो जाया करता है अतः आत्माको उन विकारोंसे रहितं शुद्ध बनाना चाहे तो मोहनीयादि कर्मों पर विजय पानेके लिए स्त्री पुत्रादि रूप बाह्य पदार्थोंसे अवश्य ही दूर हटना होगा जैसे कि मोमको घनत्व पर लानेके लिये अग्निपरसे दूर करना पड़ता है।

उवश्चोगविसुद्धो जो विगदावरणंतरायमोहरश्चो ।  
भूदो सयमेवादा जादि परं णेयभूदाणं ॥१५॥  
तह सो लद्धसहावो सव्वरणू सव्वलोगपदिमहिदो ।  
भूदो सयमेवादा हवदि सयंभु त्ति णिदिद्वो ॥१६॥

विशुद्धया शुद्धतामासो हत्वा धातिचतुष्टयम् ।

णेयभूतसमस्तार्थ – पारमाणु समेति सः ॥१५॥

तथा लव्यस्वभावस्सन् पूज्यते सज्जनैरितः ।

स्वयम्भू भगवान् सर्व-विदादि शुभनामभिः ॥१६॥

निज विशुद्ध उपयोगद्वारा घातिकर्म जो हनता है ।

ज्ञेयभूत सम्पूर्ण वस्तुके पारङ्गत् वह बनता है ॥

यो लब्धस्वभाव होनेसे स्वयम्भू च सर्वज्ञ भवा ।

सर्वलोकपतियोंसे पूर्जित होता है परमात्मतया ॥५॥

**सारांशः—** जब यह जीव अशुभसे शुभोपयोग पर आता है तब गुरुमुखसे तत्त्वोंका स्वरूप सुनकर ठीक ठीक श्रद्धान करता है । फिर शाम और दमके द्वारा विशुद्धसे विशुद्धतरके रूपमें परिणत होनेवाले अपने परिणामोंको प्राप्त करता है और अपने अन्तरङ्गकी क्षुब्धताको भी जीतकर चित्तकी स्थिरतासे पूर्ण वीतराग होता हुआ अपने ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायको भी दूर हटाकर साक्षात् सर्वज्ञ हो जाता है । एवं संसारी जीवोंके लिये परमाराध्य बन जाता है । जिसे परमात्मा, भगवान्, स्वयम्भू, परमेष्ठी और अरहन्तादि नामोंसे पुकारते हुए स्मरण किया जाता है । इसप्रकार वह संसारमुक्त हो जानेके बादमें, फिर संसारी कभी भी नहीं होता है, यही बताते हैं—

भंगविहीणो य भवो संभवपरिवज्जिदो विणासो हि ।

विजजदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवायो ॥१७॥

उप्पादो य विणासो विजजदि सव्वस्स अटुञ्जादस्स ।

पञ्जाएण दु केणविं अट्टो खलु होदि सव्वभूदो ॥१८॥

यत्र नाशातिगाजाति नाशो जन्मविवर्जितः ।

तथापि विल्योत्पत्ति स्थितितादात्म्य वृच्छिता ॥१७॥

नाशः केनापि रूपेणो — त्पत्तिरपि प्रतिक्षणम् ।

सद्गावश्च सदैवास्ति यतः सर्वस्य वस्तुनः ॥१८॥

भज्जहीन-उत्पाद और उत्पादहीन हो नाश जहाँ ।

किन्तूत्पत्ति विनाश स्थिति समवाय सहित सद्भाव वहाँ ॥

फहिली पर्यय विनष्ट होकर उत्तर पर्यय होती है ।

सब चीजोंमें किन्तु चीज सद्भूतपनेको जोती है ॥८॥

**सारांशः—** जिस शुद्ध अवस्थाकी प्राप्ति हुई है उसका अव कभी भी अभाव नहीं होगा और जिस अशुद्ध दशाका अभाव कर दिया गया

है उसका फिर कभी सद्भाव नहीं होगा । ऐसा होते हुये भी इस परम विशुद्ध आत्मामें—द्रव्यका असाधारण लक्षण जो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्ययुक्तता है उसका अभाव नहीं होता है । क्योंकि ऐसा होने पर तो आत्माका अस्तित्व ही नहीं रहता है अतः ऐसा कभी नहीं हो सकता है । प्रत्युत हरएक द्रव्य अपनी पूर्व पर्यायिका उल्लंघन करके तदुत्तर पर्यायिके रूपमें परिणत होता रहता है । यह परिणमन दो प्रकारका होता है । एक विलक्षणतासे और दूसरा स्वलक्षणतासे । जैसे आम हरेसे पीला होजाया करता है, यह विलक्षण परिणमन हुआ । एवं कोई भी चीज वैसीकी वैसी होकर भी हमें नईसे पुरानी प्रतीत होने लगती है यह स्वलक्षण परिणमन हुआ ।

सूर्यका प्रतिबिम्ब जिसे हम लोग नित्य देखा करते हैं बहुत पुराना है फिर भी हमको वैसा ही प्रतीत होता है । किन्तु उसमें अपने आपमें परिणमन अवश्य होता है । स्पष्ट रूपमें जाड़ेके दिनोंमें उसके घाममें मंदपना और गरमीके दिनोंमें उसमें तेजी दीख पड़ती है । निरन्तर उसमेंसे किरणें प्रगट होती रहती हैं । फिर भी सूर्यबिम्ब सदासे ऐसा ही है जैसा कि आज दीख रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा । इसीप्रकार शुद्धात्मा भी अब शुद्ध ही रहेगा । उसमें उसके अगुरुलघु गुणकी अपेक्षासे निरन्तर परिवर्तन होते हुए भी वह किसी दूसरे रूपमें कभी भी नहीं बदलता है । जैसे कि पहिले अशुद्ध दशामें नरसे नारकी और नारकीसे पशु तथा देव वगैरह होजाया करता था । ऐसे इस घातिकर्महर्ता भगवान्का जो लोग स्मरण करते हैं उनके भी दुःख दूर हो जाया करते हैं, यही बताते हैं—

**पुक्खीणधादिकमो अण्त्वरवीरिओ अधिकतेजो ।**

**जादो अदिंदिओ सो णाणं सोऽखं च परिणमदि ॥१९॥**

**तं सञ्चटुवरिटुं इटुं अमरासुरप्पहाणेहि ।**

**ये सदहंति जीवा तेसि दुक्खाणि खीयंति ॥२०॥**

यो धातिकर्मणां हन्ता युक्तोऽतीन्द्रियसम्पदा ।

अनन्तदर्शनज्ञान — वीर्यशर्मसमन्वितः ॥१९॥

अमरासुरनाथैत्तै - रिणं श्रीपरमेष्ठिनम् ।

अनुध्यायन्ति ये नूनं तेषां दुःखस्यं भवेत् ॥२०॥

घातिधातकर अतुलबीर्य होनेसे अधिक तेजवाले ।

अक्षातीत वोध सुख पाते हुए आपको सम्भाले ॥

अमरासुर वर भी जिनके चरणोंमें मरतक घिसते हैं ।

उस परमार्थभूतको माने उसके दुःख विनशते हैं ॥१०॥

सोकखं वा पुण दुक्खं केवलणाणिस्स एत्थि देहगदं ।

जम्हा अदिंदियत्तं जादं तम्हा दु तं ऐयं ॥२१॥

परिणमदो खलु णाणं पच्चक्खा सव्वदव्वपञ्जाया ।

सो ऐव ते विजाणदि उग्रहपुव्वाहिं किरियाहिं ॥२२॥

नचेन्द्रियाणां व्यापारः कथञ्चिदपि विद्यते ।

कुतः सम्भविनी तस्य ग्रासाहारादि कल्यना ॥२३॥

यतो न क्रमतो ज्ञानं परिणामो महीशितुः ।

किन्तु सर्वपदार्थानां युगपत् समनुग्रहः ॥२४॥

नहीं केवलज्ञानवानके सुख दुख शरीरगत होते ।

क्योंकि इन्द्रियातीत वोधसे सबको एकसाथ जोते ॥

मतिज्ञानपूर्वक क्रमार्जित नहीं काम उनका होता ।

फिर क्यों खाने पीने किसी बातोंका हो समझौता ॥११॥

सारांशः—कुछ लोगोंका यह प्रश्न हो सकता है कि वीतराग सर्वज्ञ होजाने पर जवतक यह आत्मा शरीरमें विद्यमान रहता है तबतक तो छव्यस्थकी तरह वह भी खाना पीना करता ही होगा ? इसी प्रश्नका यहाँ उत्तर दिया गया है । जब भगवान् सर्वज्ञ होगये, सब वातों को युगपत् जानने लगे और किसी भी बातकी चाह नहीं रही तब फिर उन्हें खानेकी क्या आवश्यकता है ? खानेका मतलब तो यह है कि भोजनस्वाद जिह्वाके द्वारा लिया जावे ।

शङ्का:—श्री अरहन्त भगवान् स्वाद लेनेके लिये नहीं किन्तु देहस्थितिके लिए भोजन करते हैं ।

**उत्तरः—** क्या भगवान् शरीरको रखना चाहते हैं ? नहीं, क्योंकि उन्हें अब शरीरसे कोई भी प्रयोजन शेष नहीं रहा है । उनका शरीर तो आयुकर्मके आधार पर स्थित है । वह न तो नष्ट ही किया जासकता है और न उसकी रक्षा ही की जासकती है । वह तो निश्चित समय पर अपने आप ही आयुकर्मके अभावसे छूट जावेगा ।

**शङ्काः—** वेदनीय कर्मके उदयका भी कुछ कार्य होना चाहिये ?

**उत्तरः—** सिंहासन छत्र चामरादिकका होना वेदनीय कर्मके उदयसे ही होता है । भोजन करना तो मोहनीय कर्मके उदय और ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अन्तराय कर्मके क्षयोपशमसे हुआ करता है । जिनकी सत्ता भगवान् अर्हन्तके सर्वथा नहीं है । वे अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्यके धारक हो चुके हैं । उनके केवलज्ञानमें सब पदार्थ एक साथ प्रतिभासित होते रहते हैं । ऐसा ही कहते हैं—

एतिथि परोक्खं किञ्चिवि सब्बक्खगुणसमिद्धस्स ।  
अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्स ॥२३॥  
आदा णाणपमाणं णाणं णेयप्पमाणमुद्दिद्दुं ।  
णेयं लोयालोयं तम्हा णाणं तु सब्बगयं ॥२४॥

सर्वक्षगुणयुक्तस्य समन्ताज्ञानशालिनः ।  
न परोक्षमस्ति किञ्चि—दक्षातीत महस्विनः ॥२३॥  
ज्ञानप्रमाणमेवात्मा ज्ञानं ज्ञेयसमर्थितम् ।  
लोकोऽलोकोऽप्यहो ज्ञेयो ज्ञानं सर्वगतं ततः ॥२४॥

नहीं जानने लायक जिनके रहा जरा भी तो बाकी ।  
समुपलब्ध हो चुकी सदाके लिए अतीन्द्रिय विद्याकी ॥  
ज्ञानमात्र वस्तुतया आत्मा ज्ञान ज्ञेय मित होता है ।  
ज्ञेय अलोक लोक सब ऐसे सर्वज्ञपनको ढोता है ॥१२॥

णाणपमाणमादा ण हवदि जससेह तस्स सो आदा ।  
हीणो वा अधिगो वा णाणादो हवदि धुवमेव ॥२५॥

हीणो जदि सो आदा तरणाएमचेदराणं ण जाणादि ।  
अधिगो वा णाणादो णाणेण विणा कहं णादि ॥२६आ॥  
सव्वगदो जिणवसहो सव्वे वि य तमगया जगदि अट्ठा ।  
णाणमयादो य जिणो विसयादो तस्स ते भणिदा ॥२६ब॥

आत्माहीनो यदि ज्ञाना-चज्ञानं चेतनं कथम् ।  
अधिकश्चेद्विना ज्ञानं ज्ञातात्मा स कुतो भवेत् ॥२४॥  
आत्मा ज्ञानप्रमाणं न यस्यकस्यापि सम्मते ।  
हीनोवास्त्वविकोवास्तु सज्ज्ञानान्वियमेन सः ॥२५आ॥  
सर्वगतो जिनाधीशः सर्वेऽर्थस्तद्विषयास्तुते ॥२५ब॥  
ज्ञाता यतोऽखिलार्थानामहस्तद्विषयास्तुते ॥२६॥  
ज्ञान अधिक यदि हो आत्मासे तो वह ज्ञान अचेतन हो ।  
यदि हो हीन हन्त वह आत्मा ज्ञान विना ज्ञाता न कहो ॥  
जगकी जितनी चीज ज्ञानका विषय सभी हैं यों करके ।  
ज्ञानी जिनसर्वग सब चीजें सदा आत्मगत जिनवरके ॥१३॥

**सारांशः**—आत्मा गुणी है और ज्ञान उसका गुण एवं ज्ञान और आत्मामें तादात्म्य है । ज्ञान आत्माको छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं रहता है और ज्ञानसे शून्य आत्माका एक भी प्रदेश कभी नहीं होता है । भगवान् आत्माका ज्ञान सम्पूर्ण संसारके सभी पदार्थोंको एक साथ स्पष्ट जानता है । कोई भी पदार्थ उनके ज्ञानसे बाहर नहीं है । वह सम्पूर्ण लोकाकाशके पदार्थोंकी तरह अलोकाकाशको भी जानता है, अतः विषय विषयीके रूपमें वह सर्वगत है । ज्ञान आत्मारूप है किन्तु आत्माके ज्ञानरूप होते हुए भी उसमें और भी गुण पाये जाते हैं, यही बताते हैं—

णाणं अप्पत्ति मदं बट्ठदि णाणं विणा ण अप्पाणं ।  
तम्हा णाणं अप्पा अप्पा णाणं व अणाणं वा ॥२७॥  
णाणी णाण सहावो अट्ठा एयप्पगा हि णाणस्स ।  
रुत्राणि व चकखूणं एवाण्णोणेसु बट्ठंति ॥२८॥

ज्ञानन्तु प्रभवेदात्मा दर्शनादिमयोऽपि सः ।  
इत्येवंरूपतो ज्ञाना—दात्माऽधिक इहेष्यते ॥२७॥  
रूपाणीक्षणवत्सर्वा नात्मार्थान् ज्ञातुमर्हति ।  
अन्योऽन्यमप्रवेशेऽपि यथोक्तमधिकारतः ॥२८॥

चेतन विना न बोध कहीं भी चेतन बोधरूप होता ।  
चारित्रादिरूप भी ऐसे धर्म धर्मिका समझौता ॥  
ज्ञानी ज्ञानात्मक होता है ज्ञेयात्मक पदार्थ सारे ।  
एक दूसरेमें न समावें दृष्टि यथा रूप निहारे ॥१४॥

**सारांश**—एक गुणीमें अनेक गुण होते हैं । जैसे गुलाबके फूलमें सुगन्ध, कोमलता, रेचकता और सुन्दरता आदि अनेक गुण होते हैं । वह गुलाबका फूल सुगन्ध मात्र ही नहीं होता है । वैसे ही आत्मा ज्ञानमय अवश्य है परन्तु ज्ञानमात्र ही आत्मा हो, ऐसी बात नहीं है । उसमें ज्ञानके साथ साथ सम्यक्त्व, दर्शन, अगुरुलघुत्व, अमूर्तत्व वगैरह और भी अनेक गुण हैं । ज्ञान आत्माके हरएक प्रदेशमें पाया जाता है और उसे छोड़ कर वह ज्ञान अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता है । ज्ञान आत्माका असाधारण गुण है । इसीसे यह आत्मा हरएक पदार्थको जानता है । अन्य पदार्थोंको जानते हुए भी आत्मा या आत्माका ज्ञान उन अन्य पदार्थोंमें प्रविष्ट नहीं होजाता है । पदार्थ अपने आपके प्रदेशोंमें स्थित रहते हैं और आत्मा अपने आपके प्रदेशोंमें स्थित रहता है । जैसे नेत्र अपनी जगह पर होता हुआ ही अन्य पदार्थोंमें पाये जाने वाले रूपको देखा करता है ।

ए पविद्वो णाविद्वो णाणी एयेसु रूवमिव चकखू ।  
जाणदि पस्सदि णियदं अक्खातीदो जगमसेसं ॥२६॥  
रथणमिह इंदणीलं दुद्धज्भसियं जहा सभासाए ।  
अभिभूय तंपि दुद्धं वद्विदि तह णाणमत्थेसु ॥३०॥

समाक्रम्याप्यनाक्रम्य ज्ञानी ज्ञेयेसु वर्तते ।  
यन्नियताकारत्वेन वस्तु गृह्णाति वस्तुतः ॥२९॥

यथा नीलमणिर्दुर्ग्धं भाण्डे क्षिसः स्वदीसितः ।  
स समस्तमहोद्युध—मभिवाप्य प्रवर्तते ॥३०॥

ज्ञान काचकी व्यों निर्मलतासे सब जग को गहता है ।  
ज्ञेयोंमें न समा करके भी तदाकार हो रहता है ॥  
दुर्घटभाग्धमें नीलमको यदि ढाल दिया वह निज भा से ।  
सभी दूधको नीला करदे त्यों जगको ज्ञान प्रकासे ॥१५॥

जदि ते ए संति अद्वा एाणे एाणं ण होदि सब्बगयं ।  
सब्बगयं वा एाणं कहं ए एाणद्विया अद्वा ॥३१॥  
गेरहदि ऐंव ए मुंचदि ण परं परिएमदि केवली भगवं ।  
पेच्छदि समंतदो सो जाएदि सब्बं णिरवसेसं ॥३२॥

नावतरन्ति चेदर्था वोधे किन्नाम वोधनम् ।  
अथ वोधस्थिताः किन्न ते तत्रावतरन्ति चेत् ॥३१॥  
वाठमर्हन्तशेषांस्तान् जानन् पश्यन्नपि स्फुटं ।  
नादचेन जहात्येव न मनाग् विचलत्यहो ॥३२॥  
यदि कहो कि न तदाकारतया भी वोधमें वस्तु वसे ।  
तो फिर कैसा उस पदार्थका ज्ञान हुआ यह तर्क लसे ॥  
हाँ आदानोड़कन विहीन होकर निरीह जिन वोध रहे ।  
सहजभावसे मणिके प्रकाशकी व्यों वस्तु विशेष लहे ॥१६॥

**सारांश**—ज्ञान जब पदार्थको जानता है तब वह उन्हें उनके रूपमें ही जानता है, यही ज्ञानका पदार्थकार होना है । ऐसा नहीं है कि वह उन्हें ग्रहण करता हो और छोड़ता हो या उनरूप स्वयं भी बन जाता हो । जैसे दर्पणके सम्मुख जब पदार्थ आते हैं तब उनका प्रतिविम्ब उस दर्पणमें पड़ता है फिर भी दर्पण उनरूप नहीं होता है । यदि ऐसा न माना जावे तो वर्फके प्रतिविम्बसे काच ठंडा और अग्निके प्रतिविम्बसे गर्म हो जाना चाहिए परन्तु ऐसा कभी होता नहीं है किन्तु प्रतिविम्बके रूपमें वे सभी पदार्थ दर्पणके अन्दर आया जाया करते हैं, यही ज्ञानकी दणा है । दूसरा उदाहरण—

नील मणिको यदि दूधके बरतनमें डाल दिया जावे तो उस नीलमणिकी कान्तिसे सारा दूध नीला दीखने लगता है। नीलमणि अपने रूपमें अपने स्थान पर ही रहता है और दूध बरतनमें रहता है तो भी उस नीलमणिकी नीली कान्ति सारे दूधको नीला बना देती है। इसीप्रकार ज्ञान भी हर पदार्थको ज्ञेयके रूपमें आक्रान्त करके रहता है। जितना ज्ञान है वह सबका सब आत्मा ही है। सर्वज्ञ भगवान्को सम्पूर्ण पदार्थोंका साक्षात् परिपूर्ण ज्ञान होता है अतः उनकी आत्मा भी पूर्ण और उनके साक्षात् है इसीलिये वे केवली कहलाते हैं। उन्हींके आदेश और उपदेशानुसार अपने विचारको जो स्थिर कर लेता है वह भी बहिरात्मपत्त (मिथ्याज्ञान)को छोड़कर ज्ञानवान् ग्रथात् अन्तरात्मा बन जाता है। एवं सब बाह्य बातोंका परित्याग करके जो केवल अपनी शुद्धात्माके ही विचारमें निमग्न रहता है वह श्रुतकेवली कहलाता है। यही आगेकी गाथाओंमें बताते हैं—

जो हि सुदेण विजाणदि अप्याणं जाणगं सहावेण ।

तं सुयकेवलिमिसिणो भण्टति लोयप्पदीयवरा ॥३३॥

सुतं जिणोवदिटुं पोगगलदव्यप्पगेहिं वयणेहिं ।

तं जाणणा हि णाणं सुतस्स य जाणणा भणिया ॥३४॥

श्रुतेनात्मानमाख्याति ज्ञायकं यः स्वभावतः ।

श्रुतकेवलिनं तं हि वदन्ति जगदीशवराः ॥३३॥

जिनोपज्ञ वचः श्रुत्यायज्ञानं तच्छ्रुताभिधं ।

जिनेन्द्रवचनश्चापि तन्निमिच्चतया पुनः ॥३४॥

श्रुतज्ञानको पाकरके स्वज्ञायकपनपर चित्त दिया ।

श्रुतकेवली नाम उसने ही ऋषि लोगोंसे प्राप्त किया ॥

जिनवरजीके दिव्य वचनका नाम सूत्र या श्रुत होता ।

जिसे श्रवण कर भवभजीव यह वोधोदधिमें ले गोता ॥१७॥

सारांशः—यहाँ पर आचार्यश्रीने—श्रुतज्ञान किसे कहते हैं ? वह किस तरहसे होता है और उस श्रुतज्ञानका धारक जीव भी श्रुतकेवली

क्व होता है ? ये तीनों वातें वर्ताई हैं । सामान्य रूपसे सुनी हुई वात को श्रुत कहते हैं और उसके वाच्यार्थके जाननेको श्रुतज्ञान कहा जाता है । हमारे सुननेमें दो तरहकी वात आती है । एक तो अल्पज्ञकी अपनी तरफसे कही हुई वात जो उत्सूत्र कहलाती है । इससे हमको वस्तुस्वरूपका यथार्थ ज्ञान नहीं होता है अतः इसके निमित्तसे हम सबको जो ज्ञान होता है वह कुश्रुतज्ञान होता है । किन्तु श्री वीतराग सर्वज्ञ अरहन्त देवके वचन या उन्हींके शिष्य प्रशिष्य श्री गणधरादिके वचनोंको सूत्र कहते हैं । जिससे हमको वस्तु तत्त्वका निर्देश प्राप्त होता है । उनके ज्ञानको श्रुतज्ञान कहा जाता है । हमारे उस ज्ञानमें जिनवचन अनिवार्य निमित्त होते हैं । अतः कारणमें कार्यका उपचार करके जिनवचनको श्रुतज्ञान कहा जावे तो भी कोई हाति नहीं है ।

**शङ्काः**—अर्हतका उपदेश सुननेसे श्रुतज्ञान हो ही जावे, ऐसी वात भी नहीं है । देखो, श्री ऋषभदेवकी वाणीको सुनकर भी उनका पोता मारीच उलटा अधिक कुमार्गरत हो गया और उसका अज्ञान पहिलेसे भी अधिक दृढ़ बन गया ।

**उत्तरः**—उसने भगवान्की वाणीको सुना ही नहीं । कानोंमें शब्द पड़ने मात्रका नाम सुनना नहीं है किन्तु भद्रतापूर्वक उसे स्वीकार करना ही सुनना कहलाता है जैसे कि:—

वद्यत कही प्रभुने उसे, उसने सुनी न एक ।  
उपर तेल द्यों वारिसे, उलटी पकड़ी टेक ॥१॥

भगवान्की वाणीको उसने सुनी कहाँ ? उसने तो अहंभावसे उसकी निन्दा की । उसने विचार किया कि वावा कहते हैं कि— मारीच आगे चलकर अन्तिम तीर्थकर महावीर होगा । मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसहीका तो यह फल होगा कि मैं तीर्थङ्कर बनूँगा, फिर इसे क्यों छोड़ा जावे इत्यादि । जिन्होंने भगवान्के उपदेशको सुना वे अन्य तापस लोग सुमार्ग पर आ ही गये ।

ज्ञान सामान्यतया एक होकर भी विशेषतासे वह कई प्रकारका है। उनमें आत्मोपयोगी दो ही होते हैं। एक साक्षात् पूर्णज्ञान, जिसे केवलज्ञान कहा जाता है। जो सफलतारूप है। दूसरा श्रुतज्ञान, जो उसका साधन है। श्री जिनवाणीके कथनानुसार यह जीवात्मा इतर सम्पूर्ण पदार्थोंसे दूर हटकर वीतराग बन करके अपनी आत्मामें स्थित होजावे तो उसके उत्तर क्षणमें स्वयं सर्वज्ञ केवली होजाता है।

श्रुतज्ञान दो प्रकारका है। एक द्रव्य श्रुतज्ञान और दूसरा भाव श्रुतज्ञान। जिन प्रवचनानुसार जीवाजीवादि पदार्थोंका निर्णय करके उनको यथार्थ रूपमें अपने हृदयमें अवधारण करनेको द्रव्य श्रुतज्ञान कहते हैं। उन इतर पदार्थों परसे अपने उपयोगको दूर हटाकर, संकल्प विकल्प रहित होकर, ज्ञायक स्वरूप अपने आत्मभावमें स्थित होनेको भावश्रुत कहते हैं। आचार्य महाराजका यह कथन है कि ऐसी ही अवस्थामें यह आत्मा श्रुतकेवली कहलाता है क्योंकि श्रुत (प्रवचन)के द्वारा अपनी आत्मामें जो, बल प्राप्त किये हुए हो वह श्रुतकेवली, ऐसा मतलब होता है।

जिसने अपनी वर्तमान अवस्थामें पूर्ण वीतरागता प्राप्त करली है, जो द्वादशाङ्ग श्रुतज्ञानके द्वारा अपने आत्मानुभवमें तत्त्वोन होरहा है, वह छद्मस्थ वीतराग जीव और स्पष्टदृष्टा सर्वज्ञ अर्हन्तदेव, ये दोनों ही केवली माने गये हैं। दोनोंका ज्ञान सम्पन्न होता है। भेद इतना ही होता है कि—केवलज्ञानीका ज्ञान सूर्य प्रकाशके समान बिलकुल साफ स्वच्छ और श्रुतकेवलीका ज्ञान दीपकके प्रकाशकी तरह कुछ धुँधलेपन को लिये हुए मंद होता है। जैसा कि श्री जयसेनाचार्यजी अपनी वृत्तिमें भी लिखते हैं—

“युगपत् परिणत समस्त चैतन्यशालिना केवलज्ञानेन अनाद्यनन्तं निःकारणान्यद्रव्यासाधारण स्वसम्बेद्यमानं परमं चैतन्यसामान्यलक्षणस्य परद्रव्यरहितत्वेन केवलस्यात्मनं आत्मनि स्वानुभवनाद्यथा भगवान् केवली भवति तथायं गणधरदेवादि निश्चयरत्नत्रयाराधकजनोऽपि पूर्वोक्तं

लक्षणस्यात्मनो भावश्रुतज्ञानेन स्वसम्बेदनान्निश्चय श्रुतकेवली भवतीति यथा  
कोऽपि देवदत्त आदित्योदयेन दिवसे पश्यति रात्रौ किमपि प्रदीपेनेति ।”

**शङ्काः**—कोई कोई विद्वान् कहते हैं कि द्रव्य श्रुतकेवली तो नहीं किन्तु भाव श्रुतकेवली तो पशु भी हो जाता है क्योंकि तिर्यच्चके भी पञ्चम गुणस्थान होना बताया है । जहाँ सम्यग्दर्शन आवश्यक है जो आत्मानुभव पूर्वक होता है और आत्मानुभव बिना श्रुतज्ञानके हो नहीं सकता । क्या यह ठीक है ?

**उत्तरः**—संज्ञी पंचेन्द्रिय पशु सम्यग्दर्शन सहित अणुव्रतोंका पालक हो सकता है, यह बात तो ठीक है किन्तु चतुर्थादि सकषाय गुणस्थानोंमें जो सम्यग्दर्शन होता है वह व्यवहार सम्यग्दर्शन कहलाता है । इस अवस्थामें आत्मानुभव न होकर आत्मतत्वका श्रद्धान होता है जो सदगुरु संदेशके अनुमननात्मक श्रुतज्ञानांशको लिये हुए होता है । आत्मानुभव-नात्मक निश्चय ( वीतराग ) सम्यग्दर्शन तो महर्षि लोगोंके परम समाधिकालमें ही बनता है । इसको स्पष्ट करनेके लिए या तो ग्रन्थकारके सम्यक्त्वसारशतकको देखना चाहिए या श्री समयसारादि पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रंथोंका स्वाध्याय करना चाहिए ।

आगे कुछ लोग ज्ञान और आत्माको भिन्न भिन्न मानते हैं, उनका प्रतिवाद किया जाता है—

जो जाणदि सो णाणं ए हवदि णाणेण जाणगो आदा ।  
णाणं परिणमदि सयं अट्टा णाणट्टिया सब्वे ॥३५॥  
तम्हा णाणं जीवो णेयं दब्वं तिहा समखादं ।  
दब्वं ति पुणो आदा परं च परिणामसंवद्धं ॥३६॥

ज्ञानातीति यज्ञानं न ज्ञाता ज्ञानतः प्रथक् ।

ज्ञानं परिणमद्वाति सर्वेऽर्थज्ञानप्रास्थिताः ॥३५॥

आत्मैव ज्ञानतामेति ज्ञेयतां द्रव्यमस्य तु ।

त्रिधा परिणमद् द्रव्य-मात्माऽन्यच्च प्रकीर्त्यते ॥३६॥

ज्ञान भिन्न है नहीं जीवसे इसीलिये जो जाने सो ।

ज्ञान और सब ज्ञेय ज्ञानगत होते हैं स्वभाव ऐसो ॥

ज्ञान जीव ही ज्ञेय जीव भी और द्रव्य भी होता है ।

जो कि सदा परिणमनरूपसे त्रिविधभावको ढोता है ॥१८॥

**सारांशः—** व्याकरणके अनुसार 'जानातीति ज्ञानं' जो जानता है वह ज्ञान होता है इसप्रकार कर्तृ साधनसे तो ज्ञान आत्माका ही नाम ठहरता है क्योंकि जाननेवाला आत्मा ही है परन्तु 'ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं' जिसके द्वारा जाना जाता है वह ज्ञान होता है । इस तरहसे करण साधन करने पर आत्मा और ज्ञान भिन्न भिन्न ठहरते हैं । आत्मा तो जाननेवाला है और ज्ञान जाननेका साधन है । फिर भी यहाँ पर ऐसा भेद नहीं है जैसा कि कुठारके द्वारा लकड़ीको काटने वाले बढ़ईमें पाया जाता है । बढ़ई और कुठार दोनों भिन्न भिन्न हैं ।

ज्ञान आत्माका धर्म है और आत्मा उसका धर्म है । जैसे कि अग्नि अपनी उष्णतासे भिन्न न होकर उसीका गुण है या धर्म व परिणमन है । केवल इनमें परस्पर परिणाम, परिणामी भाव बतानेके लिए इन्हें भिन्न भिन्न कहा जाता है । वास्तवमें प्रदेशत्वेन इनमें भिन्नत्व नहीं है । यदि ज्ञप्तिक्रियाके प्रति आत्मा कर्ता और ज्ञान उसका करण होने मात्रसे उन्हें भिन्न ही कहा जावे ( जैसी कि कुछ लोगोंकी मान्यता है ) तो फिर ज्ञानको लेकर आत्मा ज्ञानवान् ही बन सकता है । ज्ञ एवं ज्ञाता नहीं कहा जा सकता है परन्तु आत्मा ज्ञाता है । ज्ञानसे अभिन्न है, ज्ञानमय है । सब पदार्थ इसके ज्ञेय हैं । जानने योग्य हैं । आत्मा ज्ञानरूप भी है और ज्ञेयरूप भी है क्योंकि वह जिसप्रकार इतर पदार्थोंको जानता है उसीप्रकार अपने आपको भी जानता है । जो अपने आपको नहीं जानता है वह दूसरेको भी नहीं जान सकता है और न देख ही सकता है ।

**शङ्का�—** हमारी आंखें अपने आपको तो नहीं देखतीं परन्तु दूसरों को देखा करती हैं, यह कैसे ?

**उत्तरः—** आंखें जैसे अपने आपको नहीं देखती हैं वैसे ही वे दूसरों को भी कभी नहीं देखती हैं किन्तु आंखोंके द्वारा हम देखते हैं । हमारी

आंखें तो हमारे लिए खिड़कीकी तरह हैं। ज्ञान हमारा स्वभाव है। यह हर एक पदार्थके अस्तित्वको वतलानेवाला है, यही हमको यह बताता है कि यह अमुक चीज है। ज्ञान अपने आपको नहीं जानता जब ऐसा कहा जाता है तब इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञान है ही नहीं।

**शङ्काः**—अपने आपको न जाननेवाले ज्ञानका अभाव क्यों कहा गया है क्योंकि अपने आपको न जानकर भी उसको दूसरा ज्ञान या दूसरेका ज्ञान जान सकता है।

**उत्तरः**—दूसरा भी तो अपने आपको नहीं जाननेवाला ही है, फिर उससे क्या स्वार्थ सिद्ध हो सकता है? स्वयं गिरता हुआ मनुष्य किसी दूसरेको स्थिर रख सके यह कैसे माना जा सकता है? अतः अनवस्था दोषसे बचनेके लिए ज्ञानको स्वप्रकाशक भी मानना ही पड़ता है। ज्ञान हर पदार्थकी एवं अपने आपकी भी सत्ताको प्रकाशित करने वाला है, जो सत्ता=उत्पत्ति, विनाश और स्थिति इन तीनों रूपोंको लिए हुए होती है। एवं हर पदार्थकी सत्ता अपनी भूत और भविष्यत पर्यायोंके साथमें वर्तमानको सम्बद्ध रखते हुए एक शृंखलाके समान है। एवं सम्पूर्ण पदार्थोंकी अविकल सत्ता केवलीके ज्ञानका स्पष्ट विषय होती है, यही बताते हैं—

तत्कालिगेव सब्वे सदसञ्भूदा हि पञ्जया तासिं ।

वद्वन्ते ते णाणे विसेसदो दव्वजादीणं ॥३७॥

जे एव हि संजाया जे खलु णद्वा भवीय पञ्जाया ।

ते होंति असञ्भूदा पञ्जाया णाणपञ्चकखा ॥३८॥

सद्गूतारचाप्यसद्गूता पर्याया युगप्त् किल ।

समस्त द्रव्यजातीनां ज्ञाने प्रतिफलन्ति ते ॥३७॥

येऽधुना नैव सञ्जाता भूत्वा नष्टाश्च पर्ययाः ।

असद्गूतारख्यया ते स्युः प्रत्यक्षा ज्ञानिनः सदा ॥३८॥

तात्कालिक पर्यायकी तरह भूत भावि पर्यायें भी ।

भल्का करती हैं सुवेद्वयमें द्रव्योंकी सारी वे भी ॥

जो न अभी हो पाई हो या होकर नष्ट हो चुकी हों ।

असद्भूत वे पर्यायें भी गोचर स्कुट ज्ञानकी हों ॥१६॥

**जदि प्रवचनखमजायं पञ्जायं पलङ्गयं च णाणस्स ।**

**ए हवदि वा तं णाणं दिव्वं ति हि के परुवेति ॥३६॥**

**अत्थं अक्षणिवदिदं ईहापुव्वेहि जे विजाणांति ।**

**तेसिं परोक्खभूदं णादुमसकं ति पण्णतं ॥४०॥**

न भवेद्यदि चाध्यक्षं भूतो भावी च पर्ययः ।

तदा ज्ञानस्यतस्याथ कीदृशी दीव्यता पुनः ॥३९॥

अधिगच्छन्ति येत्वर्थ – मीहापूर्वकमिन्द्रियैः ।

वाढं तेषामशक्यं स्या-दध्यक्षं भूतभाविनोः ॥४०॥

होनेवाली और हो चुकी बात ज्ञानमें दिखे नहीं ।

तो फिर दिव्यज्ञानकी महिमा और कौनसी कहो रही ॥

इन्द्रियसत्रिकर्षको ही यदि प्रत्यक्ष कहा जावे ।

तो वह भूत भावि चीजोंको कुछ भी नहीं जान पावे ॥२०॥

**सारांशः—**मानलो एक घासकी टाल लगी हुई थी । उसमें बिजलीका करेण्ट लगकर आग हो गई । अब देखनेवाला देखता है कि कुछ देर पहिले यहाँ घास थी, अब आग बन गई और थोड़ी देरमें वह भस्म हो जायगी । इसप्रकार सर्व साधारण जब भूत भविष्यत और वर्तमान पदार्थकी पर्यायोंको जानता है तब केवलीका तो कहना ही क्या ?

**शङ्कः—**पदार्थकी वर्तमान दशाकी तरह अतीत अनागत अवस्था-का ज्ञान होता है इस बातका कौन निषेध करता है किन्तु वर्तमानका तो प्रत्यक्ष और भूत भविष्यत पर्यायिका स्मरण वगैरह हो सकता है जैसा कि ऊपर वाले उदाहरणसे भी स्पष्ट है । प्रश्न तो केवल इतना ही है कि जो अभी है ही नहीं, उसका भी प्रत्यक्ष होजावे, यह कैसे हो सकता है ?

उत्तरः—प्रत्यक्षज्ञान कई प्रकारका होता है। इन्द्रियोंके द्वारा पदार्थका सन्निकर्ष होकर जो ज्ञान होता है उसे सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं जैसे कि हम जीभसे चखकर आमके खट्टे मीठेपनको जान जाते हैं यह ज्ञान तो वर्तमान वस्तुका ही होता है, सो सही बात है। दूसरा मानसिक प्रत्यक्ष होता है। जब किसी मनुष्यका मन किसी चीज पर दृढ़तासे लगा हुआ होता है तब वह वस्तु दूर रह करके भी उसके सम्मुख नाचती हुई सी प्रतीत होती है, इसको स्वसंवेदन ज्ञान भी कहते हैं।

तीसरा ज्ञान योगी प्रत्यक्ष होता है जो योगियोंको अपने योग वलके द्वारा लोगोंके जन्म जन्मान्तरकी और सुदूर देशान्तरकी बातको भी स्पष्टरूपसे दिखलाया करता है। स्थूलसे स्थूल और निकटसे निकट रहने वाली चीजको तेजसे तेज आँखों वाला मनुष्य भी इतना स्पष्ट नहीं देख सकता है जितना स्पष्ट एक महर्षि अपने अनिन्द्रिय ज्ञानके द्वारा सूक्ष्मसे सूक्ष्म और दूरसे दूर रहने वाली चीजको भी देख लेता है।

यह ज्ञान इन्द्रियादि वाह्य कारणोंकी अपेक्षा न रखकर पूर्णरूपसे आत्माधीन होता है, इसलिये वास्तविक प्रत्यक्ष यही होता है क्योंकि अक्ष नाम भी आत्माका है, ऐसा संस्कृतके कोशकारोंने बताया है। एवं अक्ष अर्थात् आत्माके प्रति नियत होता है वह प्रत्यक्ष है ऐसा अर्थ ठीक हो जाता है। इसीको पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं क्योंकि यह ज्ञान परमार्थके ज्ञाता ऋषियोंके ही होता है।

यदि अक्ष शब्दका अर्थ इन्द्रिय माना जावे तो फिर यह उपर्युक्त ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं ठहरता है क्योंकि यह ज्ञान इन्द्रियोंसे नहीं होता है। इन्द्रियाधीन परतंत्र ज्ञानको प्रत्यक्ष कहना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है क्योंकि ज्ञान आत्माका गुण है। अतः आत्मतंत्र ज्ञान ही उसके अधिक सन्निकट एवं सहज तथा सरल होता है। वह ज्ञान चराचर सब जीवोंको स्पष्ट जानता है, यही बताते हैं—

अपदेसं सपदेसं मुत्तममुत्तं च पञ्जयमजादं ।

पलयं गयं च जाणदि तं णाणमदिदियं भणियं ॥४१॥

परिणमदि ऐयमटु णादा जदि ऐव स्वाइगं तस्स ।  
णाणं ति जं जिणिदा स्ववयंतं कम्ममेवुत्ता ॥४२॥

सप्रदेशोऽप्रदेशश्च मूर्ते॒॑मूर्तश्च पर्ययः ।

भूतो भावी च तमपि वेत्ति ज्ञानमतीन्द्रियम् ॥४१॥

ज्ञेयमनुचलज्ञानं तावत्तु क्षायिकं न तत् ।

ज्ञानाधि हेतु कर्मेव तत्र किन्तु प्रवर्तते ॥४२॥

मूर्त अमूर्त स्थूल सूक्ष्म हो चुका और होने वाला ।

हाल अतीन्द्रिय बोधगम्य हो क्या जाने इन्द्रिय वाला ॥

इष्टानिष्ठ विकल्पयुक्त जो ज्ञान वस्तुको लखता है ।

अक्षयिक वह ज्ञान जीवका स्वयं कर्मफल चखता है ॥२१॥

**सारांशः**—पदार्थोंका परिणमन दो प्रकारका होता है । एक प्रदेशत्वगुणके विकाररूप स्थूल परिणमन और दूसरा अप्रदेशात्मक सूक्ष्मपरिणमन । दूसरी तरहसे एक मूर्त रूप, रस गंधादिमय । दूसरा अमूर्त=रूपादिसे रहित । किन्च एक वर्तमान और दूसरा, अवर्तमान (हो चुका या होनेवाला) । वर्तमान मूर्त पदार्थोंके स्थूल परिणमनको इन्द्रियज्ञान यथासंभव जान सकता है । यह बात ठीक है परन्तु अतीन्द्रिय ज्ञान तो स्थूल और सूक्ष्म, मूर्त और अमूर्त, वर्तमान तथा भूत और भावी सभी प्रकारके परिणमनको जानता है । अतीन्द्रिय ज्ञान आत्माके कर्मोंका नाश करनेवाला होता है किन्तु इन्द्रियाधीन ज्ञान, हर पदार्थके पीछे लग कर, उसमें भला बुरापन माननेके कारण कर्मोंको जीतनेमें असमर्थ ही रहता है और अपने किये हुए कर्मोंके फलको भोगता रहता है ।

**शङ्का:**—अवधिज्ञान और मनःपर्यय नामके अतीन्द्रिय ज्ञानसे भी तो बन्ध होता है । केवल इन्द्रियज्ञानसे ही बंध क्यों कहा गया, यह समझमें नहीं आया ?

**उच्चरः**—वस्तुतः इन्द्रियजन्य ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान इसप्रकारसे दो ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं हैं । ज्ञान तो पहिले बताया जा चुका है कि

वह आत्माका गुण है, वह एक ही है, उसका काम जानना है परन्तु जैसे लज्जाशील तत्त्वविवाहिता कुलवध्द अपने घूंघटकी ओटमें देखा करती है। वह अपने पीहरवालोंको देखकर प्रसन्न होजाती है और ससुराल वालोंको देखकर संकुचित होजाती है तथा पराधीनतामें जकड़ी हुई रहती है। इसीप्रकार यह संसारी आत्मा भी अपने मोहनीय कर्मके कारण, सेन्द्रियताके परदेमें होकर देखता जानता है। यह अपने अभीष्टको देखकर प्रसन्न और अनिष्टको देखकर दुखी हो जाता है एवं कर्मवंध करता रहता है। कर्मवंधका कारण देखना और जानना नहीं है किन्तु पदार्थको भला या बुरा मानकर उससे रागद्वेष करना है।

यह मखमली गदा बहुत कोमल है, सुहावना है, यह कङ्करीली जमीन कठोर है, चुभती है, दुख देती है। हलवा भीठा और सुस्वादु है किन्तु यह नीमका पत्ता कड़वा है, खाया नहीं जाता। गुलाबके फूलकी सुगंध बहुत अच्छी है परन्तु मिट्टीके तेलकी हुर्गधसे नाक फटा जारहा है। चन्द्रमा तो देखनेमें अच्छा लगता है परन्तु भूतको देखकर तो डर लगता है। कोयलकी बोली बड़ी प्यारी है और कौएका शब्द बड़ा बुरा लगता है। इसप्रकारसे इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहणकर जानते हुए राग-द्वेषरूप प्रवृत्त होता है।

अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानके द्वारा जानते हुए भी पदार्थके प्रति जो भले बुरेपनकी कल्पना उठती है, वह सब इन्द्रियाधीनताको लेकर ही चलती है। वास्तवमें तो कोई भी पदार्थ न तो भला ही है और न बुरा ही है। हरएक पदार्थ अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भावके अनुसार परिणमन करता है। ज्ञान उसे जानता है। इसीलिये आगमकारोंने इन्हें विकलातीन्द्रिय और देशप्रत्यक्षके रूपमें स्वीकार किया है।

मंतिज्ञान और श्रुतज्ञान भी जब इष्टानिष्ट कल्पनासे रहित होकर, इतर पदार्थोंसे दूर रह कर, केवल आत्म तल्लीन होजाते हैं उस समय वे भी प्रत्यक्ष कहे जाते हैं। 'क्षयः प्रयोजनं यस्य तत् क्षायिकं' इस निरुक्तिके अनुसार ज्ञानावरणादिक कर्मोंके नाशके कारण हो जाते हैं।

मतलब यही है कि ज्ञान ही बंधका कारण है और न आत्माकी चेष्टा ही बंधका कारण है। बंधका कारण तो आत्माका रागद्वेष है, यही आगे बताते हैं—

उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया ।

तेसु विमृढो रत्तो दुट्ठो वा बंधमणुभवदि ॥४३॥

ठाणणिसेज्जविहारा धम्मुबदेसो य णियदयो तेसिं ।

अरहंताणं काले मायाचारो व्व इत्थीणं ॥४४॥

मोहाद्रागादथद्वेषा — द्रन्धमाप्नोति देहवान् ।

निर्यान्ति किन्तु कर्मजा जिनानामुदयं गताः ॥४३॥

युवतीनां यथा हाव—भावाद्या अप्रयत्नतः ।

तथोपदेशगमनस्था—नाद्या अर्हतां क्रियाः ॥४४॥

उदयागतविधि नियतरूपसे जिनवरके खिर जाता है ।

मोह रोष या रागभावसे जीव बंध कर पाता है ॥

स्थान गमन धर्मोपदेश ये क्रिया नियत हो जिनजीके ।

विना यत्न ही देखा जाता हीणपना ज्यों युवतीके ॥२३॥

**सारांशः**—कर्मबंधकारक संसारी आत्मामें मोटी ४ ब्रातें पाई जाती हैं । १ चेतना २ कर्मोदय ३ चेष्टा और ४ विकार । इनमेंसे चेतना अर्थात् ज्ञान तो बंधका कारण हो ही नहीं सकता है क्योंकि ज्ञान तो आत्माका स्वभाव है । यदि ज्ञानको ही बंधका कारण माना जावे तो फिर ज्ञान तो सिद्ध दशामें भी रहता है । वहाँ भी बंध होना चाहिये ।

कर्मोदय और उससे होनेवाली चेष्टा ये दोनों भी कर्मबंधके कारण नहीं होते हैं क्योंकि कर्मोंका उदय और उनकी चेष्टा = क्रिया चलना ठहरना बोलना वगैरह अरहन्त भगवानके भी पाई जाती है जिनसे उनके भी ईर्यापथ आस्वव मात्र होता है । बंध नहीं होता है । बंध तो राग द्वेष मोह भावरूप त्रिकारके द्वारा ही होता है जो अरहन्त अवस्थामें विलकुल नहीं होता है ।

कर्मोंका उदय दो प्रकारका होता है । एक तो प्रदेशोदय और दूसरा विपाकोदय । प्रदेशोदय बालविवाहकी तरह विकारकारक न होकर प्रक्रम मात्र होता है और विपाकोदय वयस्कविवाहकी तरह विकारकारक होता है । निरीहा और समीहाके भेदसे चेष्टा भी दो प्रकारकी होती है । हम जब निर्दित अवस्थामें कुछ बोलने लगते हैं अथवा हिलते डुलते हैं तब वह हमारी चेष्टा जागृत अवस्थामें होनेवाली चेष्टाके समान इच्छापूर्वक नहीं होती है किन्तु विना इच्छाके ही होती है ।

इसीप्रकार भगवान् अरहन्तके जो चलना और बैठना आदि क्रियाएं होती हैं वे विना इच्छाके ही होती हैं तथा उनके कर्मोंका उदय भी प्रदेशोदयमात्र होता है । जैसे स्त्रियोंके युवावस्थामें अनायास ही हाव भाव विलास विभ्रमादि चेष्टाएं विकसित होजाती हैं वैसे ही श्री जिन भगवानके तीर्थङ्कर नामकर्मादिके उदयसे दिव्यध्वनि होना आदि क्रियायें हुआ करती हैं । ये सब क्रियायें भगवान्के कर्मोदयसे होनेवाली होती हैं परन्तु आगेके लिए कुछ भी बन्धकारक न होकर पूर्व बन्धके क्षयके लिए ही होती हैं, यही अब बताते हैं—

पुण्णफला अरहंता तेसि किरिया पुणो हि ओदइया ।  
मोहादीहिं विरहिया तम्हा सा खाइग त्ति मदा ॥४५॥  
जदि सो सुहो व असुहो ण हवदि आदा सयं सहावेण ।  
संसारो वि ण विजजदि सब्बेसि जीवकायाण ॥४६॥

प्रशस्तमपुण्ये नार्हतामौदयिकी क्रिया ।  
किन्तु मोहाद्यभावेन संसारच्छेदिनी मता ॥४५॥  
शुभाशुभतया स्वस्य परिणामं न चेच्छयेत् ।  
तदार्हनिव जीवोऽयं न संसारमनुवजेत् ॥४६॥

यद्यपि दिव्यध्वन्यादि क्रियायें औदयिकी हैं जिनजीके ।  
किन्तु मोहके विना वहाँ वह क्षयंकरी होती नीके ॥  
जिनशरजीकी तरह शुभ अशुभ अगर नहीं कोई होवे ।  
तो फिर संसारावस्थामें पड़ा कष्ट को क्यों जोवे ॥२३॥

**सारांशः**—मोहके न होनेसे श्री अरहन्त भगवान् अपने कर्मोंके उदयमें शुभ और अशुभ न होकर तटस्थ बने रहते हैं वैसेही हम लोग भी यदि अपने मोहभावको दबाकर अपने पूर्वोपाजित शुभ तथा अशुभ कर्मोंको मध्यस्थभावसे सहन करते जावें और हर्ष विषाद न करें तो धीरे धीरे कर्मोंसे उक्खण होकर अपने संसारभ्रमणका अभाव कर सकते हैं। जिसप्रकार श्री अरहन्त देवने कर बताया है परन्तु हम सबका तो यह हाल है कि—

हम अपने शुभके उदयमें तो हर्षसे फूल जाते हैं और जब अशुभ का उदय आजाता है तब उसे बुरा मानकर रोने लगते हैं। इसी दुर्ध्यानमें अपनी आत्माको भूले हुए हैं। इसीकारण हमारा ज्ञान चञ्चल और वैभाविक बना हुआ है। किसी एक बातको भी यथार्थ रूपमें नहीं जान रहा है किन्तु वीतराग भगवान्का ज्ञान सब बातोंको एक साथ जाननेवाला होता है, यही अब बताते हैं—

जं तक्कालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सव्वं ।

अत्थं विचित्तविसमं तं णाणं खाइयं भणियं ॥४७॥

जो ण विजाणदि जुगवं अत्थे तिक्कालिगे तिहुवणत्थे ।

णादुं तस्स ण सकं सप्द्जयं दव्वमेगं वा ॥४८॥

युगपत् सर्वस्तूनां गतांश्चानागतानपि ।

जानाति क्षायिकं ज्ञानं पर्यायान् वर्तमानवत् ॥४७॥

यो न जानाति युगपत् त्रिकाल त्रिजगद्गतान् ।

एकोऽप्यर्थः सपर्यायो ज्ञातुं तेन न शक्यते ॥४८॥

वर्तमानकी तरह भाविभूतोंको जो युगपत् जाने।

वह ही क्षायिकज्ञान सदा मूर्त्मूर्तोंको पहिचाने ॥

तीनलोक या तीन कालकी चीजोंको नहिं जान सके।

एक चीजको भी पूरी अनुभव करनेमें क्यों न थके ॥२४॥

**सारांशः**—निरावरण क्षायिक ज्ञान तीनों लोकोंमें पाये जाने वाले सब पदार्थोंकी भूत भविष्यत वर्तमान कालकी सम्पूर्ण अवस्थाओंको एक साथ जाननेवाला होता है, क्योंकि ज्ञानका स्वभाव जाननेका है।

क्षायिक ज्ञानमें किसी भी प्रकारकी रुकावट शेष नहीं रहती है। वह एक देश, कालगत किसी एक पदार्थकी एक अवस्थाको जानता है इसी-प्रकार सर्व देश काल गत सम्पूर्ण पदार्थोंकी सभी पर्यायोंको जान सकता है। इसमें कौनसी वाधा है?

जैसे पानीका स्वभाव, अपने भीतर पत्थरको डुबा लेनेका है। वह समुद्रका पानी किसी एक पत्थरको तो अपने भीतर डुबा लेवे किन्तु दूसरेको न डुबा सके ऐसा नहीं होसकता है। उसमें तो जितने भी पत्थर गिरेंगे सब तत्काल डूब ही जावेंगे। इसीप्रकार सर्वज्ञके ज्ञानका विषय है। जितने भी ज्ञेय हैं वे सब उसमें फलकते हैं।

हमारे आध्यात्मिक सन्तोंने एक शब्दका अर्थ भी आत्मा ही स्वीकार किया है। महर्षि कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि जो एक अरथत् अपनी आत्माको अच्छीतरह जानता है वह संसारके सभी पदार्थोंको जाननेवाला होता है। जो सबको जानने वाला नहीं होता, वह अपने आपको भी पूर्णरूपसे नहीं जान सकता है क्योंकि आत्मा ज्ञानरूप है। ज्ञान ज्ञेय परिमित है जैसा कि पहिले बता आये हैं। सम्पूर्ण ज्ञेयोंको जानना ही ज्ञानकी पर्याप्तता है। ज्ञानकी पर्याप्तताका होना, आत्माकी अविकल दशा है। जो सबको एक साथ पूर्णरूपसे जाने वही सर्वज्ञ होता है, इसीको आगे स्पष्ट करते हैं—

**दब्बं अण्ठं पञ्जयमेगमण्ठाणि दब्बजादाणि ।**

**ए विजाणदि जदि जुगबं किध सो सब्बाणि जाणादि ॥४६॥**

**उपञ्जजदि जदि णाणं कमसो अट्टे पडुच्च णाणिस्स ।**

**तं णेव हवदि णिच्चं ण खाइगं णेव सब्बगदं ॥५०॥**

दधन्ति गुणपर्याया — ननन्तानेकशो भृशम् ।

न विजानाति वस्तूनि सर्वज्ञः स कथं भवेत् ॥४९॥

कमशो अर्थाननुगृह्य ज्ञानमुत्पद्यते तु यत् ।

अक्षायिकमनित्यंतन्नसर्वगतमिष्यते ॥५०॥

एक चीजमें अनन्तगुण हैं यों अनन्त चीजें सारी ।  
उन्हें नहीं सहसा यदि जाने कैसा पूर्ण बोध धारी ॥  
हाँ जो ज्ञान पूरे क्रमसे एकैक बातको लेकरके ।  
वह अक्षयिक होता है वह कभी न सबको जान सके ॥२५॥

**सारांशः—** इस भूतल पर अनन्त द्रव्य हैं। इनमेंसे प्रत्येकमें अनन्त गुण हैं और एक एक गुणकी अनन्त अनन्त पर्याय होती हैं। इन सबको एक साथ न जाननेवाला सर्वज्ञ कैसे होसकता है? क्रमपूर्वक जाननेवाले ज्ञानमें एकको जानते समय दूसरेका ज्ञान नहीं और दूसरेको जानते समय पहिलेवालेका ज्ञान नहीं रहता है, अतः क्रमबद्ध ज्ञानसे सर्वज्ञता असंभव ही है।

यदि यह कहा जाय कि एक एक बातको जानकर जिसप्रकार हम बहुज्ञ बन जाते हैं वैसे ही सर्वज्ञ भी बन सकते हैं सो प्रथम तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि चीजें अनन्त हैं। एक एक करके उनका अंत ही नहीं आसकता है। कदाचित् ऐसा मान भी लिया जावे तो अन्तमें सब चीजोंका ज्ञान हमको एक साथ हुआ, तभी तो सर्वज्ञ हुए। जैसे कि कोई मनुष्य एक एक चीज ला लाकर अपने भण्डारमें रखता जारहा हो और यों कुछ दिनोंमें सब चीजें इकट्ठी करके सर्वसम्पन्न हो जाता है। उस समय उसके पास सब चीजें होती हैं इसीलिये वह सर्व सम्पन्न कहलाता है। यदि वह इतर वस्तुओंका संग्रह करते करते पूर्व वस्तुओंको नष्ट करता जाय तो सर्व सम्पन्न नहीं बन सकता है। इसीप्रकार क्रमिक ज्ञानमें कुछका ज्ञान एकसाथ होता है और फिर इतर कुछका ज्ञान होते समय पहिले वाली वस्तुका ज्ञान नहीं रहता क्योंकि ऐसा ज्ञान कर्मोदयके कारण क्षणस्थायी होता है। ऐसी दशामें सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? अतः मानना चाहिये कि—

तिकालणिच्चविसमं सयलं सव्वत्थं संभवं चित्तं ।  
जुगवं जाणदि जोगहं अहो हि णाणस्स माहपं ॥५१॥  
णवि परिणमदि ण गेगहदि उप्पज्जदि एव तेसु अट्टेसु ।  
जाणणवि ते आदा अवंधगो तेण पणणत्तो ॥५२॥

त्रिकालं नित्यमसमं चित्रं सर्वार्थसम्भवम् ।  
जैनं ज्ञानमहोपूर्णं पुगपन्महतां – मतम् ॥५१॥  
नार्थमुद्दिश्य निष्पन्न – मन्त्रलंग्रहणातिगम् ।  
ज्ञानेन तेन ज्ञानन्न – प्यात्मायं वन्धवर्जितः ॥५२॥

भूत भविष्यत वर्तमान की सब बातोंको जिनजीका ।  
ज्ञान जानता एक साथमें वही ज्ञान क्षायिक नीका ॥  
नहीं किसी भी एक चीजको लेकर बने और बदले ।  
ऐसे ज्ञानभावका धारक हो वह क्यों भव बीच स्ले ॥२६॥

अस्थि अमुतं मुत्तं अदिंदियं इंदियं च अत्थेसु ।  
णाणं च तहा सोकखं जं तेसु परं च तं णेयं ॥५३॥  
जं पेच्छदो अमुतं मुत्तेसु अदिंदियं च पच्छण्णं ।  
सयत्तं सगं च इदरं तं णाणं हवदि पच्चकखं ॥५४॥

अतीन्द्रियमैन्द्रियञ्चा-मूर्त मूर्तार्थयोगि च ।  
ज्ञानं सुखं तयोराद्य-मादेयं हेयमन्तिमम् ॥५५॥  
सूक्ष्ममन्तरितं दूरं मूर्तमूर्तं निजं परम् ।  
स्पष्टं जानाति यज्ञानं तत् प्रत्यक्षमिहेष्यते ॥५६॥

इन्द्रियजन्य बोध सुख मूर्तिक हो इससे और तरह भी ।  
हेय यही आदेय दूसरा यों कहते आचार्य सभी ॥  
सूक्ष्मान्तरित दूर चीजोंको सबको सदा जानता है ।  
वह ही है प्रत्यक्ष वहाँ आत्माधीन प्रमाणता है ॥२७॥

**सारांशः**—इन्द्रियजन्य और इन्द्रियातीतके भेदसे ज्ञान जैसे दो प्रकारका होता है वैसे ही सुख भी दो प्रकारका होता है क्योंकि सुखका ज्ञानके साथमें अविनाभाव सम्बन्ध है । जहाँ ज्ञान होता है, वहाँ सुख होता है और जहाँ ज्ञान नहीं होता है वहाँ सुख भी नहीं होता है ।

**शङ्खाः**—ज्ञानके साथमें सुख ही क्यों ? दुःख भी तो हुआ करता है । जब हम लोग शक्कर खाते हैं तब सुख होता है किन्तु नमक खाते हैं तो दुःख होता है ।

उत्तरः—तुमने बात कही किन्तु कुछ सोच विचारकर नहीं कही। नमक खानेसे दुःख ही होता हो, ऐसी बात नहीं है। कभी सुख भी होता है। जैसे किसी शाकमें नमक न हो या कम हो तब यह कहा जाता है कि आज शाकमें नमक नहीं है, इसलिये अच्छा नहीं लगता है। यहाँ नमकसे सुख भी होता है। इसीप्रकार जब एक मनुष्य बरफी खाता है और बरफीमें यदि मावा (खोवा) कम होकर शक्कर अधिक होती है तब कह देता है कि इसमें तो शक्कर ही शक्कर है, इसलिये अच्छी नहीं लगती है। यहाँ शक्करसे सुख न होकर दुःख हो रहा है, अतः न नमक खानेमें दुख है और न शक्कर खानेमें सुख है किन्तु बात कुछ और ही है।

वह यह है कि संसारी आत्माके ज्ञानके साथमें इच्छा लगी हुई होती है। इस इच्छामें जब कोई वाधा आती है तब उस विपरीत कार्यमें ज्ञान सुखरूप न रह कर दुःखरूपमें परिणत होजाता है अर्थात् उसमें विकार आजाता है। इच्छाके होनेसे ही आत्माका ज्ञान सर्वाङ्गी व्यापक न होकर एकाङ्गी और क्रमिक बना हुआ है।

मानलो आप किसी शहरके बाजारमें पहुँचे और एक कुकर चूल्हा खरीदनेकी इच्छासे चले जारहे हैं। अनेक दुकानें आपकी दृष्टिमें आती हैं परन्तु उन्हें छोड़ते हुए आप सीधे किसी बरतनवालेकी दुकान पर पहुँचते हैं। वहाँ पर भी कई प्रकारके बरतन रखे हुए हैं जो आपके देखनेमें आरहे हैं परन्तु आपका मन तो कुकर चूल्हेकी ओर ही है। उधर ही लग रहा रहा है कि यह रहा कुकर चूल्हा। यदि वहाँ कुकर चूल्हा न हो तो आप दुकानदारसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुकर चूल्हा है? इस पर यदि उसने उत्तर दिया कि कुकर चूल्हा तो नहीं है। तब आप शीघ्र ही कह देते हैं कि जब तुम्हारे पास कुकर चूल्हा नहीं है तो और क्या है? कुछ भी नहीं है, ऐसा कहकर चल देते हैं।

मार्गमें भी यदि कोई पूछता है कि आप कहाँ गये थे? तब आप यही उत्तर देते हैं कि बाजारमें गया था परन्तु इस बाजारमें क्या रखा है? कुछ भी तो नहीं है। मुझे एक कुकरकी आवश्यकता थी,

वही यहाँ नहीं मिला। अब विचारकी वात है कि यद्यपि बाजारमें बहुतसी चीजें हैं किन्तु आपका ज्ञान कुकरकी इच्छासे वँधा हुआ है इसीलिये आप ऐसा कहते हैं और दुखी होते हैं। यदि आपके यह इच्छा न हो तो आप ही कह देंगे कि इस बाजारमें तो बहुत सी विचित्र विचित्र वस्तुएं हैं। इनको देखकर मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। तुम्हें क्या २ बताऊं जिनको देखा उनको मेरा मन ही जानता है। यह तो एक उदाहरण है।

इसीप्रकार संसारी जीवका ज्ञान सदा इच्छाओंमें फँसा रहता है, अतः संकुचित हो रहा है। केवल इन्द्रियोंके आश्वासनरूप सुखके साथ साथ श्रमरूप दुःखको भी लिये हुए होता है। जिन लोगोंने सब प्रकारकी आवश्यकताओं पर विजय प्राप्त करली हो, जो निरीह होनुके हों, उन्हें जिन कहते हैं। इनका ज्ञान अखण्ड और सबको एकसाथ जाननेवाला होता है। इनका सुख भी स्वाभाविक और शाश्वत होता है, जो उपादेय है। इन्द्रियजन्य ज्ञान और सुख पराधीन होते हैं इसलिये हेय हैं, यही आगे बताते हैं—

जीवो सयं अमुक्तो मुक्तिगदो तेण मुक्तिणा मुक्तं ।

ओगेष्ठित्ता जोग्गं जाणदि वा तरणं जाणादि ॥५५॥

फासो रसो य गंधो वण्णो सद्वो य पुग्गला होंति ।

अक्खाणं ते अक्खा जुगवं ते ऐव गेरहंति ॥५६॥

अमृतेऽयं मूर्तिमत्वात् मूर्तभावेन तादशम् ।

अवग्रहादिभिः किञ्चित् परिजानाति चेतनः ॥५५॥

स्पर्शसगन्धवर्णं — शब्दाः पुद्गलसम्भवाः ।

त्वगादीन्द्रिय संग्राहया युगपत्तु कदापि न ॥५६॥

है अमूर्त यह किन्तु मूर्तिगत है अनादिसे इसीलिये।

जाना करता मूर्त चीजको यथायोग्य व्यवधान किये ॥

स्पर्श और रसगन्धवर्ण या शब्दरूप पुद्गल कमसे ।

जानी जाया करती किन्तु जे एक साथ इन्द्रिय श्रमसे ॥२८॥

**सारांशः**—यह चेतना लक्षण वाला आत्मा यदि अपने स्वभावमें आजावे तब तो बिलकुल अमूर्त है। आकाशके समान किसीसे भी बाँधा हुआ बाँध नहीं सकता। जलमें गल नहीं सकता। अग्निसे जल नहीं सकता और हवासे सूख नहीं सकता है किन्तु यह तो अनादिकालसे मूर्त्तिमान् पुद्गलके साथमें घुलमिल रहा है। अपने आपमें न होकर मूर्त्ति-पन धारण किये हुए है अतः इस मूर्ति शरीरगत स्पर्शनादि इन्द्रियों द्वारा मूर्त पदार्थको ही अवग्रहादिकके रूपमें कुछ कुछ जानता रहता है। ऐसा जानना, इस विश्वप्रकाशक आत्मा प्रभुके लिए न जाननेके समान ही है। स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा स्पर्शका, जीभके द्वारा रसका, नाकसे गंधका, आँखसे रूपका और कानसे शब्दरूप पुद्गलका स्थूल ज्ञान होता है। यह भी एक साथ न होकर क्रमपूर्वक होता है। जिस समय रूपको देखता है, उस समय रसको नहीं चख सकता है। जिस समय रसको चखता है, उस समय गंधको नहीं सूंघ सकता है। अर्थात् एक समयमें एक ही इन्द्रियके विषयका ज्ञान कर सकता है।

**शङ्का:**—जब हम आम चूंसते हैं तब जीभसे उसके रसको, नाकसे उसकी गंधको, हाथसे उसके स्पर्शको और आँखसे उसके रूपको एकसाथ ही तो जानते हैं?

**उत्तरः**—स्थूल दृष्टिसे तुम कह रहे हो वैसा ही है परन्तु यदि गंभीरताके साथ विचार कर देखें तो वहाँ समयका भेद बना हुआ रहता है। जैसे किसी मनुष्यने सैंकड़ों पानोंके समूहमें बड़े वेगके साथ सूई चुभो दी, जिससे उन सब पानोंमें छेद होगया। तब हम लोग कहते हैं कि इसने एक ही साथ इन सब पानोंमें छेद कर दिया है। वास्तवमें देखा जावे तो छेद, उन पत्तोंमें एकसाथ न होकर क्रमपूर्वक ही हुआ है। इसीप्रकार इन्द्रिय ज्ञानकी प्रवृत्ति भी भिन्न भिन्न इन्द्रियोंके विषयों में क्रमपूर्वक ही होती है। इन्द्रियोंके द्वारा जो ज्ञान होता है, वह परोक्ष ज्ञान होता है, यही अब बताते हैं—

परदब्वं ते अक्खा णेव सहावो त्ति अप्पणो भणिदा ।

उवलद्धं तेहि कथं पच्चवस्वं अप्पणो होदि ॥५७॥

जं परदो विगणाणं तं तु परोक्खं त्ति भणिदमट्टे सु ।  
जदि केवलेण णादं हवदि हि जीवेण पञ्चकखं ॥५८॥

हथीकाण्यन्य द्रव्याणि दृश्यरूपतया ७७त्मनः ।

अदृश्यात्त्वैः समुत्पन्नं प्रत्यक्षं कथमात्मनः ॥५७॥

निरुच्यते परोक्षं तत् यत् स्यात् परसहायतः ।

केवलेनात्मना ज्ञातं प्रत्यक्षमिति सम्मतम् ॥५८॥

अन्यचीन इन्द्रियाँ जीवसे वह अदृश्य ये दृश्य अहो ।

इनपरसे हो ज्ञान हन्त वह किर कैसा प्रत्यक्ष कहो ॥

क्योंकि दूसरेकी सहायतासे हो उसे परोक्ष कहा ।

केवल आत्मभावसे होनेवाला ही प्रत्यक्ष रहा ॥२६॥

**सारांशः**—सन्त सम्प्रदायमें जो ज्ञान दूसरेकी सहायतासे हो वह परोक्ष है और जो केवल आत्मतन्त्र हो उसका नाम प्रत्यक्ष है । एवं इन्द्रियोंके द्वारा जो ज्ञान होता है वह परोक्ष ही होता है । इन्द्रियाँ सब पौद्गलिक हैं, आत्मासे भिन्न हैं । जैसे हमारी आँखें कमजोर हो जाने पर हम लोग ऐनक (चश्मा) लगाकर देखा करते हैं, वैसे ही संसारी आत्माका ज्ञान कर्मोंसे दवा हुआ है (निर्बल है) इसलिये चक्षु आदि इन्द्रियोंकी सहायतासे अपना कार्य करता है । जहाँ आत्मा और शरीरको एकसाथ समझा जा रहा हो उस भौतिक दृष्टिमें भले ही इसे प्रत्यक्ष कहा जावे किन्तु आत्मज्ञोंके विचारमें यह ज्ञान परोक्ष ही होता है, इसमें आत्माको श्रमका अनुभव करना पड़ता है अतः दुःखरूप ही है किन्तु प्रत्यक्ष ज्ञान सुखरूप होता है । यही अब बताते हैं—

जादं सर्यं समत्तं णाणमणंतत्थं वित्थडं विमलं ।

रहियं तु ओग्गहादिर्हि सुहं ति एगंतियं भणियं ॥५९॥

जं केवलं ति णाणं तं सोक्खं परिणमं च सो चेव ।

खेदो तस्म ण भणिदो जम्हा धादी खयं जादा ॥६०॥

सहजं विमलं सर्वं विषयं यदनन्तद्वक् ।  
अवग्रहादिभिर्हीनं ज्ञानमेतद्वि सौख्यवाक् ॥५९॥  
यतो घातिक्षयाज्जातं केवलं ज्ञानमिष्यते ।  
किन्नामस्यात् परं सौख्यं यत्र खेदो न जातुचित् ॥६०॥

सहज समस्त अनन्त अर्थगत विमल क्रमवर्जित जो है।

ऐसा केवल बोध विश्वमें वही वास्तविक सुख सो है॥

विपरिणामनसे रहित केवल ज्ञान सदा सुख करता है।

घातिनाश करनेके कारण खैद कदापि न धरता है॥२०॥

**सारांशः**—ज्ञानावरणादि आठकर्मोंमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार घातिया कर्म हैं। ये आत्माके अनुजीवी गुणोंका घात करते हैं। १. ज्ञानावरण ज्ञानको नहीं होने देता है २. दर्शनावरण देखने नहीं देता है ३. मोहनीय कर्म सुख नहीं होने देता है और ४. अन्तराय कर्म आत्मबल नहीं होने देता है।

शेष चार कर्म अघाति हैं। ये आत्माके मुख्य गुणोंका घात न करके, उन्हीं घातिया कर्मोंको सहायताके लिए परिकरके रूपमें होते हैं। जैसे १. वेदनीय कर्म इष्ट और अनिष्ट वस्तुओंका संयोग कराता है २. आयुकर्म मनुष्यादिरूप किसी भी एक शरीरमें रोककर रखता है ३. नामकर्म काणा, खोड़ा आदि अनेक प्रकारकी शरीरकी अवस्थायें बना देता है और ४ गोत्र कर्म इस जीवको कभी उच्च और कभी नीच बना देता है। इसप्रकार इन आठों कर्मोंका यह संक्षिप्त कार्य है। इनमेंसे श्री अरहंत देवके चार घातिया कर्मोंका नाश होजाता है। इसीलिये वे भगवान् अपने पूर्ण आत्मबलसे सम्पूर्ण पदार्थोंके ज्ञाता, दृष्टा और सदा के लिए सुखी होजाते हैं। इनके सुखके साथमें अब खेदका नाम लेश भी नहीं रहता है।

**शङ्का:**—अरहंत भगवान्के भी खेदका सर्वथा अभाव तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इनके भी साता और असाता नामके दोनों प्रकारके वेदनीय कर्मका सद्भाव रहता है। इनका कार्य सुख और दुख देना है। इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है कि—जो कर्म जिस कारणसे

बनता है, वह कर्म अपने फलकालमें उसीको उत्पन्न भी करता है। जैसे कषायें करनेसे मोहनीय कर्म बनता है तो वह कषायोंको ही उत्पन्न कराता है।

तत्त्वार्थसूत्रके कथनानुसार भी—दुःख शोक आदिसे असाता वेदनीय कर्मका बंध होता है और वह दुःख शोकादिको ही उत्पन्न करता है। इसीका समर्थन आगे नवमें अध्यायमें, परिषहोंके वर्णनमें मिलता है। यहाँ पर भी यह बताया है कि—बाईस परिषहोंमें से प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परिषह ज्ञानावरणीय कर्मसे होते हैं। अदर्शन परिषह और अलाभ परिषह, दर्शनमोह तथा अंतराय कर्मके कारणसे होते हैं। नग्न, अरति, स्त्री, आसन, दुर्वचन, याचना और सत्कारपुरस्कार परिषह चारित्रमोह के उदयसे होते हैं। शेष क्षुधा, तृष्णा, शीत, उषण, दंशमशक, चर्या, शव्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल ये ग्यारह परिषह वेदनीय कर्मके उदयसे होते हैं। ये जिन भगवान्के भी होते हैं। ऐसा स्पष्ट वर्णन है।

**उच्चरः**—सभी कर्मोंका बंध मोह राग द्वेषसे अर्थात् कषाय भावोंसे होता है। कषाय रहित जीवके किसी भी कर्मका बंध नहीं होता है। ऐसा भी तत्त्वार्थसूत्रही में लिखा हुआ है। वहाँ बंधकारक साम्परायिकाश्रव और अबंधकारक ईर्यापिथाश्रव है, इसप्रकार आश्रवके दो भेद बतलाये हैं। साम्परायिक आश्रव कषाय सहित जीवोंके होता है और कषाय रहित संसारी जीवोंके ईर्यापिथ आश्रव होता है, यह एक अनपवाद नियम है। यहाँ पर विशेष विशेष कर्मोंके विशेष विशेष कारण बताये हैं, वे सब तो तादृश कषायोंके विशेष हैं। उन उन जातिके कषाय-विशेषोंसे उन उन जातिके कर्मोंका विशेष बंध होता है।

जैसे दुःखादिरूप कषाय भाव होनेसे असाता वेदनीयका और दयादिरूप सरल कषाय भाव होनेसे साता वेदनीयका बंध होता है। साता वेदनीयका उदय नियमसे अनुकम्पादिकको उत्पन्न करे ऐसी बात नहीं है। सरागसंयमादिरूप भावसे देवायुका बंध होता है किन्तु देवायुका उदय सरागसंयमादिभावोंको कभी भी उत्पन्न नहीं करता है, वह तो सरागसंयमादिरूप भावोंका विरोधी है।

अपने कारण कलापसे बना हुआ वेदनीय कर्म भी अपने उदय-कालमें संसारी रागी द्वेषी जीवको इष्ट और अनिष्ट पदार्थोंका संयोग कराता है। जिनको अपने कषायांशके अनुसार इष्ट और अनिष्ट मानकर यह सोही जीव सुखी और दुखी होता है। वेदनीय कर्म इस जीवको सुखी और दुखी नहीं बनाता है। जैसे एक नगरमें रहने वालोंको निश्चित समाचार मिला कि—कल यहाँ बड़े जोरसे भूकम्प होगा जिससे सब मकान नष्ट हो जावेंगे, लोगोंको सावधान हो जाना चाहिये। इससे नगरके सब लोग नगरको छोड़कर जंगलमें जाने लगे। सभी नगर निवासियोंके अकस्मात् अशुभका (असातावेदनीयका) उदय आया जिससे उनका स्थान छूट गया। अब चलते चलते सामनेसे आता हुआ एक डाकू दिखाई दिया। जो मनुष्य अपने साथ सामान लेकर निकला था, वह सोचने लगा कि कैसा घोर पाप कर्मका उदय आया है। घर तो छूट ही गया परन्तु जो कुछ पासमें है उसे भी यह छीन लेगा। अब क्या किया जावे? ऐसा विचार करके वह घोर दुखी होता है।

दूसरा मनुष्य जो गरीब मजदूर था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वह सोचता है कि यद्यपि सामनेसे डाकू आरहा है परन्तु मेरे पास क्या है? घर तो छूट ही गया अब तो मजदूरी करके पेट भरना है अतः यह डाकू मेरा क्या करेगा? मेरे पास है ही क्या जिसे छीनेगा। ज्यादा करेगा तो मुझे अपने साथ रख लेगा, इसका काम करूँगा और पेट भरूँगा। इसप्रकार वह अत्यन्त विह्वल न होकर, कुछ अर्द्ध सुखी सा बनकर तटस्थ होजाता है।

दूसरी ओरसे जानेवाले लोगोंकी एक साहूकारसे भेंट होगई। तब जो कुछ काम करने लायक है वह विचार करता है कि घर तो छूटा सो छूटा परन्तु इन सेठ साहूसे भेंट होगई सो अच्छा हुआ, इनकी सहायतासे कुछ कार्य करूँगा जिससे सब ठीक हो जावेगा। एक मनुष्य जो बुद्ध है और कुछ भी काम धन्धा करनेके योग्य नहीं है, वह यह सोचता है कि, क्योंकि यह सेठ है इसलिये कुछ भी काम धन्धा बता सकता है, फिर भी इससे क्या? जबकि मैं स्वयं कुछ भी करनेके योग्य नहीं हूँ। ऐसा विचार करके वह मध्यस्थ होजाता है।

इन सब उदाहरणोंसे यह स्पष्ट है कि जिसको जितना मोह भाव है उसको इष्ट और अनिष्ट पदार्थोंके संयोगसे उतना ही हर्ष और विषाद होता है। पदार्थोंके प्रति इष्ट अनिष्टकी कल्पना ही मोहभावसे हुआ करती है। इनका संयोग वेदनीय कर्मके उदयसे होता है जिससे यह अज्ञानी संसारी अपनेको सुखी दुखी माना करता है। भगवान् केवलीके मोहका सर्वथा अभाव होता है अतः उन्हें उनके द्वारा सुख दुख न होकर, उनकी सदा आनन्दरूप अवस्था बनी रहती है।

**शङ्का:**—जब भगवान् केवलीके लिए कोई पदार्थ इष्ट और अनिष्टरूप नहीं होता है तब उनके लिए वेदनीय कर्मका फल ही क्या रह जाता है?

**उत्तरः**—आयुकर्म शरीरकी स्थिति बनाये रखता है। नामकर्म तीर्थङ्करत्व या अरहन्त करता है। गोत्र कर्मके उदयसे परम परमेष्ठित्व होता है और वेदनीय कर्म तत् समयोचित वाह्य पदार्थोंका संयोग कराता रहता है। जब भगवान् चलते हैं तब उनके चरणोंके नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होती रहती है परन्तु भगवान् वीतराग होनेके कारण उनका स्पर्श न करके उनके ऊपर अधर ही चलते हैं। अरहन्तोंको कोई भी प्रकारका खेद न होकर सदा अखण्ड सुख होता है। इसी बातको प्रकारान्तरसे आगे पुष्ट करते हैं—

एण्णं अत्थंतगयं लोयालोएसु वित्थडा दिट्टी ।

एट्टुमणिट्टुं सव्वं इट्टुं पुण जं तु तं लद्धं ॥६१॥

णो सदहंति सोक्खं सुहेसु परमं ति विगदघादीणं ।

सुणिदूण ते अभवा भवा वा तं पडिच्छंति ॥६२॥

ज्ञानं तु यस्य सम्पूर्णं लोकालोकावलोकनम् ।

अनिदं नष्टमिष्टं यच्चलव्यं परमेष्ठिनः ॥६१॥

ये तस्य नहि मन्यन्ते परमं सुखमहंतः ।

गुरोवीचं निशाम्यापि सन्त्यभव्या हि ते पुनः ॥६२॥

नहीं अनिष्ट रहा कोई भी इष्ट प्राप्त हो गया जहाँ ।

सकल चराचर ज्ञान लिया तब बोलो कौन अचंभ वहाँ ॥

चिर भी अरहन्तोंको सुख कैसा १ ऐसे कहनेवाले ।

भव्य नहीं, अभव्य ही होते, कहते श्रुत कहनेवाले ॥३१॥

**सारंशः**—सुखकी परिभाषा लौकिक और पारमार्थिक दो प्रकारसे की जाती है । परमार्थदृष्टिमें किसी भी तरहकी आकुलता (अड़चन, वाधा) न रहकर पूर्ण निराकुल अवस्थाका नाम सुख होता है । लौकिक दृष्टिमें अनिष्टके परिहार पूर्वक इष्टप्राप्तिका नाम सुख है । सर्वज्ञ भगवान् अरहंतदेवके जब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय कर्मके साथ २ अन्तराय कर्मका भी पूर्णरूपसे क्षय होजाता है तब वे भगवान् सम्पूर्ण विश्वके पदार्थोंको एकसाथ जानते हैं । वहाँ जानने योग्य कोई भी पदार्थ शेष न रह जानेके कारण गड़वड़के लिए कोई अवकाश ही नहीं रहता है । अतः पारमार्थिक परिभाषाके अनुसार भगवान् पूर्णरूपसे सुखी ही होते हैं ।

अब लौकिक परिभाषाके अनुसार विचार करते हैं । घातिकर्म-प्रणाशक श्री अरहंत भगवान्के लिए अनिष्ट तो कोई पदार्थ रहता ही नहीं है और परमेष्ट सर्वज्ञपत्र प्राप्त हो ही जाता है । अतः वे परम सुखी हो जाते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है । खाने, पीने और सोने आदिको ही यदि सुख समझा जावे तो ऐसा सुख तो काल्पनिक एवं दुःखमय तथा कर्म परवश होता है और वह भगवान् अरहंतके नहीं होता है । ऐसा सुख तो संसार दशामें ही पाया जाता है जो समस्त संसारी जीवों के पाया जाता है । इसीको सच्चा सुख माननेवाला मनुष्य, संसारसे मुक्त होनेकी चेष्टा ही क्यों करेगा ? क्योंकि सुखीसे दुखी होना तो कोई भी नहीं चाहता है । वास्तवमें खाने, पीने और सोने आदि क्रियाओंमें सुख कभी होता ही नहीं है । इनमें तो इन्द्रियोंके परितापको नहीं सह सकनेवाला यह मोही मानव विवश होकर झंपापात लेता है, यही आगे बताते हैं—

मणुआसुरामरिंदा अहिददुदा इन्दियेहिं सहजेहिं ।  
 असहंता तं दुक्खं रमंति विसएसु रमेसु ॥६३॥  
 जेसिं विसयेषु रदी तेसिं दुक्खं वियाण सब्भावं ।  
 जइ तं ए हि सब्भावं वावारो णत्थि विसयत्थं ॥६४॥

नरासुर सुराधीशा इन्द्रियैः व्याकुलीकृताः ।  
 दुक्खं सोदुमशक्तास्तद्-वृत्तिं तत्रानुयान्ति ते ॥६३॥  
 विषयेषु समासक्तिस्तेषां दुःखमिहार्थतः ।  
 अन्यथा पुनरेतेषां प्रवृत्तिस्तत्र किं भवेत् ॥६४॥  
 अमरासुर मनुजादिक सारे इन्द्रियवश होकर हारे ।  
 अभीष्ट विषयोंमें फँस करके फिरते हैं मारे मारे ॥  
 जो विषयोंमें रति लेते हैं उन्हें दुःख नैसर्गिक है ।  
 वरना तो विषयोंमें वें क्यों लगते हैं यों जैन कहें ॥३२॥

**सारांशः**—मृग, शलभ, भौंरा, भूष और हस्तीकी तरह प्रत्येक इन्द्रियके वशीभूत होनेसे मृत्यु जैसे कष्टको भी स्वीकार करते हुए यह शरीरधारी प्राणी अपने अभीष्ट विषयोंमें परिश्रम पूर्वक प्रवृत्त होता है और मोह वश उनमें सुख मानता है । जैसे कुत्ता सूखी हड्डीको चबाता है जिससे उसकी गलाफ फट जाती है और उसमेंसे रक्त निकलने लगता है । उस रक्तके स्वादको वह कुत्ता हड्डीका स्वाद मानता है और उससे अपने आपको सुखी भी समझता है । यहो दशा सम्पूर्ण संसारी जीवों की है ।

संसारी जीव सुखको विषय सेवनसे उत्पन्न हुआ मानता है । यह इसका भ्रम है क्योंकि सुख तो आत्माका गुण है जो ज्ञानका सहचर है । मोहके द्वारा संसारी जीवका ज्ञान जब अज्ञानरूप परिणत होजाता है । तब उसके साथमें अभिलापाके द्वारा सुख भी दुखके रूपमें परिणत होजाता है । इससे अधीर होकर अज्ञानी जीव उस अभिलापाको अभीष्ट विषयके सेवन द्वारा मिटानेका प्रयास करता है किन्तु विषय सेवनसे अभिलापाका विनाश न होकर प्रत्युत उसका अधिकाधिक विकाश होता है ।

जैसे अग्निमें ईंधन डालनेसे अग्नि शान्त न होकर वृद्धिको ही प्राप्त होती है। जो मनुष्य अग्निको शांत करना चाहता है उसका यह कर्तव्य है कि वह आगेके लिए उसमें ईंधन डालना बन्द करदे और उसके निकटवर्ती तृणादिकके समूहको भी वहाँसे दूर हटा दे तो धीरे धीरे अग्नि अपने आप ही शांत हो जाती है। इसीप्रकार अभिलाषा अर्थात् विषयवासनारूप पीड़ाको मिटानेके लिए त्याग और संतोषकी आवश्यकता होती है।

**शङ्का:**—माना कि हानिकर चीजके त्यागमें और अनुपलब्ध वस्तुके विषयमें तो संतोष धारण करनेसे ही शांति प्राप्त होती है परन्तु समुचित आवश्यक वस्तुका तो उपयोग करने पर सुखका अनुभव होता है जैसे भूख लगने पर उचित भोजन करना पड़ता है। इसप्रकार के प्रश्नका उत्तर आगे आचार्यदेव देते हैं—

पृष्ठा इट्ठे विसये फासेहिं समस्सिदे सहावेण ।

परिणममाणो अप्पा सयमेव सुहं ण हवदि देहो ॥६५॥

एगंतेण हि देहो सुहं ण देहिस्स कुणदि सग्गे वा ।

विसयवसेण दुं सोक्खं दुक्खं वा हवदि सयमादा ॥६६॥

प्राप्येष्टान् विषयानक्षैः स्वस्य भावेन संतप्न् ।

सुखमात्मानुमात्येष न कायः सुखकारणम् ॥६५॥

नैकान्तेन सुखायैवामराणामपि विग्रहम् ।

किन्त्वष्टानिष्ट योगेन सुखं वा दुःखमात्मनः ॥६६॥

समुचित विषयोंको पाकर भी देह नहीं सुख देता है।

उनके निमित्तसे संसारी सुख विकाश कर लेता है।

देवोंका शरीर भी उनको सुखका कारण कभी नहीं।

इष्टानिष्टतया विषयोंमें सुख दुख आत्मा मान रही ॥३३॥

**सारांशः**—वास्तवमें आत्मा अखण्ड ज्ञानका एक अमूर्तिक पिण्ड है। वाह्य पदार्थोंसे आत्माका किसी भी तरहका हित या अहित नहीं हो सकता है। ऐसी अवस्थामें इन वाह्य पदार्थोंको आत्माके लिए लाभप्रद

या हानिकारक कैसे कहा जासकता है ? जब यह आत्मा अपने स्वरूपमें न रहकर, शरीरके साथ अहंकार ममकारमें फँसा रहता है तब शरीरके पोषक पदार्थोंको इष्ट और शरीरके लिए हानिकारक पदार्थोंको अनिष्ट मानकर, इष्ट पदार्थोंके संयोगमें अपनेको सुखी तथा अनिष्ट पदार्थों के संयोगमें अपनेको दुखी मानता है । इसप्रकार इष्टानिष्टके विकल्पमें पड़कर यह आत्मा हर समय व्याकुल बना रहता है । इस व्याकुलताका मूलाधार यह शरीर ही है । अतः इसके साथ सम्पर्क बना रहना ही इस आत्माके लिये दुःखका कारण है ।

**शङ्का:**—नारकीय शरीर तो आवश्य दुःखका कारण है यह तो ठीक है परन्तु शरीरमात्र ही दुःखका कारण है, यह बात तो कुछ समझमें नहीं आई क्योंकि देव शरीरके प्राप्त होनेसे तो सुख ही होता है ?

**उच्चरः:**—देवोंका शरीर भी दुःखका ही कारण है क्योंकि वह भी नारकीय शरीरकी तरह आवश्यकताओंको उत्पन्न करनेवाला है । यह बात दूसरी है कि नारकीय शरीरकी उत्पन्न हुई आवश्यकताओंके प्रतिकारका साधन वहाँ पर दुर्लभ ही नहीं किन्तु असंभव ही है । देव शरीरकी उत्पन्न हुई आवश्यकताओंके निराकरणके लिए साधन सामग्री सुलभ हुआ करती है । इसका कारण यह है कि नरकोंमें अशुभकी तथा देवोंमें (देवालयोंमें) शुभकी प्रवानता होती है ।

कपायोंकी तीव्रतारूप संक्लेश परिणामका नाम अशुभ और कपायोंकी मन्दतारूप विशुद्ध परिणामका नाम शुभ है तथा निष्कपाय होनेका नाम शुद्ध दशा है । शुद्धदशामें वास्तविक इन्द्रियातीत सुख होता है और शुभदशामें इन्द्रियजन्य सांसारिक सुख होता है तथा अशुभदशामें यह आत्मा एकान्त घोर दुःखका ही अनुभव किया करता है । मतलब यह है कि वाह्य विषयोंसे सुख दुख न होकर केवल आत्म परिणामोंसे ही होते हैं, यह ही आगे उदाहरण द्वारा फिर स्पष्ट करते हैं—

**तिमिरहरा जइ दिट्ठी जणस्स दीवेण णत्थि कायवं**

**तह सोक्खं सयमादा विसया किं तत्थ कुव्वंति ॥६७॥**

सयमेव जहादिच्चो तेजो उण्हो य देवदा णभसि ।  
सिद्धो वि तहा णाणं सुहं च लोगे तहा देवो ॥६८॥

दृष्टवै चेत्तमोनाशो दीपः कुर्यात् किमत्र सः ।  
सुखे किलात्मनस्तत्वे विषयैः किं प्रयोजनम् ॥६७॥  
यथाकाशे स्वयं सूर्यः तेजस्वी धर्मकारकः ।  
अस्ति तथैव सिद्धात्मा सहज ज्ञानवान् सुखी ॥६८॥

सुख है आत्माका गुण तो फिर विषय वहाँ क्या करते हैं ।  
दीप सहारा मात्र किन्तु आँखोंसे देखा करते हैं ॥  
सहजभावसे एक प्रकाशक धर्मरूप रवि होता है ।  
वैसे ही सुख बोध भावका सिद्धोंमें समझौता है ॥३४॥

**सारांशः**—जैसे नक्तंचर बिलाव वगैरह और प्रकाशधर मानवादिक सभी अपनी अपनी आँखोंसे देखते हैं । फिर भी बिलाव वगैरहकी आँखोंका तेज ऐसा होता है जो रात्रिके घोर अंधकारमें भी दिनकी तरह अपने आप ही काम करता है परन्तु मनुष्यादिकी आँखोंको रात्रिमें दीपकका सहारा लेना पड़ता है, तभी वे कार्य करनेमें समर्थ होती हैं ।

इसीप्रकार संसार अवस्थामें आत्माका सुख गुण अभीष्ट विषयके सहारे पर ही अपना कार्य करनेमें समर्थ होता है किन्तु सिद्धावस्थामें ऐसी बात नहीं है । वहाँ पर आत्माकी शक्तिका पूर्ण विकाश रहता है अतः सुखोपभोगके लिए इन्द्रिय विषयोंकी आवश्यकता नहीं होती है । वहाँ तो आत्माका ज्ञान और सुख गुण दोनों ही अपना कार्य अखण्ड रूपमें स्वभावसे करते रहते हैं । जैसे निरावण सूर्यमें प्रकाश और आताप दोनों साथ साथ सदा दिखाई देते हैं । अशुद्ध अवस्थामें भी यह आत्मा जब अशुभोपयोगसे हटकर शुभोपयोगमें आता है उस समय यह इन्द्रियों के द्वारा विषय अहरणरूप आंशिक सुखका भोक्ता बनता है, यही आगे बताते हैं—

देवदजदिगुरुपूजासु चेव दाणमिं वा सुसीलेसु ।  
उववासादिसु रत्तो सुहोवओगप्पगो अप्पा ॥६९॥

जुत्तो सुहेण आदा तिरियो वा माणुसो व देवो वा ।

भूदो तावदि कालं लहदि सुहं इन्दियं विविहं ॥७०॥

महनीय महोदान शीलोपवास लक्षणम् ।

धर्मानुरागमाप्नोति सोऽयं शुभोपयोगवान् ॥६९॥

सोऽयं शुभेन संयुक्तो चृदेव पशुतामितः ।

अस्मिन् संसार कान्तारे लभते सुखमैन्द्रियम् ॥७०॥

स्वार्थमयाशयसे हटकर धर्मानुरागयुत जब होवे ।

शुभोपयोगात्मकताको गुरुपूजादिकसें तब जोवे ॥

शुभोपयोग सहित जो नर सुर तिर्यक् होता है भाई ।

सांसारिक सुख वह पाता यह वात जिनागममें गाई ॥३५॥

**सारांशः**—जब यह आत्मा अनादिकालसे चली आई हुई शरीरके प्रति अहङ्कार वृत्तिरूप अशुभोपयोग परिणतिको छोड़कर शुभोपयोगी बनता है अर्थात् शरीरको ही आत्मा मानतेरूप विचारधारासे दूर हटकर आत्माके यथार्थ स्वरूपको स्वीकार करता है । उस समय अपने विशिष्ट शक्तिशाली आत्मसंयमी लोगोंके प्रति आदर भाव, प्राणिमात्रको लक्ष्यमें रखकर सेवाभाव, कुमार्गसे निरन्तर वचनेरूप सद्भाव और पर्वादिके समय पूजा, दान, शील और उपवास आदि शुभकार्योंमें तत्परता जागृत होती है । इससे इस नश्वर शरीरके प्रति उदासीन होकर आत्मवल प्राप्त करता है । ऐसे विचारको शुभोपयोग तथा उस विचारवालेको शुभोपयोगी कहा जाता है ।

कभी कभी शरीरके प्रति दासता स्वीकार करनेवाला जीव भी उक्त शुभकार्योंमें प्रवृत्त होजाता है परन्तु वह इन सबको भी लौकिक लाभोंकी इच्छासे ही किया करता है अतः वह अशुभोपयोगी ही कहा जाता है । इसी वातको स्पष्ट करनेके लिये मूल ग्रन्थकारने 'रत्तो' शब्द दिया है । ग्रन्थकारका कहना है कि सांसारिक विषय वासनाके लिए नहीं किन्तु आत्मोत्थानके लिए वलदायक समझकर उपर्युक्त कार्योंको तात्कालिक कर्तव्य मानते हुए जो उनका सम्पादन करता है, ऐसा चतुर्थादि गुणस्थानवर्ती जीव ही शुभोपयोगी कहा जाता है । ऐसा ही टीकाकार श्री अमृतचन्द्र सूरि ने लिखा है—

“यदायमात्मा दुःखस्य साधनीभूतां द्वेषरूपामिन्द्रियार्थानुरागरूपां  
चाशुभोपयोगभूमिकामतिक्रम्य देवगुरुयतिपूजादानशीलोपवासप्रीतिलक्षणं  
धर्मानुरागमङ्गीकरोति तदेन्द्रियसुखस्य साधनीभूतां शुभोपयोगभूमिका-  
मधिरूढोऽभिलप्येत् ।”

यह शुभोपयोगी जीव जब शुभ दैवबलयुक्त एवं शुभ लेश्याबलयुक्त होता है उस समय इन्द्रिय सुखका अनुभव करनेवाला होता है । यदि शुभ लेश्याका और शुभ कर्मोदयका अभाव हो तो ऐसी दशामें बद्धायु-  
ष्टकतादिके कारण शुभोपयोगी (सम्यक्दृष्टि) जीव भी नारकी बनकर नरकमें मारण ताडनादिरूप घोर दुःखको ही भोगनेवाला हो जाता है ।

अशुभोपयोगी (मिथ्यादृष्टि) जीव बाह्य समुचित सामग्री होने पर भी उसके द्वारा सदा दुःखका ही अनुभव किया करता है । जैसे पित्तज्वरवाला मनुष्य दूधमें भी कड़वापन ही मानता है । इसप्रकार शुभोपयोगी और अशुभोपयोगीमें परस्पर किञ्चित् विशेषता है । लौकिक दृष्टिमें शुभोपयोगी सुखी और अशुभोपयोगी दुःखी होता है किन्तु पारमार्थिक दृष्टिमें दोनों ही परतंत्रतासे जकड़े हुए होते हैं अतः दोनों ही दुखी हैं, ऐसा ही आगे बताते हैं—

सोकखं सहावसिद्धं णत्थि सुराणं पि सिद्धमुवदेसे ।

ते देहवेदणट्टा रमंति विसएसु रम्मेसु ॥७१॥

णरणारयतिरियसुरा भजन्ति जदि देहसंभवं दुक्खं ।

किह सो सुहो व असुहो उवश्रोगो हवदि जीवाणं ॥७२॥

किं तदास्ति सुरेन्द्राणा—मपीह सहजं सुखम् ।

हर्तुं मर्तिममी किन्तु विलगन्तीष्ट वस्तुपु ॥७१॥

नरश्च नारका देवा—स्तिर्यश्चोऽप्यकमङ्गं ।

यान्ति वस्तुतया तत्र का शुभाशुभता पुनः ॥७२॥

औरेंकी क्या बात शकको भी न सहज सुख होता है ।

शारीरिक वेदनार्त वह विषयोंमें लेता गोता है ॥

नारककी तरह पशु मनुज सुरको भी दुःख तनुज है ।

तो किर शुभ अशुभोपयोगमें ज्ञानी कैसा भेदक है ॥३६॥

सारांशः—लौकिक दृष्टिसे नारकियोंको दुख और देवोंको सुख होता है। देवोंमें भी प्रव्यानता इन्द्रोंकी है। जो निश्चितरूपसे शुभोपयोगी होते हैं। जब हम इनके विषयमें भी विचार करते हैं तो बात कुछ और ही पाते हैं। भूख प्यास आदिकी वेदना जैसी नारकियोंके होती है वैसी ही इन्द्रोंके भी होती है। अन्तर केवल इतना ही है कि नारकियोंके पास उसे मिटानेका कोई वाह्य साधन नहीं होता है और इन्द्रोंके पास होता है।

यह बात तो ऐसी ही हुई कि जैसे दो मनुष्योंको शीतज्वरका वेग आया। इनमेंसे एकको तो रजाई और कम्बल मिल गये, उन्हें ओढ़कर वह सो गया परन्तु दूसरेके पास कुछ भी न होनेसे वह, बिना ओढ़े ही अपने स्थान पर पड़ा रहा। ऊपरसे देखनेमें तो उन दोनोंमें अन्तर दीख रहा है। एक ओढ़े हुए है और दूसरेके पास ओढ़नेको कुछ भी नहीं हैं परन्तु भीतरसे दोनोंको जाड़ा (सर्दी) सत्ता रहा है। दोनों ही भीतरी ठण्डकसे काँप रहे हैं। दोनों ही शीतज्वरके रोगी हैं। रोगके वेगसे पीड़ित हैं।

इसीप्रकार देव और नारकी दोनों ही दुखी होते हैं। बाह्यमें एकके पास भोग सामग्री है और दूसरेके पास नहीं है फिर भी उनके दुःखमें कोई मौलिक अन्तर नहीं होता है। तीरोगपतकी तरह जो मनुष्य अपने ग्रन्तरंगमें सहज स्वभावके मूल्यको आँक रहा है उसके लिए दोनों एक समान हैं। दोनों ही अपनेपनसे दूर होकर विकारग्रस्त होरहे हैं। वस्तुतः दोनों ही दुःखी हैं। नारकी जीवको जिस शरीरमें रहकर दुःख का अनुभव करना पड़ता है वह उस शरीरका शोषण करना चाहता है और इन्द्र उसीका पोषण करना चाहता है। विवेकशील महात्माकी दृष्टिमें नारकीय जीवन तो उपवासकी तरह और स्वर्गीय जीवन भोजन की तरह प्रतीत होता है, यही आगे स्पष्ट करके बताते हैं—

कुलिसाउहचक्कधरा सुहोवच्छोगप्पगेहिं भोगेहिं ।  
देहादीण विद्धि करेति सुहिदा इवाभिरदा ॥७३॥

जदि संति हि पुण्याणि य परिणामसमुद्भवाणि विविहाणि ।  
जणयंति विसयतरहं जीवाणं देवदंताणं ॥ ७४ ॥

शक्तचक्रधरादीनां भोगैश्च तनुपोषणम् ।

जलौकसामिवोच्छब्द—रक्तपानैर्विपत्तये ॥ ७३ ॥

अस्थायीनि हि पुण्यानि विविधानि दिवौकसाम् ।

तेषामपि प्रकीर्त्यन्ते भृशं तृष्णाभिवृद्धये ॥ ७४ ॥

शक्तचक्रधरके यथेष्ट भोगोंसे भी तनुपोषण ही ।

होकर होता है दुनियामें जीवभावका शोषण ही ।

देवादिकका पुण्योदय भी परिणामनात्मक होता है ।

इसीलिये विषयाभिलाष पैदा करके सुख खोता है ॥ ३७ ॥

**सारांश**—जोंक किसीके भी दूषित रक्तको पिया करती है और उससे वह पुष्ट हुई सी प्रतीत होती है परन्तु परिणाम यह होता है कि यदि वह अल्प समय तक भी उसे पिये हुए रह जाय तो प्राणान्तकारक कष्ट उठाती है । ऐसे ही शक्तचक्रधरादिक विशिष्ट पुण्यशाली पुरुष भी अपने प्राप्त भोगों द्वारा शरीर और इन्द्रियोंको संतुष्ट करते हैं और अपने आपको सुखी मानते हैं परन्तु फल उनको विपरीत ही मिलता है । अन्तमें पश्चात्ताप ही उनके लिए शेष रह जाता है क्योंकि बड़ेसे बड़े पुण्यका भी अन्त अवश्य होता है । वह सदा बना रहनेवाला नहीं होता है, नाशमान होता है । एवं उसमें बीच बीचमें भी अनेक तरहके उतार चढाव आते रहते हैं जिससे वह अपने साथ शोक सन्तापको लिये हुए तृष्णाभिवृद्धिका ही कारण हुआ करता है । इस पर ऐसा कहा जा सकता है कि परिणाममें भले ही दुःख हो परन्तु तत्काल तो विषय भोग में सुख होता है या नहीं ? इसका उत्तर आगे देते हैं—

ते पुण उदिण्णतरहा दुहिदा तण्णाहिं विसयसोक्खाणि ।

इच्छन्ति अणुभवंति य आमरणं दुक्खसंतता ॥ ७५ ॥

सपरं बाधासहियं विच्छिरणं बंधकारणं विसमं ।

जं इन्दियेहिं लद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव तहा ॥ ७६ ॥

बासृत्यु दुःखसंतसा आशापाशवशीकृताः ।

इच्छन्ति विषयांस्तुष्णा—क्रान्तास्तेऽनुलग्नित च ॥७५॥

सदाधं यत् परापेक्षं विच्छेद सहितं तथा ।

पापार्जकं च विषमं दुर्खमेवासजं सुखम् ॥७६॥

तृष्णाके वश दुःखी होकर ही तो विषयोंको सेवे ।

संसारी जन जैसे आतुर होवे वह औपध लेवे ॥

पराधीन विच्छेदपूर्ण वाधायुत पापबीज भी है ।

अतः विषम इन्द्रियसुख ऐसी चर्चा ऋषियोंने की है ॥३८॥

**सारांशः**—आचार्य कहते हैं कि इन्द्रियजन्य सुख परपदार्थके संयोगसे होनेवाला है और पुण्यकर्मके उदयकी अपेक्षा रखता है अतः वाधा सहित भी है । पर पदार्थ (समुचित विषय) अनुकूल हो और पुण्यका उदय भी हो परन्तु उचित व्यवस्थाका अभाव हो तो भी सांसारिक सुखमें वाधा उत्पन्न हो जाती है । जैसे एक स्वस्थ मनुष्यको स्त्रीप्रसंगकी वासना है । स्त्री भी पासमें खड़ी है और वह भी प्रसंग करना चाहती है परन्तु वहीं पर गुरुजन या सखियाँ खड़ी हुईं देख रही हों तो अभीप्सित कार्य नहीं हो सकता है, वहाँ वाधा उत्पन्न हो जाती है ।

इसीप्रकार विषय सुख विच्छेदयुक्त भी होता है तथा विषय सुख को यदि तत्परतासे भोगा जाय तो आगामी कालके लिये वह पापबंधका भी कारण होता है और विषम होता है । अपने कालमें भी निरन्तर एकरूपमें नहीं रहता है । जैसे एक मनुष्य भोजन कर रहा है । उसको दालका कुछ और ही स्वाद आता है और भातका कुछ और ही आता है तथा उनके साथमें खाये जानेवाले शाकपातका कुछ और ही स्वाद आता है । इन सब वातोंसे विषय सुख उत्तरोत्तर तृष्णाको बढ़ानेवाला होता है अतः विषमिश्रित मिटान्न भक्षणकी तरह हेय ही है ।

विषमिश्रित मिटान्न खानेमें मीठा अवश्य लगता है परन्तु वह साथमें दाह भी उत्पन्न करता है । ऐसे ही विषय सेवनमें इस जीवको

आनन्दका अनुभव होता है परन्तु साथ ही वह तृष्णाको बढ़ानेवाला भी होता है। अतः विषय सेवन तत्कालमें भी आचार्योंके कथनमें दुःखरूप ही होता है। दुःख तो दुःख है ही किन्तु विषयसुख भी दुःख ही है। जब ऐसा सिद्धांत सिद्ध हो गया तब पुण्य और पापमें भी क्या भेद रहा? ऐसा समझकर पापकी तरह पुण्यसे भी जब तक पार नहीं हो जाता है तबतक संसार बना ही रहता है। यही आगे बताते हैं—

ए हि मण्णदि जो एवं णत्थि विसेसो त्ति पुण्णपावाणं ।

हिंडदि घोरमपारं संसारं मोहसंछरणो ॥७७॥

एवं विदिदत्थो जो दव्वेसु ए रागमेदि दोसं वा ।

उवश्रोगविसुद्धो सो खवेदि देहुव्वभवं दुक्खं ॥७८॥

पापवत् पुण्यतोऽपीदं मनो नहि विरज्यते ।

तवत् संसार एवायं जनो मोहेन तिष्ठति ॥७७॥

यस्तु विदिततत्वार्थो न क्वचिद् द्वेष्टि तुष्यति ।

स विशुद्धोपयोगी सन् भवदुःखं विनाशयेत् ॥७८॥

जो कि पापसे दुःख पुण्यसे सुख ऐसे विचारयुत है।

तव तक मोह भमत्व सहित होनेसे संसारमें रहे ॥

वस्तुरूप अनुभावक तो परचीजोंमें समतायुत हो ।

शुद्धोपयोगमय देहज दुःखोंसे होकर दूर रहो ॥३६॥

**सारांशः**—चोरी व्यभिचार आदि पापकार्योंके करनेसे इस जीवको दुःख भोगना पड़ता है किन्तु यज्ञानुष्ठान दान आदि पुण्यकर्मोंके करनेसे सुख मिलता है। इसप्रकार पाप और पुण्यमें भेद स्वीकार करनेवाला मानव यद्यपि पापकार्योंसे बचकर रह सकता है किन्तु पुण्यकार्योंके प्रति रहनेवाले मोहसे मुक्त होनेका उसके पास कोई मार्ग ही नहीं होता है। अतः वह संसारसे कभी पार ही नहीं हो सकता है।

जो मनुष्य तत्त्वद्विष्ट बन चुका है, जिसने यह समझ लिया है कि मेरी आत्मा वास्तवमें सच्चिदानन्द स्वरूप और अमूर्तिक है, उसका इन वाह्य पदार्थोंसे कुछ भी हिताहित नहीं है। इसलिये इनको इष्ट और

अनिष्ट मानकर व्यर्थकी उलझनमें वह नहीं फँसता है । वह पापकार्योंको बुरे मानकर उनसे द्वेष नहीं करता है और अपने आपके लिए निस्सार समझकर उन्हें स्वीकार भी नहीं करता है । उनसे सदा दूर ही रहता है । इसीतरह पुण्यकार्योंको भी अच्छे मानकर उनमें तल्लीन नहीं होता है अपितु उदास रहनेका प्रयास करता है । ऐसा जीव अपने उपयोगको निर्मलसे निर्मल बनाता हुआ अन्तमें किसी एक दिन जन्म भरणके दुःख से रहित हो जाता है ।

**शङ्काः**—क्या पापकार्योंको बुरे मानकर उन्हें छोड़ना और पुण्यकार्योंको कर्तव्य मानकर उन्हें तत्परताके साथ करना ठीक नहीं है ? यदि ऐसा ही है तो फिर अनेक महान् आचार्योंने स्थान स्थान पर पापकार्योंको बुरे एवं दुखदायक बताकर उन्हें छोड़नेकी तथा पुण्यकार्योंको अच्छे और सुखदायक बताकर उन्हें करनेकी प्रेरणा क्यों की है ? श्री उमास्वामी आचार्यने अपने तत्वार्थसूत्रके सातवें अध्यायमें लिखा है कि ‘हिसादिप्विहामुत्रापायावद्यदर्शनम् ॥६॥ दुःखमेव वा ॥१०॥ मैत्रीप्रमोदकारण्यमाद्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिकविलङ्घयमानाविनयेषु ॥ ११ ॥ अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानं ॥३८॥ इत्यादि ।

इसके उत्तरमें आचार्य श्री लिखते हैं—

चत्ता पावारंभं समुट्ठिदो वा सुहम्मि चरियम्हि ।  
ए जहदि जदि मोहादी ण लहदि सो अप्पाणं सुद्धं ॥७९॥  
जो जाणदि अरहंतं दब्वत्तगुणतपज्जयत्तेहिं ।  
सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयं ॥८०॥

बशुभादिज्ञिवात् विभ्यच्छुम् एवावतिष्ठते ।

स मोही शुद्धमात्मानं कर्तुं कदापि नार्हति ॥७९॥

द्रव्यत्वेन गुणत्वेन पर्ययत्वेन चार्हतः ।

यो निश्चयः स एवास्तु मोहहाऽऽत्मविनिश्चयः ॥८०॥

पापारम्भ रहित होकर भी शुभचरित्रमें ही रत हो।  
वह भी मोहमहिमका धारी सहजभावसे दूर अहो ॥  
द्रव्य और गुणपर्यायतया जिसने जिनको जान लिया ।  
जान लिया उसने आत्माको क्योंकि मोहका नाश किया ॥४०॥

**सारांशः**—आचार्य कहते हैं कि पापकार्यको अकर्तव्य मानकर उसे छोड़ना, हेय बताना और पुण्यकार्यको कर्तव्य जानकर उसे करना, उसको विधेय बताना यहाँ तककी बात तो ठीक है। इन दोनोंके अतिरिक्त एक तीसरी बात भी है जिसे ध्येय या लक्ष्य कहते हैं। इसीको दृष्टिमें रखते हुए ही कर्तव्य किया जाता है। यह विधेय है, इसके बिना तो सब ही निरर्थक है।

जैसे श्री सम्मेदशिखर पर्वतकी वन्दना करनेके लिए रेलगाड़ीमें बैठकर जिसको पारसनाथ स्टेशन पर जाना है, वह मनुष्य अपने ग्रामसे पांच कोश पैदल चलकर देहलीके स्टेशन पर आया। वह वहाँ देखता है कि अभी गाड़ीके आनेमें आधे घंटेकी देर है। अब वह यदि सोचने लगे कि गाड़ी तो है ही नहीं, अतः वापिस घरको ही लौट चलो। ऐसा सोचना और करना उसके लिए ठीक नहीं है, अकर्तव्य है, हेय है, बुरी बात है। उसको अपने ध्येयसे भ्रष्ट करके उससे विलकुल दूर होनेकी बात है। उसका कर्तव्य है कि वह आधे घण्टेके लिए वहीं विश्रामगृहमें ठहरे जिससे गाड़ी आने पर उसमें बैठ सके और सफल मनोरथ हो सके। उतनी देर वहाँ ठहरना और गाड़ीकी प्रतीक्षा करना उसका कर्तव्य है। वहाँ ठहर करके भी यदि वह निश्चिन्त हो जावे, गाड़ीके आने और स्टेशनको पारकर चले जाने तक भी ध्यान न दे तो ऐसी दशामें उसका वहाँ ठहरना भी व्यर्थ हो जाता है।

इसीप्रकार अनात्मभावसे हटकर आत्मभावको प्राप्त करनेवाले व्यक्तिके लिए समाश्वासनके रूपमें शुभभावका स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है। अशुभभावसे शुभभाव पर आये बिना शुद्धभावपर नहीं पहुंचा जा सकता है। जैसे मलिन वस्त्रके सावुन या खार लगाकर पानीसे धोये बिना उसे स्वच्छ नहीं किया जा सकता है। जहाँ शुद्ध-

भावको विलकुल भी लक्ष्यमें न रखकर केवल मात्र शुभभावको ही स्वीकार किया जा रहा हो तो वह तो ऐसा ही हुआ जैसे कि कपड़ा मैला तो हो ही रहा था उस पर खार मिट्टी और लगादी गई । खार मिट्टी लगाकर रख देने मात्र से कपड़ा स्वच्छ हो सकेगा क्या ? कभी नहीं ।

ऐसे ही जो मनुष्य शुभभावको ही पर्याप्त समझ रहा है, वह शुद्धताको कैसे प्राप्त हो सकता है ? वह तो अपने विचारके अनुसार सदा अशुद्ध ही बना रहेगा । उसके शुभ भाव और अशुभभावमें कोई खास अन्तर नहीं होता है, यह बात ठीक ही है । इसप्रकार कह करके स्याद्वाद सिद्धान्तके पारगामी आचार्य महाराज अब उपर्युक्त दृष्टिकोणसे भिन्न दृष्टिकोणको स्वीकार करते हुए फिर कहते हैं ।

शुभ और अशुभभावमें यदि विशेषता लानी हो तो श्री अरहन्त भगवानकी शरण ग्रहण करनी होगी । ये अशुभकी तरहसे शुभभावको भी त्याग करके स्वयं शुद्धभावको प्राप्त कर चुके हैं एवं औरोंके लिए भी उसका उपदेश दे रहे हैं । ऐसे अरहन्तोंको आदर्श मानकर उनका गुणानुवाद गाने वाले महाशयके अन्तस्तलमें यह विश्वास होना अवश्यं-भावी है कि जिसप्रकार अरहन्तोंने अपने आपको अशुभ और शुभसे शुद्ध करके बताया है उसीप्रकारका प्रयत्न यदि मैं भी करूँ तो अपनी आत्मामें विकाररूपसे उत्पन्न होनेवाले रागादि भावोंको धीरे धीरे अभ्यासके बलसे घटाते हुए अन्तमें इनका सर्वथा अभाव कर सकता हूँ ।

अपने आपको स्पष्टरूपसे शुद्ध सच्चिदानन्दमय बना सकता हूँ क्योंकि आत्मत्वकी अपेक्षा जैसी आत्मा उनकी है वैसी ही मेरी है । इसप्रकार अरहन्तोंको जानना, मानना और उनका गुणानुवाद करना प्रकारान्तरसे अपने आत्म तत्वको ही जानना, मानना एवं गुणानुवाद करना है । अरहन्तोंके प्रति वास्तविक अनुराग रखनेवाले व्यक्तिकी आत्मतत्त्वकी भूल दूर हो जाती है जिससे अब इसका शुभभाव उपर्युक्त शुभभावसे भिन्न जातिका हो जाता है । अपने उत्तरकालमें शुद्धता विधायक होनेसे वास्तविक शुभोपयोग होता है । यही आगे बताते हैं—

जीवो ववगदमोहो उवलद्धो तच्चमण्णो सम्मं ।  
जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाण लहदि सुद्धं ॥८१॥  
सब्बे वि य अरहंता तेण विधाणेण खविदकम्मंसा ।  
किञ्चा तधोवदेसं णिव्वादा ते णमो तेसिं ॥८२॥

प्रणष्टमोहो पश्चासौ सम्यगात्मत्वमास्वान् ।  
रागदोषौ यदा हन्ति याति शुद्धत्वमात्मनः ॥८३॥  
अनेनैव विधानेन हत्वाऽर्हन्तो विधीनहो ।  
सर्वेऽपि निर्वृताः कृत्वा देशनां तान्नमाम्यहं ॥८४॥

आत्मभावमें रुचि लेता है मोहरहित जो होता है ।  
फिर रागद्वेष रहित होकर समरसमें लेता गोता है ॥  
नमस्कार उन अरहन्तोंको यों जिनने रांगादि हरे ।  
दे उपदेश भव्यजीवोंको भवसमुद्रसे आप तरे ॥४१॥

**सारांशः**—वस्तुतत्वको अन्यथा माननेरूप मोहभाव जब इस आत्माका दूर होजाता है तब अपने पुरातन संस्कारानुसार भले ही वह वर्तमानमें अपने लिये अपने कर्तव्यकार्यमें किसीको साधक और किसीको बाधक मानकर उन पर राग द्वेष करता हो तथापि वह ऐसे करनेको यथार्थमें अनुचित मानकर, उस पर भी विजय प्राप्त करके वीतराग बनना चाहता है । अतः वह अन्तरात्मा तथा शुभोपयोगी कहलाता है ।

यही अन्तरात्मा जब पूर्ण वीतराग बनकर शुद्धोपयोगी होता हुआ केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है तब परमात्मा बन जाता है । जो पहिले संसारावस्थामें आत्माको शरीररूप ही माननेके कारण बहिरात्मा तथा अशुभोपयोगी बना हुआ था । मतलब यह है कि अवस्थाभेदसे आत्मा अशुभ, शुभ तथा शुद्ध अर्थात् बुरी, अच्छी और इन दोनोंसे भी भिन्न (न अच्छी और न बुरी) स्वभावमय ऐसे तीन तरहका होता है ।

**शङ्का:**—जैन शास्त्रोंमें स्थान स्थान पर वर्णन है कि संसारके पदार्थ न अच्छे हैं और न बुरे हैं और शास्त्रकारोंका ही यह विधान है कि न कोई आत्मा अच्छा है और न कोई बुरा ?

उच्चरः—शास्त्रकारोंका कहना है कि संसारका कोई भी पदार्थ न तो आत्माका निश्चित रूपसे हित ही करनेवाला है और न अहित करने वाला है। अतः न तो कोई पदार्थ वास्तवमें इसके लिए अच्छा ही है और न बुरा ही किन्तु आत्मा स्वयं ही अपने लिए अच्छा और बुरा होता है।

जो आत्मा सत्ता (सज्जनता) सत्प्रवृत्ति, समता एकताको स्वीकार करता है वह शुभ कहलाता है और जो असत्ता (दुर्जनता) असद्वृत्ति ममता या भेदभावसे ग्रस्त है वह अशुभ कहा जाता है। अशुभ त्याज्य है और शुभ ग्राह्य है।

शङ्काः—ग्राह्य तो शुद्धको कहना चाहिये। शुभ भी अशुभकी तरह त्याज्य ही है क्योंकि आत्मा जैसे अशुभका त्याग करके शुभको स्वीकार करता है वैसे ही शुभका भी त्याग करके अन्तमें शुद्ध बन जाता है।

उच्चरः—अशुभका प्रध्वंसाभाव शुभ है। शुभका प्रध्वंसाभाव शुद्ध है। यह बात तो ठीक है। “चारित्रमोहके साथ दर्शनमोहका भी होना अशुभोपयोग है किन्तु दर्शनमोह दूर होकर चारित्रमोहका रहना शुभोपयोग है और चारित्रमोहका भी अभाव हो जाना शुद्धोपयोग है।” अशुभ और शुभ ये दोनों तो, कृत्य तत्परतामय होते हैं किन्तु शुद्ध कृत्याभावरूप, कृतकृत्यतामय होता है, इतना इनमें भेद है।

अशुभोपयोग दशामें यह जीव चोरी करना, झूठ बोलना आदि हानिकर कार्योंको ही लाभदायक समझकर उन्हींके करनेमें लगा रहता है परन्तु शुभोपयोग होने पर उन्हें हानिकर समझकर छोड़ देता है और सम्मान, दान, सत्यसम्भाषण आदिको प्रयत्नपूर्वक करने लगता है। इन सबको पूर्णरूपसे कर चुकना ही शुद्धोपयोग कहलाता है।

अशुभकार्य तो प्रयत्नपूर्वक छोड़े जाते हैं परन्तु शुभकार्य छोड़े नहीं जाते हैं, वे तो शुद्धोपयोग होनेपर स्वयं ही छूट जाते हैं। जैसे एक हृदयकी कमजोरीवाले रोगीके सम्मुख शोक सन्तापकी वातें छेड़दी गई,

उनमें उलझ जानेसे रोगीको रातमें भी नींद न आकर व्याकुलता होने लगी। तब वैद्यने कहा कि इसके आगे ऐसी बुरी बातें करना छोड़ दो और कुछ ऐसी अच्छी बातें करो जिससे इसे आनन्द मिले। तब हास्य विनोदकी बातें की जाने लगीं, जिन्हें वह ध्यानपूर्वक सुनने लगा। उनसे मन प्रसन्न होजानेके कारण उसे नींद आ गई जिससे उसकी हास्य-विनोदकी बातें भी छूट गईं।

इसीप्रकार शुभोपयोग तो संक्लेशरूप होनेसे त्याज्य होता है और प्रसक्तिकारक होनेसे शुभोपयोग ग्राह्य होता है किन्तु शुद्धोपयोग स्वयं प्रसादरूप होनेसे निर्वर्त्य माना गया है। यही बात मूल ग्रंथकारके कथनसे भी स्पष्ट है क्योंकि ग्रंथकार अपनी दरवीं गाथामें शुद्धोपयोग सम्पत्तिवाले अरहंतोंको गौरवके साथ नमस्कार करनेमें प्रवृत्त हैं, जिससे वे अपने अंतरंगमें प्रस्फुट होनेवाले शुभोपयोगका परिचय दे रहे हैं। एवं हम लोगोंको भी प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम भी श्री अरहंत भगवानके उपदेशको स्वीकार करो जिससे अपने मोहभावको मिटाकर शुभोपयोगी बन सको क्योंकि मोही जीव एकान्तरूपसे परपदार्थोंको ही इष्ट और अनिष्ट मानकर क्षुब्ध बना रहता है। रागद्वेषको दूर नहीं कर सकता अतः वह कर्मवंधसे बच नहीं सकता। ऐसा ही आगे लिखा जारहा है—

**दब्बादिएसु मूढो भावो जीवस्स हवदि मोहो त्ति ।**

**खुब्मदि तेणुच्छण्णो पप्पा रागं व दोसं वा ॥८३॥**

**मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स ।**

**जायदि विविहो बंधो तम्हा ते संखवइदब्बा ॥८४॥**

परस्मिन् स्व इतीद्वक्षः प्रभावो मोह इत्यतः ।

आप्त्वा रागं च रोपं च क्षोभमेति शरीरवान् ॥८३॥

मोहेन रागरोषाभ्यां-मस्यपरिणतस्य च ।

यतोऽस्ति कर्मसंबंधः प्रहातव्या अमी ततः ॥८४॥

मोही जीवः आपको परमय माना करता है इससे ।  
 हो विज्ञुव्वध राग रोष किया करता मूढ़ अहो परसे ॥  
 मोहः राग या रोषभावमय होकर नाना कर्म करे ।  
 जीव जो कि इनसे दूर रहे वह मुक्तिरमा व्वरित वरे ॥४२॥

इस पर प्रश्न होता है कि इस दृश्यमान सम्पूर्ण अनर्थका मूल कारण एक मोहभाव है, तो इसके पहिचाननेका क्या उपाय है? इसका उत्तर आगे देते हैं—

अट्टे अजधागहणं करुणाभावो य तिरियमण्णएसु ।  
 विसएसु च पसंगो मोहसेदाणि लिंगाणि ॥८५॥  
 जिणसत्थादो अट्टे पच्चक्खादीहिं बुजभदो णियमा ।  
 खीयदि मोहोवचयो तम्हा सत्थं समधिदवं ॥८६॥

नरतिर्यक्षु तु क्रौर्य — मयथार्य समादरः ।  
 मोहनिहानि भोगेषु किलात्यन्तं प्रसङ्गिता ॥८५॥  
 प्रत्यक्षादि विदावस्तु जिनशास्त्रानुसारतः ।  
 बुझुत्सोमोह हानिर्हि श्रोतव्यं तत्त्वोऽङ्गिभिः ॥८६॥  
 तत्वोंका अयथार्य समादर नर पशुओं पर निर्दयता ।  
 भोगोंमें आसक्तिभाव भी जहाँ मोहकी समर्थता ॥  
 जिनशासनके पढ़नेसे गुणपर्यययुत तत्वार्थमति ।  
 होकर मोहनाश हो ऐसे शास्त्र पठनकी सुसङ्गति ॥४३॥

**सारांशः**—जो वस्तुके स्वरूपको ठीक तरहसे न समझकर और का और ही समझता हो, मनुष्य और तिर्यंचों पर निर्दयता रखता हो, विना मतलब ही उन्हें कष्ट देनेमें तत्पर रहता हो, कफमें फँसी हुई मक्खीकी तरह चिंपय भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति रखता हो, वह मोही जीव होता है, ऐसा समझना चाहिये । उक्त तीनों वातें मोहकी पहिचान हैं । यदि इन तीनोंमेंसे एक भी हो तो वहाँ मोह (मिथ्यात्व)का होना अवश्यं भावी है और तीनों ही हों तब तो कहना ही क्या है? अतः मोहको दूर करनेका उपाय करना चाहिए । इसके लिए निरन्तर जैनागमका अभ्यास करना चाहिए; यही एक उसका समुचित उपाय है ।

(१) तत्त्वकी अन्यथा प्रतिपत्ति तो मिथ्यात्वका, नर पशुओं पर करुणाका न होना, द्वेषका और विषयोंमें आसक्तिका होना, रागका चिह्न है। ये सब तीनों, मोहके चिह्न हैं। ऐसा अर्थ भी इस गाथा नं० ८५का किया जा सकता है किन्तु करुणाका होना, मोहका चिह्न है ऐसा अर्थ तो किसी भी तरह समझमें नहीं आता है क्योंकि स्वयं कुन्दकुन्द स्वामीने ही करुणाको 'धर्मो दयाविशुद्धो' आदि बोधपादुड़की गाथा नं० २५ आदिमें धर्म बताया है।

यहाँ पर मूल ग्रंथकारने मोह होनेका दूसरा चिह्न "करुणाभावो य तिरियमणुएसु" बताया है। इसका अर्थ अमृतचन्द्राचार्य कृत टीकामें 'तिर्यग्मनुष्येषु प्रेक्षाहेष्वपि करुण्यबुद्धि' अर्थात् पशु और मनुष्यों पर भी दयाबुद्धिका होना, मोह (मिथ्यात्व)के सदभावका दूसरा चिह्न है, ऐसा लिखा है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य एवं पशुओं पर दया करनेवाला जीव मोही मिथ्यादृष्टि घोर पापी बहिरात्मा होता है। यह ऐसा अर्थ सम्पूर्ण जैनागमके विरुद्ध पड़ता है।

श्री अमृतचन्द्राचार्य जैसे मान्य विद्वान्की की हुई टीकामें यह अर्थ कैसे है? स्वयं टीकाकारके ही लेखन प्रमादसे ऐसा अर्थ हुआ है या उनके बादके किसी लेखक महाशयकी कृपासे ऐसा होगया है, यह हम नहीं कह सकते हैं। ऐसा अर्थ श्री अमृतचन्द्राचार्यके बहुत समयके बादमें होनेवाले तात्पर्यवृत्तिकार श्री जयसेनस्वामीजी को भी अवश्य खटका है। इसीलिए उन्होंने अपनी कलमसे 'करुणाभावो'का अर्थ शुद्धात्मोपलब्धिलक्षणपरमोपेक्षासंयमाद्विपरीतः करुणाभावोदयापरिणामोऽथवा व्यवहारेण करुणाया अभावश्च इसप्रकार लिखा है।

जयसेनाचार्यजी कहते हैं कि निश्चयनयसे तो दया करना ही उपेक्षा संयमसे विपरीत होनेके कारण मोहका चिह्न है। व्यवहारनयसे देखा जावे तो दयाका न करना ही मोहका चिह्न है। इसप्रकार लिख कर सञ्ज्ञति बिठानेकी चेष्टा की है, फिर भी इसमें सफल नहीं होसके हैं क्योंकि यहाँ मोह शब्दसे दर्शनमोहको ही लिया गया है। दयालुता

दर्शनमोहका लक्षण कभी भी नहीं माना जासकता है। आंशिक चारित्र-  
मोहका लक्षण कहा जा सकता है।

यदि यह कहा जावे कि निश्चयनयमें चारित्रमोह और दर्शनमोह  
भिन्न भिन्न कहाँ हैं? जब भिन्न भिन्न नहीं हैं तो चारित्रमोहका लक्षण  
ही दर्शनमोहका लक्षण है इसलिये ऐसा कहना भी नहीं बन सकता है  
क्योंकि यहाँ ग्रन्थकारने दर्शनमोह (मिथ्यात्व) और चारित्रमोह  
(राग द्वेष) को स्पष्टरूपसे भिन्न भिन्न बताया है। अतः यह मानना  
चाहिए कि ग्रन्थकर्ताका यह सब वर्णन व्यवहारनयको लेकर ही है।  
इसीका समर्थन ग्रन्थकारकी आगेवाली दृढ़वीं गाथासे और भी स्पष्टरूपमें  
मिल रहा है। अतः करुणाभावका अर्थ निर्दयता (क्रूरता) लेना ही ठीक  
है। ग्रन्थकार कहते हैं कि जिसप्रकार विपरीताभिनिवेश, मिथ्यादर्शनके  
सदूभावको बतलाता है वैसे ही क्रूरता (संकल्पी हिसा, शिकार खेलना,  
मांस खाना आदि) भी मिथ्यादर्शनके बिना नहीं हो सकती है।

**शङ्काः**—करुणाके अभावको मिथ्यादर्शनका चिह्न (लक्षण)  
कहने पर वीतरागियोंके मिथ्यादर्शन होनेका प्रसंग आजाता है क्योंकि  
वहाँ करुणा (दयारूप परिणाम)का अभाव है।

**उत्तरः**—‘दुःख प्रतिकरण लक्षणं कारुण्यं’ अर्थात् होते हुए दुःखको  
न होने देना, उसे हटा देना ही कारुण्य है। ऐसी दशामें वीतरागियोंकी  
आत्मामें कारुण्यका सदूभाव नहीं है, यह बात ही गलत है क्योंकि  
वीतरागियोंने अपनी आत्मामें होनेवाले दुःखका तो मूलोच्छेद ही कर  
दिया है। एवं औरोंके भी दुःखको हटानेके लिए भी वे परमादर्श बने  
हुए हैं, ऐसा समझना चाहिये। अस्तु। आगे जैन शास्त्रोंका अध्ययन  
करनेवालेका मोह, क्यों और कैसे दूर होजाता है इसका समर्थन करते  
हैं—

दब्बाणि गुणा तेसि पञ्जाया अदृसणया भणिया ।

तेसु गुणपञ्जयाणं अप्पा दब्बत्ति उवदेसो ॥८७॥

जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलब्ध जोणहमुवदेसं ।

सो सब्बदुखमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥८८॥

गुणश्च पर्ययो द्रव्य-मर्था एते त्रयः सदा ।  
गुणपर्ययवद्द्रव्यं भवतीत्युपदेशतः ॥८७॥  
जैनशास्त्रमधीयानो मोहं रागरूपावपि ।  
हत्वा मुक्तिमवाप्नोति शीघ्रं संसारतोऽमुतः ॥८८॥

जनागममें है पदार्थका यथार्थ वर्णन किया गया ।  
गुणमय वस्तु और पर्ययमय गुण यों तत्पन लिया गया ॥  
जो नर अरहन्तोपदेश पाकरके तात्त्विक भावसने ।  
मोहरागरोप प्रणाशकर शीघ्रतया वह शांत वने ॥४४॥

णाणप्पगमपाणं परं च द्रव्यतणाहिसंबद्धं ।  
जाणदि जदि णिच्छयदो जो सो मोहकखयं कुणदि ॥८९॥  
तम्हा जिणमगादो गुणेहिं आदं परं च द्रव्येसु ।  
अभिगच्छदु णिमोहं इच्छदि जदि अपणो अपा ॥९०॥

तत्रोदितं चेतना वा नात्मा अन्यनिखिलं जडम् ।  
निश्चिन्वन्निदमाप्नोति मोहनाशं न संशयः ॥८९॥  
आत्मानं च परं जैना-दागमात्स्वस्वरूपतः ।  
स्थितं समभिजानीया - चेदमोहत्वमिच्छति ॥९०॥

है निजदेह प्रमाण आत्मद्रव्य चेतनायुक्त अहा ।  
इतर द्रव्य अनेतन ऐसे समझे मोहाभाव कहा ॥  
जो निर्मोही होना चाहे जैनागमसे ठीक करे ।  
अतः ज्ञानयुत जीव और जड़ देहादिक जगके सगरे ॥४५॥

**सारांशः**—जैनागममें बताया है कि द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों ही जानने योग्य हैं । इनमें परस्पर तादात्म्य नामक अभिन्नभाव सम्बन्ध बना हुआ है । गुणोंको कभी भी नहीं छोड़नेवाला द्रव्य होता है । गुणोंमें विकार (परिणमन) होते रहनेका नाम पर्याय है । हर एक द्रव्य अपने अपने गुणोंको सदा अपने साथमें रखते हुए परस्पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे भिन्न होता है । आत्मद्रव्य अपने अन्य गुणोंके साथ साथ चेतना गुणवाला है । शेष सब द्रव्य चेतना रहित (जड़) होते हैं ।

आत्मा समुद्घातके सिवाय इतर समयमें अपने प्राप्त हुए शरीरप्रमाण रहनेवाला है ।

इसप्रकारका जैनागम विहित पदार्थोंका स्वरूप युक्ति और अनुभव के द्वारा भी विचार करने पर सही सिद्ध होता है । अतः जो मनुष्य अपने विश्वासको जैनागमके अनुकूल बना लेता है, वह भूलरहित हो जाता है । जो सुमार्गमें लगना चाहता हो उसे चाहिए कि वह जैनागम का अभ्यास करे । अन्यथा वह गृहस्थ ही क्या किन्तु साधु सन्यासी बन करके भी धर्मात्मा नहीं होसकता है । ऐसा आगेकी गाथामें बताते हैं—

सत्तासंबद्धेदे सविसेसे जो हि ऐव सामणे ।  
सद्विदि ए सो समणो तत्तो धर्मो ए संभवदि ॥६१॥  
जो णिहदमोहदिद्वी आगमकुसलो विरागचरियम्हि ।  
अव्युद्विदो महणा धर्मो त्ति विसेसिदो समणो ॥६२॥

अस्ति नास्ति युतानर्थान् श्रद्धाति न यो जनः ।  
श्रामण्यमपि सम्प्राप्तो न धर्मात्मत्वमञ्चति ॥९१॥  
यथार्थदृष्टिवैराग्यं गत आगमपारगः ।  
महात्मा धर्मसम्पत्ति — मुपैति भवनाशिनीम् ॥९२॥

जो सामान्य विशेषरूप इन चीजोंको नहिं पहिचाने ।  
परिव्रजित होकरके भी वह नहीं धर्म मनमें आने ॥  
समाश्वासयुत आगमवेत्ता वीतराग चारित्र धरे ।  
अपितु वास्तविक धर्मयुत महात्मा समर्थ वह मुक्ति वरे ॥४६॥

सारांशः—जो किसी कारण विशेष ( सन्मानादि प्राप्त करनेकी इच्छा वगैरह)से गृहस्थाश्रमका त्याग करके यदि साधु भी बन गया हो परन्तु जिसके मनमें कथञ्चित् अस्तिनास्ति स्वरूप सामान्य विशेषात्मक पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपका विश्वास ( श्रद्धान ) न होसका हो तो वह धर्मात्मा कहलानेका अधिकारी नहीं है । उसका वह वेश तो बहुरूपिया के स्वाङ्गके समान है । इस दशामें भी यदि वह काललविधके योगसे तत्त्वार्थ श्रद्धान प्राप्त करले तो फिर उससे शब्द मित्र, तृण कंचन एवं

सांसारिक सुख दुःखमें समताभावरूप वास्तविक वैराग्य पर आ सकता है एवं चित्तकी स्थिरताके द्वारा आगमका पारगामी बनकर वह बाहर की सब बातोंसे विमुख होते हुए आत्मतल्लीनता प्राप्त करले तो तत्क्षण धर्मात्माकी परिपूर्ण सम्पत्तिको प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे आगे दूसरा जन्म ही धारण न करना पड़े। इसतरह वह आराधकसे आराध्य बन सकता है। उसकी आराधना करनेवाले कैसे होते हैं, यही आगे बताते हैं—

जो तं दिद्वा तुद्वो अब्भुट्टिता करेदि सक्कारम् ।  
 वंदण णमंसणादि हि तत्तो सो धम्ममादियदि ॥९३॥  
 तेण णरा व तिरिच्छा देवीं वा माणुसिं गदिं पप्पा ।  
 विहविस्सरियेहिं सया संपुणण मणोहरा होंति ॥९४॥

तं दृष्ट्वा तुष्टो भूत्वा— भ्युत्थाय नमनादिभिः ।

सत्करोति विशिष्टात्मा याति धर्मित्वमेष च ॥९३॥

तेन दैवीं मानुषीं वा गतिं प्राप्यात्र वैभवात् ।

समर्थितात्मभावोऽसौ भवेत् पूर्ण मनोरथः ॥९४॥

उसे देखते ही उठकर श्रद्धायुत हो सत्कार करे ।

स्तवन वन्दनादिके द्वारा धर्मार्जनमें प्रेम धरे ॥

देवाधिप राजेन्द्र सरीखे एक दोय भव लेकरके ।

जन्म जलधिके पार जाय वह संयमपूत पोत धरके ॥४७॥

**सारांशः**—उपर्युक्त परमात्मा या महात्माको देखते ही जिसके चित्तमें उल्लास उत्पन्न होजाता है वह प्रसन्नता पूर्वक आसन परसे उठकर खड़ा होकर उसका स्वागत करना, उसे उच्चासन देना, नमस्कार वन्दना स्तवनादि करना एवं गुणानुवाद करके सत्कार करनेवाला जीव भी धर्मोपार्जन कर लेता है। आंशिक रूपमें धर्मात्मा बन जाता है। वह उस धर्मके द्वारा इन्द्र, महेन्द्र, चक्रवर्ती आदिकी विभूतिको प्राप्त करके दो चार भवमें ही संसारसे पार हो जाता है।

यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि यह जीव भी यदि सत्य श्रद्धानवाला है तब तो ठीक है परन्तु वह श्रद्धावान न होकर केवल गतानुगतिकतादिसे (अंधानुकरणसे) उपर्युक्त कार्य करता हो तो फिर धर्मात्मा न होकर शुभयोगजन्य पुण्यबंध मात्र करनेवाला होता है। इससे सांसारिक सुख सम्पत्ति तो प्राप्त हो जाती है परन्तु निकट संसारितासे वह वंचित रहता है।

## —धर्मात्मा और अधर्मात्माका स्पष्टीकरण—

आत्माके दर्शन ज्ञान और चारित्र इन गुणोंका नाम धर्म है। इनकी अवस्था गलत, सही और विच्छिन्नके भेदसे तीनप्रकारकी होती है। सही दशाका नाम सद्धर्म या धर्म होता है। गलत दशाका नाम अधर्म और विच्छिन्न अवस्थाका नाम कुधर्म होता है। जैसे किसी भी प्रकारके एक विश्वास पर न जमकर विना पैंदेके लोटेकी तरह लुढ़कते रहनेका नाम अदर्शन है। वस्तुका यथार्थ श्रद्धान करनेका नाम सदुदर्शन है और यद्वातद्वा मनमाना स्वीकार कर लेनेको कुदर्शन कहते हैं। वस्तु स्वरूपका ज्ञान न होकर केवल खाने पीने और सोने आदि जीवन निर्वाहकी बातोंका ही स्मरण रहता, अज्ञान है।

कर्तव्याकर्तव्यका उपयुक्त विचार आना सच्चा ज्ञान है और अपनी तरफसे कुयुक्तियाँ बनाकर उनका समर्थन करना कुज्ञान कहलाता है। विषय कथायोंमें ही लगे रहनेका नाम अचारित्र है किन्तु इनका त्याग करके निष्कथाय बननेका नाम सच्चारित्र है। व्यर्थके कायक्लेशादिमें तत्पर होनेको कुचारित्र कहते हैं। इनमेंसे कुदर्शन, कुज्ञान और कुचारित्र कुधर्म है। यह भी एक तो तटस्थतारूप और दूसरा उच्छृङ्खलता रूपके भेदसे दो प्रकारका होता है।

जैसे ऊपरसे जैनमतानुयायी होकर भी अंतरंगसे जैनमतके प्रति श्रद्धानका न होना, जैनमतके शास्त्रोंको पढ़कर उन्हें स्वीकार करते हुए भी, उनका आम्नाय विश्व और ही अर्थ लगाना, जैनमत विहित सदाचारको ही स्वर्गादिककी इच्छा रखते हुए पालन करना, तटस्थ कुत्सित

धर्म कहलाता है और जैनमतके सिवाय किसी अन्य मतका अनुयायी होना, कुयुक्तियों द्वारा समर्थन करते हुए उसीका प्रचार करना एवं तत्कथित अनुष्ठानका ही आचरण करना, उत्सन्न कुत्सित धर्म कहलाता है ।

इनमेंसे अधर्म (पाप)का फल नरक निगोदादिमें जाकर दुःख ही दुःख भोगना है । कुत्सित धर्मधारी बनकर यह जीव भवनत्रिक देव-योनिको प्राप्त करता है । अपूर्ण सद्धर्मके द्वारा लौकान्तिकादि सद्देव बनता है किन्तु परिपूर्ण सद्धर्मसे साक्षात् मोक्षको प्राप्त कर लेता है । ऐसे धर्मकी जय हो ।

इसप्रकार प्रवचनसारका यह ज्ञान प्ररूपक प्रथम खण्ड सम्पूर्ण हुआ ।



## ज्ञोयाधिकार

जो वस्तु ज्ञानका विषय हो उसे ज्ञेय कहते हैं । वह वस्तु गुण और पर्यायात्मक होती है, ऐसा न मानकर जो पर्याय मात्रको मानता हो वह पर समय होता है, ऐसा यहाँ बताते हैं—

अत्थो खलु दब्बमओ दब्बाणि गुणपगाणि भणिदाणि ।  
तेहिं पुणो पञ्जाया पञ्जयमूढा हि परसमया ॥ १ ॥  
जो पञ्जयेसु णिरदा जीवा परसमयिग ति णिदिट्ठा ।  
आदसहावभिं ठिदा ते सगसमया मुणेदब्बा ॥ २ ॥

ज्ञेयं ज्ञानेन वस्तुस्या-वदस्त्यन्ते गुणात्मकम् ।  
तैरेव पर्यया यत्र मूढः परसमय वाक् ॥ १ ॥  
नरादिरूपमात्मानं ज्ञानन्नेव स मूढधीः ।  
स्वभावे स्थितिमादत्ते स्वीय समयः एव सः ॥ २ ॥  
बोधका विषय वस्तु गुणी गुणपर्यय वाला होता है ।  
जो केवल पर्याय बुद्धि परसमय वही सुख खोता है ॥  
नरपर्ययादिमय हीं अपने को माने परसमय वहीं ।  
रागरोपसे हीन हुआ आत्मस्वभाव निजसमय सही ॥ १ ॥

सारांश—ज्ञानके द्वारा ज्ञानने योग्य वस्तु गुण पर्यायात्मक होती है । यह अपने आपमें सदाके लिए अनेक गुणोंको लिये

अखण्ड पिण्ड स्वरूप होती है। प्रत्येक गुण भी अपने आपमें निरन्तर एकके बाद एकरूपसे उत्पन्न होनेवाली पर्यायोंमें किसी न किसी एक पर्यायकी अवस्थाको लिये हुए हर समय बना रहता है। ऐसा पहिले बता चुके हैं। इसका यह अर्थ होता है कि हरएक ही वस्तु तात्कालिक होकर भी शाश्वत है। उस वस्तुके भूत और भविष्यतको विलकुल भी याद न रखकर केवल वर्तमान अवस्था मात्रको ही स्वीकार करनेवाला मोही (भूल करनेवाला अज्ञानी) जीव होता है।

वह मूढ़ अपनी मूढ़ताके कारण जिस समय जैसी अवस्था धारण करता है उस समय अपने आपको वैसा ही मान बैठता है। मनुष्य शरीर धारण करने पर अपने आपको मनुष्य तथा पशु शरीर धारण करने पर अपने आपको पशु ही समझा करता है। मनुष्यता और पशुता न तो केवल जीवकी ही अवस्था है और न केवल अजीव कहलानेवाले पुद्गल द्रव्यकी ही अवस्था है। यह तो जीव और पुद्गल इन दोनोंकी संयोगी अवस्था होती है।

जो जीव अपनेको मनुष्य या पशु मानता है वह पर (पुद्गल)को आप और आप (जीव) को पर (पुद्गल) माननेवाला होनेसे परसमय होता है। किन्तु इसके विपरीत अपने शरीर तथा शरीरसे संबंधित अन्य पदार्थोंके प्रति रहनेवाले अहंकार ममकार भावसे सर्वथा रहित होकर अपने आपको शुद्ध बुद्ध सच्चिदानन्दरूप अनुभव करनेवाला जीव स्वसमय होता है। स्वसमय तथा परसमय ये दोनों ही ताहश विश्वास एवं तदनुरूप चेष्टासे घटित होते हैं।

घोर मिथ्यात्वके वशमें रहनेसे जो आत्माकी शुद्धताको किसी भी तरह स्वीकार ही न करता हो, कोई भी आत्मा स्त्री पुत्र धन धात्यादि बाह्य निमित्तोंके कारण प्रस्फुटित होनेवाले मोह रागद्वेषादि विकारी भावोंको विलकुल भी न होने देकर केवल ज्ञानधन एवं शरीर रहित होगया हो या हो सकता हो, इस बातको माननेके लिए भी तैयार न हो किन्तु इवासादियुक्त जो यह चलता फिरता शरीर है इसीका नाम आत्मा या जीव है और जबतक यह है तबतक अपनी आवश्यकताओंको

प्रयत्नपूर्वके यथासाध्य पूरी करना ही इसका एक कार्य है। ऐसी धारणा रखने वाला जीव परसमय कहा जाता है।

जो अपनी आत्माको जड़ शरीरसे भिन्न, नित्य, ज्ञानमय तथा शरीरको उसका निवासस्थान समझ चुका हो और शरीरके साथ ममत्व होनेके कारण उत्पन्न होनेवाली अनेक प्रकार की आवश्यकताओंको निस्सार जानकर उन पर भी पूर्ण विजय पा चुका हो, यथार्थ वीतराग दशा पर पहुंच गया हो वह हम लोगोंसे पूज्य स्वसमय होता है।

शेष चतुर्थादि गुणस्थानवर्ती सराग सम्यग्दृष्टि व्यक्तिविश्वासमें तो स्वसमय वन चुका है परन्तु व्यवहारमें परसमयको छोड़कर स्वसमय वन चुका हो, ऐसी बात नहीं है। व्यवहारमें यथासंभव अपने पिताको पिता, माताको माता और भाईको भाई आदि मानता है। द्रव्यलिंगी मुनिकी दशा इससे विपरीत होती है। यह अपने व्यवहारमें तो किसीको भी नहीं अपनाता है परन्तु श्रद्धानमें उसका लगाव संसारकी बातोंके प्रति बना ही रहता है। इसप्रकार स्वसमय तथा परसमयको बताकर आगे द्रव्यका लक्षण कहते हैं—

**अपरिच्छतसहावेण्पादव्यधुवत्तसंबद्धं ।**

**गुणवं च सप्तजायं जं तं दव्वं ति बुच्चंति ॥३॥**

**सव्यावो हि सहावो गुणेहिं सगप्तजएहिं चित्तेहिं ।**

**दव्वस्स सव्यकालं उपादव्यधुवत्तेहिं ॥४॥**

**अपरित्यक्तरूपेण धौव्योत्पत्तिव्ययात्मकम् ।**

**गुणवच्चसपर्यायं यच्छ्रद्व्यमितीष्यते ॥५॥**

**सत्वं स्वभावो द्रव्यस्य गुणैः स्वैरपि पर्ययैः ।**

**विचित्रैः सर्वदा धौव्यो-त्पत्तिव्ययसमन्वितैः ॥६॥**

जनि नाश स्थिति युक्त अनन्यभावसे जो संबद्ध रहे।

द्रव्य वहीं गुण और पर्यायोंसे परिपूर्ण विचार सहे॥

अपने नाना गुण पर्यायोंमें होकर जो नियत रहे।

समुत्पत्ति हानि स्थितिसे यह वरतुका सदा स्वभाव है॥७॥

**सारांशः**—पहिचाननेके उपायका नाम लक्षण है। इसके द्वारा पहिचानने योग्यका नाम लक्ष्य है। यहाँ द्रव्य तो लक्ष्य है और उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य या गुण पर्याय उसका लक्षण है। द्रव्यका अर्थ द्रवित होने वाला, अपने आपके रूपमें बहता रहनेवाला होता है। यह होना अथवा रहना भी दो तरहसे होता है। एक तो अपनेपनको लिये हुए रहना है जिसे स्वरूपास्तित्व कहते हैं। दूसरा, औरोंका भी साथी कहलाना, इसे सामान्यास्तित्व कहते हैं।

सामान्यास्तित्वको दृष्टिमें रखकर द्रव्यका लक्षण उत्पाद व्यय ध्रौव्ययुक्तता कहा जाता है और स्वरूपास्तित्वकी अपेक्षा गुणपर्ययवत्ता द्रव्यका लक्षण कहा जाता है। प्रत्येक द्रव्यके गुण और पर्यायें उसी द्रव्यमें रहते हैं और उत्पाद व्यय तथा ध्रौव्य हर द्रव्यमें पाये जाते हैं। नवीनता आजानेका नाम उत्पाद है और प्राचीनता न रहनेका नाम व्यय है किन्तु ऐसा होते हुए भी तत्पन बने रहनेका नाम ध्रौव्य है। जैसे एक वस्त्र मलिन था, उसे सावुनसे धोया गया जिससे वह स्वच्छ होगया फिर भी वस्त्र वही है।

द्रव्यमें सदा बनी रहने वाली शक्तिको गुण कहते हैं। उसके परिवर्तनको (यथासंभव बदलनेको) पर्याय कहते हैं। गुण दो प्रकार के होते हैं, १ सामान्य गुण २ विशेष गुण। सामान्य गुण उन्हें कहते हैं जो सब ही द्रव्योंमें समानरूपमें पाये जावें, जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व और प्रदेशत्व। विशेष गुण उन्हें कहते हैं जो दूसरे द्रव्योंमें न पाये जावें जैसे चेतना गुण जीवमें ही पाया जाता है, पुद्गल आदिमें नहीं अतः यह जीवद्रव्यका विशेष गुण है, मूर्तिमत्व पुद्गलमें ही पाया जाता है औरोंमें नहीं, अतः यह पुद्गलका ही विशेष गुण है, इत्यादि।

पर्याय भी दो तरहकी होती है। एक व्यंजन पर्याय और दूसरी अर्थ पर्याय। प्रधानतया प्रदेशत्वगुणके परिणमनका नाम व्यंजन पर्याय है और अन्य सब गुणोंके परिणमनका नाम अर्थपर्याय है। ऐसा जैन सिद्धान्त प्रवेशिकामें लिखा है। गुणकी प्रधानतासे वस्तुका ध्रुवत्व माना गया है। पर्यायकी प्रधानतासे उत्पाद और व्यय माने गये हैं। द्रव्यका यह लक्षण आचार्य महाराजने आत्मभूत कहा है। दण्डीके लक्षण दण्ड

की तरह भिन्न न होकर अग्निके लक्षण उष्णपतेकी तरह द्रव्यसे अभिन्न है ।

द्रव्य स्वयं ही अपनी पूर्वपर्यायके रूपमें नष्ट और तदुत्तर पर्यायके रूपमें उत्पन्न होता हुआ अपने गुणोंके रूपमें ध्रुव रहता है । ये तीनों बातें द्रव्यमें सदा एक साथ होती हैं अतः ये स्वभाव हैं और द्रव्य इनके द्वारा स्वभाववान है । अपने अपने गुण पर्यायोंके द्वारा प्रत्येक द्रव्य भिन्न होकर भी सत्ता सामान्य द्वारा सब आपसमें एकता रखते हैं, यही बात आगे स्पष्ट रूपसे कहते हैं—

इह विविहलकखणाणं लकखणमेगं सदिति सञ्चगयं ।  
उवदिसदा खलु धर्मं जिणवरवसहेण पण्णत्तं ॥५॥  
दव्वं सहावसिद्धं सदिति जिणा तच्चदो समक्खादा ।  
सिद्धं तध आगमदो ऐच्छदि जो सो हि परसमओ ॥६॥

वस्तुत्वोपदेशकेन सर्वच्यापि सुलक्षणम् ।  
जिनेनोक्तं सदित्येकं द्रव्याणां भिन्न चिह्नाम् ॥५॥  
निर्धारितपतः सिद्धं स्वतः सल्लक्षणांकितम् ।  
वस्तु तत्वं न यो वेच्चि मिथ्याद्विरिहोच्यते ॥६॥  
निजनिजरूपयुत द्रव्योंको सबको सदा सुहाया है ।  
धर्मोपदेशदायक जिनकीने सल्लक्षण गाया है ॥  
सहजसिद्ध उस लक्षणयुत वस्तुत्वको जो न गहे ।  
वही परसमय होता है ऐसा जिनशासन सदा कहे ॥३॥

**सारांशः**—जीव चेतनावान् है और पुद्गल रूपादिमान् है इसप्रकार प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी विशेषताको लिये हुए होनेसे एक ढूसरेसे भिन्न है । फिर भी अस्तित्व सामान्यकी अपेक्षासे सब द्रव्य एक होजाते हैं । प्रत्येक पदार्थके अन्य गुण जैसे और द्रव्योंसे हटकरके उसके उसीमें रहते हैं वैसेही प्रत्येक पदार्थका अस्तित्व सामान्य भी उसका उसीमें रहता है । ऐसा कभी नहीं है कि अस्तित्व विछो हुई जाजमकी तरह या फैले हुए दीपकके प्रकाशकी तरह अखण्ड एक चीज हो और वहाँ पर बैठे

हुए मनुष्यादिकी तरह सब पदार्थ हों जो उस सत्ता सामान्यको स्वीकार किये हुए उससे पृथक् हों। यह अवश्य है कि जैसा एक द्रव्यका अस्तित्व है वैसे ही दूसरे द्रव्यका भी है। जैसे एक मनुष्य, मनुष्य है वैसे ही दूसरा मनुष्य भी मनुष्य है।

इस समानताको लेकर ही सब द्रव्य एक और उनकी सत्ता भी एक कही जाती है, जो अस्तित्वसामान्य है अर्थात् यह भी है और यह भी है। इसप्रकारके अनुगत विचारके द्वारा सब पदार्थगत ठहरती है। अन्यथा तो फिर सब पदार्थ अपनी अपनी सत्ता भिन्न भिन्न रखते हैं। यह बात दूसरी है कि कोई भी पदार्थ सत्ताविहीन न तो कभी हुआ है, न है ही और न होगा ही क्योंकि सत्ता पदार्थका स्वभाव है। जो सत्ताविहीन है, वह पदार्थ ही नहीं है, जैसे वंध्या पुत्र। इस बातको नहीं मानकर और तरहसे माननेवाला मिथ्यादृष्टि है, वह भूल करता है, सही रास्ते पर नहीं है। इसीका समर्थन आगे और भी किया जाता है—

सदवट्टिदं सहावे दव्वं दव्वस्स जो हि परिणामो ।  
अत्थेसु सो सहावो ठिदिसंभवणाससंबद्धो ॥७॥  
ण भवो भंगविहीणो भंगो वा एत्थि संभवविहीणो ।  
उप्पादो वि य भंगो ण विणा धोव्वेण अत्थेण ॥८॥

वस्तु सत् परिणामेना-नुचद्धं यदवस्थितम् ।

परिणामो ह्यसौ ध्रौव्यो-त्पत्तिनाशसमन्वितः ॥७॥

भंगहीनो नतूत्पादो नभंगोऽपि जनिं विना ।

तावुभावपि न ध्रौव्य-मृतेसंभवतोऽर्थसात् ॥८॥

क्योंकि जनि स्थिति नाशयुक्त ही होता सदा वस्तु परिणाम ।

अतः वस्तुका स्वभाव सत्ता माना गया हुआ अभिराम ॥

समुत्पत्तिके विना नाश या नाश विना उत्पत्ति नहीं ।

नाश और उत्पत्ति संघटित होती है हो ध्रौव्य वही ॥८॥

सारांशः—वस्तु सदा परिणमनशील होती है। परिणाम नाम बदलनेका है, यह वस्तुका स्वभाव है। जैसे एक बेंत है जो सीधी थी

वह मुड गई, तिरछी होगई या पहले तिरछी थी सो अब सीधी होगई, कहना चाहिए कि वह बदल गई, उसमें परिवर्तन होगया। ऐसा परिवर्तन स्पष्टरूपसे या अस्पष्टरूपमें वस्तु का निरन्तर होता ही रहता है। यह उत्पाद, विनाश और अवस्थानरूप होता है। इनमेंसे यदि एक भी न हो तो वह नहीं बन सकता है। जब अकेला नाश होता है तब उसको बदलना नहीं किन्तु मिटना या रहना कहते हैं। इसीप्रकार अकेले उत्पादको होना और अकेले ध्रौव्यको बना रहना कहते हैं। यह वस्तुका न होकर उसकी एक किसी अवस्थाका होता है। जो अपने प्रतियोगी नाशादिकके बिना कभी नहीं होसकता है, उन्हें साथमें लिये हुए ही रहता है। यही बात आगे स्पष्टरूपसे बताते हैं—

उत्पादद्विदभंगा विजजंते पञ्जएसु पञ्जाया ।  
दब्वे हि संति णियदं तम्हा दब्वं हवदि सब्वं ॥९॥  
समवेदं खलु दब्वं संभवठिदणाससणिदट्टेहिं ।  
एककम्मि चैव समये तम्हा दब्वं खु तत्तिदयं ॥१०॥

पर्यायाणां भवन्त्येते ध्रौव्योत्पादब्यया सदा ।  
येषामाधाररूपेण वर्तते द्रव्यमित्यदः ॥९॥  
अर्धात् स्थिति व्ययोत्पाद संज्ञैरंशैः समर्थितः ।  
युगपञ्जायतामंशी पदार्थस्तत्रयात्मकः ॥१०॥

उत्पाद स्थिति और नाश भी पर्ययसे ही होता है।  
तीनोंका तादात्म्य जहाँ वह वस्तु यही समझौता है ॥  
प्राक् पर्यायका नाश औरका जन्म तथा स्थिति तत्पनसे ।  
एकसाथ तीनों जहाँ वही उन तीनोंमय वस्तु लसे ॥५॥

**शङ्का:**—यहाँ ग्रंथकारने उत्पाद व्यय और ध्रौव्य इन तीनोंको ही जो पर्यायस्वरूप बताया है वह हमारी समझमें नहीं आया। हम तो ऐसा समझते हैं कि उत्पाद और व्यय ये दोनों अंश पर्यायात्मक होते हैं किन्तु ध्रौव्यांश गुणात्मक जो तीनों मिलकर द्रव्य कहे जाते हैं।

**उत्तरः—**ठीक है, जहाँ क्रमभावी अंशका नाम पर्याय और सहभावी अंशका नाम गुण बताकर उनके समूहको द्रव्य कहा गया है वहाँ तो ऐसा ही समझना चाहिए परन्तु यहाँ तो आचार्यश्रीने अंशमात्रको पर्याय कहकर तद्वात्को वस्तु बतलाया है। द्रव्यमें गुण अनेक होते हैं जो हमारे ज्ञानमें भिन्न भिन्न आते हैं। जैसे पुद्गल द्रव्यके स्पर्श गुणको हम हाथसे छूकर जानते हैं। रसको जीभसे चखकर और गंधको नाकसे सूंघकर जानते हैं, इत्यादि ।

इसीतरह उस गुणके क्रम भी अपने अपने भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आम रूपकी अपेक्षा हरेसे पीला और रसकी अपेक्षा खट्टे से मीठा बनता है। अनेक गुण और उनकी अनेक अवस्थाओंका समायोग द्रव्य है। अब यहाँ उस अनेक गुण और उनकी अनेक अवस्थाओंवाले द्रव्यमात्रको संक्षेपसे तीन भागोंमें विभक्त करके दिखा रहे हैं कि उत्पाद व्यय और ध्रौव्य ये तीनों अंश, भाग, पर्याय एक साथ हो रहे हों, वही द्रव्य, वस्तु या अंशी है ।

**शङ्काः—**उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये तीनों एक ही समयमें कैसे बन सकते हैं क्योंकि होना और मिटना तो प्रकाश और अंधकारके समान परस्पर विरोधी हैं ।

**उत्तरः—**ठीक है, किसी एकही बातका होना और मिटना तो एक साथ नहीं हो सकते हैं परन्तु किसी एक बातका होना तथा दूसरी का मिटना एवं तीसरीका बना रहना एक साथ क्यों नहीं हो सकता है? हम देखते हैं कि आमका खट्टापन मिटता है उसी समय उसमें मीठापन आता है और जित्वे न्द्रियग्राह्यता वैसीकी वैसी बनी रहती है, उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता है। इसीप्रकार—

पाणुबभवदि य अणणो पज्जाओ पज्जज्जो वयदि अणणो ।

दव्वस्स तं पि दव्वं एव पण्डुं ण उप्पणं ॥११॥

परिणमदि सयं दव्वं गुणदो य गुणंतरं सदविसिद्धुं ।

तम्हा गुणपज्जाया भणिया पुण दव्वमेव त्ति ॥१२॥

एक उत्पद्यते व्येति द्रव्यस्यान्योऽथ पर्ययः ।  
 नोत्पद्यते न च व्येति द्रव्यत्वमिति पश्यताम् ॥११॥  
 अभाव नामतो भावा—न्तरमेव निगद्यते ।  
 द्रव्यस्य परिणमतो गुणपर्ययशालिनः ॥१२॥  
 किसी चीजकी एक अवस्था हटकर ढूँजी आती है ।  
 चीज वही रहती है ऐसी वात वित्तको भाती है ॥  
 भावान्तरका ही अभाव यह नाम भी हुआ करता है ।  
 वस्तुमें वहाँ वस्तुत्व वही यों गुणपर्यय धरता है ॥६॥

**सारांशः**—द्रव्य अपनी एक पर्यायिका त्याग करता हुआ अन्य पर्यायको स्वीकार करता है परन्तु उसकी द्रव्यता हर हालतमें वनी रहती है । दो द्रव्यगुक मिलकर चतुरगुक बनते हैं तब वहाँ द्रव्यगुकपना हटकर चतुरगुकपना ही आता है किन्तु स्कंधपना या पुद्गलपना बना का बना ही रहता है । एक संसारी जीव मनुष्यसे देव बनता है तब औदारिक शरीर हटकर वैक्रियक शरीर बन जाता है संसार अवस्था वैसीकी वैसी बनी रहती है ।

किसी भी पच्यमान आममें हरापन मिटकर पीलापन आगया तथापि हश्यतामें कोई अन्तर नहीं है । इसप्रकार अनेक उदाहरण दिये जासकते हैं । भिन्न भिन्न द्रव्योंके संयोग सापेक्ष जो पर्याय होती है वह द्रव्यपर्याय कहलाती है किन्तु एक ही द्रव्यमें जो पर्याय होती है वह गुणपर्यायके नामसे कही जाती है । किसी भी द्रव्य या गुणमें अवस्थान्तर होना ही उससे पूर्व की अवस्थाका नहीं होना है । जैसे सवस्त्रताका होना ही नगताका न होना है, सिद्ध दशाका होना ही संसारदशाका न होना है जो आधार (जीव)की सत्ताको लिये हुए होता है । अतः हर एक द्रव्य स्वयं सत्स्वरूप होता है, ऐसा आगे बताते हैं—

ए हवदि जदि सद्व्यं असद्धुव्यं हवदि तं कहें दव्यं ।  
 हवदि पुणो अणेण वा तम्हा दव्यं सयं सत्ता ॥१३॥  
 पविभत्तपदेसत्तं पुधत्तमिदि सासणं हि वीरस्स ।  
 अणेत्तमत्वभावो ए तव्यमें होदि कथमेगं ॥१४॥

सत्ता सम्बन्धतः सचेत् खरशृंगं च संभवेत् ।  
 सत्ता वृत्तिः सति व्यर्था ततः सत्त्वं स्वभावतः ॥१३॥  
 पृथक्ता नास्ति वीरस्य शासने द्रव्यसत्त्वयोः ।  
 अन्यथा तु भवेदेव भिन्नलक्षण समभवात् ॥१४॥

सत्ता संबंधसे असत् भी सत् यदि तो खरशृंग वने ।  
 सतमें सत्तायोग क्या करे यों स्वभावसे सत्त्व सने ॥  
 गुणगुणिमें एकप्रदेशता इसीलिये वे भिन्न नहीं ।  
 गुणका लक्षण और गुणीका और किन्तु यों अन्य सही ॥१५॥

**सारांशः**—कुछ लोगोंका विचार है कि सत्त्व सामान्य एक पृथक् चीज है और द्रव्य उससे भिन्न है। सत्त्व सामान्यके साथ संबंध होनेसे द्रव्य भी सत् कहा जाता है। इस पर ग्रंथकारका कहना है कि सत्ता सामान्यके साथ संबंध होनेसे पहिले द्रव्य स्वयं सत् है या असत् है?

यदि यह कहा जावे कि सत्त्व संबंधसे पहिले वह असत् ही होता है। तब जिसप्रकार सत्ताके साथ सम्बन्ध होनेसे द्रव्य असत् से सत् हो गया उसीप्रकार गधेके सींग भी उसी सत्तासे सम्बन्धित होकर सत् क्यों नहीं बन जाता है, उसे कौन रोकता है? क्योंकि दोनोंके ही स्वयं असत् पनेमें कोई भेद नहीं है। फिर सत्ताका सम्बन्ध पृथिव्यादिके साथमें हो और खरविषाणके साथमें न हो इसमें विशेष नियामक कौन है?

यदि पृथिव्यादि द्रव्योंको सत्ता सम्बन्धके पहिले भी सदृश्य ही मान लिया जावे तब वहाँ सत्ता सम्बन्ध होनेका फल क्या शेष रह जाता है? कुछ भी नहीं। यही सर्वज्ञ श्री वीर भगवान्‌का कथन है कि जीवादिक सम्पूर्ण पदार्थ स्वयं सदृश्य हैं। ये सब गुणी हैं और इनका सत्त्व गुण है। जो भिन्न प्रदेशत्वके रूपमें इनसे कभी भी पृथक् नहीं होता है किन्तु सर्वथा एकरूप ही होता है और उनसे किसी भी तरहसे भिन्न प्रतीत नहीं होता है, ऐसी बात भी नहीं है।

गुण और गुणीमें संज्ञा, संख्या, प्रयोजनादिसे भेद भी रहता ही है। जैसे वस्त्र और उसकी सफेदीमें होता है। वस्त्रकी सफेदी नेत्र इन्द्रियके

द्वारा जानी जाती है, स्पर्शन आदिके द्वारा नहीं जानी जा सकती है किन्तु वस्त्रको जिसप्रकार हम लोग नेत्र इन्द्रियसे जान सकते हैं वैसे ही स्पर्शनादि इन्द्रियोंके द्वारा भी जान सकते हैं अतः मानना पड़ता है कि सफेदी वस्त्रसे भिन्न है।

इसीप्रकार सत्ता और द्रव्यमें भी अन्यपना है। सत्ता अपने आप में अन्यगुणसे रहित स्वयं गुणरूपसे आश्रित होकर रहनेवाली है किन्तु द्रव्य वस्तुत्वादि अनेक गुणोंका समुदायरूप गुणी होकर उस सत्ताका आश्रयभूत है। इसप्रकार सत्ता और द्रव्यके स्वरूपमें भेद है। ऐसा ही आगे और भी स्पष्टरूपसे बताते हैं—

सद्दृव्यं सच्च गुणो य पञ्जञ्चो त्ति वित्थारो ।  
जो खलु तस्स अभावो सो तदभावो अतदभावो ॥१५॥  
जं दृव्यं तण्ण गुणो जो वि गुणो सो ए तच्चमत्थादो ।  
एसो ही अतदभावो एव अभावो त्ति णिदिद्वो ॥१६॥

सद्दृव्यं सन् गुणः सन्ना पर्यय इति विस्तरः ।  
अतदभावोऽन्यरूपेण-कस्या भवनमस्ति यत् ॥१५॥  
द्रव्यमेव गुणो न स्याद् गुण एव न द्रव्यवाक् ।  
इत्यर्थात्किन्तु नाभाव एव कस्यापि कुत्रचित् ॥१६॥  
है पद है गुण है पर्यय भी किन्तु न पद ही सत्ता है ।  
और न गुण ही या पर्यय ही यही विचार महत्ता है ॥  
जो गुण है वह नहीं द्रव्य है द्रव्य नहीं गुण अहो कहा ।  
जीवाभाव अजीवकी तरह किन्तु नहीं है भिन्न यहाँ ॥८॥

**सारांशः**—ऊपर सत्ताको द्रव्यका गुण बताया है सो वह गुण होकर भी गुणरूप ही हो ऐसी वात नहीं है किन्तु वह द्रव्य गुण और पर्यय इन तीनों रूपोंमें रहता हुआ पाया जाता है। जैसे मोतियोंकी मालाकी श्वेतता, हार, सूत और मोती इन तीनोंमें दिखती है। हार भी श्वेत, उसके मोती भी श्वेत और उसमें होनेवाला सूत भी श्वेत है। ऐसी ही वस्तुमें रहनेवाली सत्ताकी दशा है। स्वयं द्रव्य भी सत्तस्वरूप, उसका

हरएक गुण भी सत्स्वरूप और उनमें होनेवाली प्रत्येक पर्याय भी सत्स्वरूप होती है जिससे हमको द्रव्य है, गुण है और पर्याय है, इसप्रकार का अनुभव होता रहता है। यह तो तद्भाव हुआ।

जो द्रव्य है वही गुण नहीं एवं जो गुण है वही द्रव्य नहीं क्योंकि जो द्रव्य ही गुण हो तो फिर संसारी जीव गुणवान् बननेका प्रयत्न क्यों करे और अगर गुणको ही द्रव्य मान लिया जावे तो फिर हमको अपनी आँखोंसे आमके पीले रूपका ज्ञान होता है, उसी समय उसके चखने आदिका विचार भी निवृत्त होजाना चाहिये, ऐसा होता नहीं है। अतः द्रव्य और गुणमें भी भेद है। यह अतद्भाव कहलाता है क्योंकि जिसप्रकार जीवद्रव्यमें अजीव द्रव्यका तथा अजीव द्रव्यमें जीवद्रव्यका अभाव होता है, इस प्रकारका प्रदेशात्मक अभाव आपसमें गुणगुणीमें नहीं होता है अर्थात् परस्पर द्रव्य और गुणकी सत्ता एक रहती है। फिर द्रव्यका और गुणका क्या स्वरूप है, यह आगे बताते हैं—

**जो खलु दब्वसहावो परिणामो सो गुणो सदविसिद्धो ।**

**सदवद्धिदं सहावे दब्व त्ति जिणोवदेसोयं ॥१७॥**

**णतिथ गुणो त्ति व कोई पञ्जाओ तीह वा विणा दब्वं ।**

**दब्वत्तं पुणभावो तम्हा दब्वं सयं सत्ता ॥१८॥**

स्वभाव एव द्रव्यस्य सदा परिणमन् गुणः ।

येन संलक्ष्यते द्रव्यं महदभिः सदवस्थितम् ॥१७॥

विना द्रव्यं गुण कोऽपि पर्यायोऽपि न कश्चन ।

द्रव्यत्वं भवनं नाम द्रव्यं सत्त्वैव तावता ॥१८॥

अस्तिरूप परिणाम वस्तुका सत्ता सिद्ध कहाता है।

स्वयं वस्तु के साथ सत्त्वका यो गुण गुणिपत आता है॥

द्रव्य विना गुण नहीं और पर्याय नहीं कोई होती।

द्रव्यपरं विना गुण नहीं और पर्याय नहीं कोई होती।

**सारांशः—द्रव्योंमें सदा ही रहनेवाले स्वभावका नाम गुण है।**

जिसके द्वारा होनेवाला द्रव्य स्वयं विद्वानोंके विचारमें आया करता है

अर्थात् गुण आधेय हैं और द्रव्य उनका आधार है। आधारके बिना आधेय कहाँ रह सकता है, यह बात तो सरलतासे मानली जाती है परन्तु आधेयके बिना आधार भी कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, यह बात भी मानने ही योग्य है। जैसे पत्नी पतिका आधार लेकर वनती है ऐसे ही पत्नीके बिना पति भी पति संज्ञाको नहीं पासकरता है। इनमें आधार आधेयका भेद भी इसीलिए है कि एक पतिके अनेक पत्नियाँ हो सकती हैं ऐसे ही एक द्रव्यमें अनेक गुण होते हैं।

मतलब यह है कि परस्पर मिले हुए अनेक गुणोंका अखण्ड पिण्ड ही द्रव्य होता है। जैसे उष्णता, पाचकता और प्रकाशकतादिका समन्वय ही अग्नि होती है। इनमेंसे एक भी यदि न हो तो अग्नि भी न हो, इन सबके होनेके लिए उस एकका होना भी अवश्यंभावी है। सत्त्वविशेषका नाम ही गुण है और उन सबके सत्त्व सामान्यका नाम द्रव्य है। इसे छोड़कर न तो कोई गुण ही हो सकता है और न उसके परिण-मनरूप पर्याय ही हो सकती है जैसे पीला तथा भारी भी सोना ही होता है और कड़े कुण्डलादिके रूपमें भी सोना ही ढलता है।

मतलब यह है कि एक ही चीज द्रव्य, गुण और पर्यायके रूपमें परिणत होती हुई प्रतीत होती है। इसप्रकारसे परिणामन करते हुए भी अपने स्वरूपको लिए हुए रहना यही द्रव्यकी द्रव्यता है, इसीका दूसरा नाम सत्ता है। द्रव्यकी इस द्रव्यता अथवा सत्ताको उपयोगमें लानेके लिए हम जैसे लोगोंके पास अब दो प्रकारकी विचारधारा प्रस्तुत हैं। एक साधारण और दूसरी असाधारण। इसीको आगे स्पष्ट करते हैं—

**एवंविहं सहावे दव्वं दव्वत्थपञ्जयत्थेहिं ।**

**सदसव्भावणिवद्वं पादुव्भावं सदा लहदि ॥१६॥**

**जीवो भवं भविस्सदि एरोऽमरो वा परो भवीय पुणो ।**

**किं दव्वत्तं पजहदि ए जहं अणो कहं होदि ॥२०॥**

**द्रव्यार्थपर्यायार्थम्यां नयाभ्यामिति वस्तुनि ।**

**उत्पत्तिः सन्मयी यद्वा लक्ष्यते ऽसावसन्मयी ॥१९॥**

जीवोऽयं नरदेवादि—भूतोऽस्ति च भविष्यति ।  
 जीवत्वात्प्रच्युतो नोचेत् किं नाम परिवर्तनम् ॥२०॥  
 इसविधि पदार्थमें द्रव्यार्थिक नयसे सन्मय उत्पत्ति ।  
 पर्यायार्थिकसे हो यद्यपि वह असद्भावकी सम्पत्ति ॥  
 हुआ जीव वही जो कि होरहा होगा भी नरसुरआदि ।  
 जीवपनेसे रहित कहीं क्या ? यों तत्पनकी यह गा दी ॥१०॥

**सारांशः**—साधारण विचारधाराको सामान्यहृषि या द्रव्यार्थिक नय कहते हैं और असाधारण विचारधाराको विशिष्टहृषि या पर्यायार्थिक नय कहते हैं । द्रव्यार्थिक नयसे देखनेपर वस्तु जो पहिले थी वही अब भी है और आगे भी रहेगी किन्तु पर्यायार्थिक नयसे देखने पर वस्तु जैसी पहिले थी वैसी अब नहीं है, और ही है एवं आगे भी कुछ और ही हो जावेगी । जैसे इस समय जो मनुष्य है, वह अपने पूर्वजन्ममें पशु था और आगेके जन्ममें देव होजावेगा । इसप्रकार पर्यायार्थिक नयकी हृषिसे पदार्थ प्रतिसमय बदलता रहता है, और का और होता रहता है परन्तु जीवसे अजीव कभी नहीं होता है, जीव सदा जीव ही रहता है । जो जीव पहिले पशु पर्यायमें था, वही अब नर पर्यायमें है और आगे देव पर्यायमें भी वही जीव रहेगा, उसके जीवत्वमें कोई भी अन्तर नहीं होता है, जो था वही रहता है फिर भी—

मणुवो ण होदि देवो देवो वा माणुसो व सिद्धो वा ।  
 एवं अहोज्जमाणो अणरणभावं कधं लहदि ॥२१॥  
 द्रव्यट्टिएण सवं द्रवं तं पञ्जयट्टिएण पुणो ।  
 हवदि य अणरमणरणं तत्काले तम्यतादो ॥२२॥

किन्तु मत्यो न देवोऽस्ति देवो मत्योऽथनिर्वृतः ।  
 अनन्यभावमान्तोति चैवं स न भवन् कथम् ॥२१॥  
 द्रव्यार्थिकेनानन्यं यत्तदन्यत् पर्यार्थतः ।  
 तत्कालं तन्मयत्वेन भवेद्वस्तु विचारतः ॥२२॥  
 हाँ जब नर है सुर न वही तब यों अनन्यपना भी आया ।  
 जब वह नहीं कहो फिर कैसे जीव एक ही रह पाया ॥

द्रव्यार्थिकसे वही द्रव्य पर्यायार्थिकसे नहीं वही ।  
क्या विशेषसे तन्मयता रखता है वह उस काल नहीं ॥११॥

**सारांशः—**जीवादि द्रव्योंमें जो उनकी पर्यायें होती हैं वे अपने ही समयमें होती हैं, अन्य समयमें उनका अभाव रहता है। जिस समय जो पर्याय होती है वह आममें होने वाली खट्टे मीठेपनकी तरह उससे अपृथक् ही होती है। अतः कहना चाहिये कि द्रव्य ही नवीनसे नवीन होता रहता है। जिस समय जो मनुष्य है उस समय उससे देवका काम नहीं लिया जा सकता है और देवसे मनुष्य या पशुका काम नहीं लिया जा सकता है। अतः अवस्था भेदसे जीव विलकुल भी नहीं बदलता है, ऐसी बात नहीं है किन्तु यह जीव मनुष्य है, यह जीव देव है और यह जीव सिद्ध है, इत्यादि रूपमें भिन्न भिन्न ही होता है।

बात यह है कि हमारी दो आँखोंमेंसे एक आँख दाहिनी तरफसे देखती है और दूसरी बाँई तरफसे देखती है। इसीप्रकार द्रव्यार्थिक नय वस्तुके अनेक विशेषोंमें होकर रहनेवाले सामान्यधर्मको ग्रहण करता है अतः उसको हृषिमें वस्तु वही है, ऐसा अनुभव होता है। पर्यायार्थिक नय वस्तुके सामान्य स्वरूपको न देखकर उसमें निरन्तर होनेवाले विशेषोंको ग्रहण करता है अतः उसकी हृषिमें वस्तु अब और है, और है ऐसा नया नया अनुभव होता रहता है।

जब द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दोनों नयोंसे एक साथ काम लिया जाता है तब वस्तु होकर भी और और अवस्थाको धारण करती हुई एक साथ दोनोंरूप प्रतीत होती है। इसको कहनेवाला कोई मुख्य एक शब्द न होनेसे इसे अवक्तव्य कहा जाता है। इसप्रकार वस्तु स्वरूप विवेचनके मूल तीन भंग प्रस्तुत होते हैं और फिर चार इनके संयोगी भंग बनकर अपुनरूप समझेंगोंके द्वारा वस्तुका व्याख्यान होता है। ऐसा आगे बताते हैं—

अतिथि त्ति य एतिथि त्ति य हवदि अवक्तव्यमिदि पुणो दव्वं ।  
पञ्जायेण दु केण वि तदुभयमादिदुमणेण वा ॥२३॥  
एसो त्ति एतिथि कोई ण एतिथि किरिया सहावणिवत्ता ।  
किरिया हि एतिथि अफला धम्मो जदि णिप्फलो परमो ॥२४॥

अस्ति वा नास्ति वा द्रव्यं सहावक्तव्यमेव वा ।

क्रमेणोभयथा उन्यद्वा पर्यायेण तु केनचित् ॥२३॥

जन्तोः काषायिकी चेष्टा क्षणिका च विपाकिनी ।

कथयते परमो धर्मशाश्वतश्चाविपाककृत् ॥२४॥

किसी दृष्टिसे हैं न किसीसे भावाभावात्मक जब हैं ।

सभी वस्तुएँ अवाच्य भी जब एक शब्दसे तत्व कहें ॥

रागादिक भावोंमय चेष्टा क्षणिक और फलदायक हो ।

परम धर्मकी दशा सदा रहनेवाली अफलायक हो ॥१२॥

**सारांशः—** १ प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव, अस्ति मिथ्यादृष्टि है ।

२ क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव नास्ति मिथ्यादृष्टि है । ३ तीसरे गुणस्थानमें अस्ति नास्ति मिथ्यादृष्टि है । ४ दूसरे गुणस्थानवाला अवक्तव्य मिथ्यादृष्टि है ।

५ क्षायोपशमिक सम्यक्त्ववाला अस्त्यवक्तव्य मिथ्यादृष्टि है क्योंकि उसके सम्यक्प्रकृति नामका मिथ्यात्व रहता है फिर भी वह मिथ्यादृष्टि कहनेमें नहीं आता है । ६ उपशम सम्यक्त्ववाला जीव नास्त्यवक्तव्य मिथ्यादृष्टि है क्योंकि वर्तमानोदयमें मिथ्यात्व नहीं होता है अतः वह नास्ति मिथ्यादृष्टि है किन्तु उत्तरकालमें वह क्षायोपशमिक सम्यक्दृष्टि भी हो सकता है और मिथ्यादृष्टि, मिश्रगुणस्थानी तथा सासादनी भी हो सकता है । अतः वह उत्तरकालपेक्षया सम्यक्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि नहीं कहा जा सकता है । इसीलिये वह नास्ति रूपके साथसाथ अवक्तव्य मिथ्यादृष्टि होता है । ७ करणलब्धि प्रवृत्त जीव अस्तिनास्त्यवक्तव्य मिथ्यादृष्टि है ।

इसीप्रकार हरएक वस्तुके हरएक गुण धर्मके ऊपरसे ये सातों भंग लगाकर उसका स्वरूप समझा जाता है । जैसे १ घड़ा अपने रूपसे है अर्थात् पानी भरने आदिके काममें आ सकता है । २ यही पररूपसे नहीं है अर्थात् पट (वस्त्र) आदिका काम नहीं दे सकता है । ३ उसमें दोनों बातें हैं अतः है । (हरएक काम दे सकता है) ऐसा भी नहीं कह सकते हैं अतः वह अवक्तव्य भी है । ४ घड़ा है क्योंकि वर्तमानमें जल भरनेके काममें आरहा है किन्तु जीर्ण शीर्ण है, आगे काम नहीं देनेवाला भी है अतः है भी और नहीं भी है । ५ घड़ा अभी तो है किन्तु उसमेंसे अव-

पानी टपकने (निकलने) लग गया है अतः है जैसे नहीं भी है इसलिये अस्त्यवक्तव्य है। ६ अपना घड़ा अपने पास नहीं है, वह दूसरेके पास रखा हुआ है इसलिये कौन कह सकता है कि वह आवश्यकता होनेपर काम आवेद्या नहीं, अतः वह नास्त्यवक्तव्य है। ७ घड़ा अपने पासमें है किन्तु वह दूसरेका है, कौन कह सकता है कि वह अपने पास रहे या नहीं, अतः वह अस्ति नास्ति और अंवक्तव्य भी है। ऐसे ही सभी वातोंमें समझ लेना चाहिये।

जब हम किसी वातका विधान करते हैं तब “है” इतना मात्र ही न कहकर “यह अमुक वस्तु है” इस तरह अवान्तर सत्ता सहित महासत्ताके रूपमें विधान किया करते हैं। इसका धुमाव खाकर यह भी अर्थ होजाता है कि इस निर्दिष्ट वस्तुके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं है। इसीलिये बौद्ध महाशय तो यहाँ तक कह देते हैं कि हरएक वाक्य का अर्थ अन्यापोह अर्थात् विवक्षित वस्तुके अतिरिक्त और सबका निषेध करना मात्र ही है। उनके इसप्रकारके कथनमें यह कमी रहती है कि हमको उस वाक्यके सहारेसे जो, उस वस्तुका अनुभव होता है, वह नहीं होना चाहिए। जैसे यह कहा गया कि—यह रोटी है, इसका अर्थ बौद्धोंके विचारानुसार यह हुआ कि यह भात वगैरह नहीं है। फिर भूखा आदमी उस वाक्यके आधार पर उसे खानेके लिए जो उत्कंठित हो उठता है सो क्यों?

इस पर यदि यह कहा जावे कि भात वगैरह और सब चीजोंके सिवाय रोटी ही तो वच रहती है, जिसके खानेसे भूख मिटती है अतः भूखा मनुष्य उसे खाना चाहता है। फिर अन्यापोह ही वाक्यका मतलब न होकर अनन्यका संविधान भी तो उसी वाक्यका अर्थ हो गया। एक मनुष्य बोला कि—यह दूध नहीं है। अन्यापोहको वाक्यार्थ माननेवालों के यहाँ इसका यह अर्थ होना चाहिये कि—दूधके सिवाय और सब है। जो अभावात्मक न होकर विधानात्मक पड़ता है तथा विलकुल असंगत भी ठहरता है। अतः इसका अर्थ यही लिया जावेगा कि दूध तो है नहीं, उसके सिवाय यह कोई न कोई चीज है।

इसीप्रकार कुछ लोगोंका यह भी कहना है कि—वाक्यका अर्थ तो हर हालतमें विधानसात्र ही है क्योंकि कोई वाक्यविशेष किसी भी तरहके निषेधांशको लेकर भी क्यों नहीं प्रस्तुत हुआ हो, फिर भी उसके अंतमें तो 'है' रहा करता है जो विधान शून्य नहीं होता है। इस पर हम यह पूछता चाहते हैं कि वाक्यके अंतमें रहनेवाले 'है' का अर्थ तो विधान है परन्तु उसमें रहनेवाला अवशिष्टांश भी अपना कुछ मतलब रखता है या नहीं ? वह विल्कुल निष्प्रयोजन ही बोला गया हो, यह बात तो नहीं मानी जासकती है।

विधान तो विधेयका होता है। उसके बिना नहीं हो सकता, जैसा हम ऊपर बता चुके हैं अर्थात् 'है' कहने मात्रसे काम नहीं चलता अपितु प्रश्न रहता है कि क्या है ? इस पर और भी कुछ नहीं तो कमसे कम 'यह' तो लगाना ही पड़ता है। जब यह है तो इसीके साथ इसका अर्थ—वह नहीं है ऐसा भी हो जाता है, नहीं तो फिर 'यह' कहनेका कोई भी मूल्य नहीं रहता है। अतः कहना चाहिए कि हरएक वाक्यका मतलब भेदाभेदात्मक, विधिनिषेधात्मक होता है। जैसा कि "विधियप्रतिषेध्यात्मा विशेष्यः शब्दगोचरः।" इस देवागसके श्लोकाद्वयमें वर्ताया गया है।

जब कहा जाता है कि 'अयमस्ति' यह है, तब इसको स्पष्ट करनेके लिए सिद्धान्तका कहना है कि इसके साथमें 'स्यात्' शब्द और होना चाहिये अर्थात् इसको 'अयम् स्यादस्ति' इसप्रकार समझना चाहिए। इस 'स्यात्'के लगानेका मतलब यह हुआ कि यह (निर्दिष्टवस्तु) है, इसमें अपनी रूपसे अस्तित्व धर्म है किन्तु इसीमें पररूपसे नास्तित्वादि धर्म भी रहते हैं। कुछ लोग यहाँ कहे गये इस 'स्यादयमस्ति'का अर्थ 'शायद यह है' इस प्रकार सन्देहात्मक ले बैठते हैं सो यह उनकी भूल है। इसका अर्थ तो स्पष्टरूपसे निर्णयात्मक है कि 'यह अपने रूपसे है।'

यहाँ यह शंका अवश्य होसकती है कि 'स्यादस्ति अयम्' ऐसा तो आप जैसे कोई कभी ही कहते होंगे। अन्य सब लोग तो 'अस्ति अयं' यह है ऐसा ही कहते हुए देखे जाते हैं। इस पर विद्वानोंका कहना है

कि जिसप्रकार सत्यभामाको सत्या या भामा मात्र भी कहकर सत्यभामा समझा जाता है वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये । ‘स्यात्’ शब्द न कहने पर भी हर जगह उसे कहा हुआ समझना चाहिये । इसीका नाम स्याद्वाद (अनेकान्तवाद) है जो सफलतादायक है ।

## —उत्पादादि पर स्यादस्तीत्यादि का प्रयोग—

वस्तुके होने या बननेरूप प्रभवांशको लक्ष्यमें लेकर ‘स्यादस्ति’ एवं मिटने या न रहनेरूप व्ययांशको लेकर ‘स्यान्नास्ति’ किन्तु न कुछ बनने और न कुछ मिटने ही रूप किन्तु ज्यों का त्यों रहनेरूप ध्रौव्यांशको लेकर ‘स्यादवक्तव्य’ भंग प्रयुक्त होता है । इसीतरह उत्पादके साथ व्ययांशको लेकर ‘स्यादस्ति नास्ति’ उत्पादके साथ ध्रौव्यांश लगाकर ‘स्यादस्ति च अवक्तव्य’ व्ययांशके साथ ध्रौव्यांशको लेकर ‘स्यान्नास्ति चावक्तव्य’ और उत्पाद व्यय तथा ध्रौव्य इन तीनोंको ध्यानमें रखकर ‘स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्य’ भंग कहा जाता है ।

जैसे एक सुवर्णका कड़ा था, उसे तोड़कर उसका मुकुट बना लिया गया । तब एक व्यक्ति कहता है कि अब यह मुकुट बन गया है । दूसरा कहता है कि अब यह कड़ा नहीं रहा है । तीसरा कहता है कि क्या मुकुट और क्या कड़ा, कुछ भी हो, पहिले अलंकार था और अब भी अलंकार है । हमारी तुम्हारी शोभा बढ़ानेवाला ही था और शोभा बढ़ाने वाला ही अब है । चौथा कहता है कि ठीक है किन्तु अब कड़ा न कहलाकर मुकुट कहलाता है अथवा यों कहो कि अब पत्रदार होगया है, पैरदार नहीं रहा । पाँचवाँ कहता है कि इसीलिये तो परमालंकार समझकर इसे अब हम सिर पर लगाते हैं । छठा कहता है कि अब यह पैरका अलंकार नहीं रहा, पैर खाली होगया । सातवाँ कहता है कि जो पहिले पैरका अलंकार था, वही अब सिरका अलंकार हो गया है ।

इसीप्रकारसे हरएक वस्तुके उत्पादादिकोंको लेकर श्रीमान् भगवान् सर्वज्ञदेवका बताया हुआ सप्तभंगात्मक अनेकान्तवाद हम लोगोंके व्यवहारमें हरसमय आता रहता है । ये उत्पादादि सद्भूत (सट्टशरूप) और असद्भूत (विसद्वशरूप)के भेदसे दो दो तरहके होते हैं । इनमेंसे

सद्भूत उत्पादादिक तो हर एक द्रव्यमें सहजभावसे प्रतिसमय हुआ करते हैं परन्तु असद्भूत उत्पादादिक परप्रयोग सापेक्ष होते हैं। ये पुद्गल स्कंधोंमें और संसारी जीवोंमें पाये जाते हैं।

दूसरेके सम्बन्धसे पदार्थमें जो विकाररूप चेष्टा होती है, उसीको क्रिया कहते हैं। यह सदा न रहनेवाली और कुछ न कुछ अपना फल विशेष दिखलानेवाली होती है। जैसे परमाणुसे परमाणु मिलता है तब वह स्कंध बन जाता है और परम सूक्ष्मतासे च्युत होकर स्थूल हो जाता है। पुद्गल और आत्माके परस्पर संबंधमें पुद्गलका ज्ञानावरणादिक कर्मरूपमें और आत्माका रागादिभावरूपमें विकार होता है। इसका फल नर नारकादि अवस्थाओंमें परिभ्रमण है।

जब यह आत्मा अपने सहजभाव, पूर्ण वीतराग भावरूप परम धर्मका धारक होजाता है तब उपर्युक्त संसार परिभ्रमणरूप फलके पानेसे भी रहित होजाता है। यहाँ पर ग्रंथकारको फल शब्दका अर्थ विप्लव ही अभीष्ट है अर्थात् वीतरागता ही इस जीवको भंभट्टसे रहित करनेवाली है। गाथामें आये हुए 'स्वभाव निर्वृत्ता' शब्दका अर्थ स्वभावसे बनी हुई नहीं समझना चाहिये किन्तु स्वभावसे रहित अर्थात् विभावरूप अर्थ समझना चाहिये। जैसा कि आगे सुस्पष्ट है—

कम्मं णामसमक्खं सभावमध्यं अप्पणो सहावेण ।

अभिभूय णरं तिरियं णेरइयं वा सुरं कुणदि ॥२५॥

णरणारयतिरियसुरा जीवा खलु णामकमणिव्वत्ता ।

ए हि ते लद्धसहावा परिणममाणा सकम्माणि ॥२६॥

आत्मस्वभावमाक्षिप्य नामकर्म करोति तम् ।

पशुं च नारकं मत्यं सुरं स्वीय प्रभावतः ॥२५॥

कर्मानुसारतो जीवा नामकर्म हृतानि मान् ।

नरादि पर्यायान् ब्रह्म—स्वभावा उपयान्त्यमी ॥२६॥

नामकर्म अपने प्रभावसे चेतनको विचलाता है।

तब यह चेतन नर होकर पशु नारक देव कहाता है ॥

कर्मोंके अनुसार परिणमन करनेवाला अज्ञानी ।

नरनारकादि पर्यायें भुगता करता है अघ स्वानी ॥१३॥

**शङ्काः**—आचार्यके इस कथनसे ऐसा प्रतीत होता है कि कर्म आत्माको हटात् नरनारकादिरूप करता है । हमने तो सुना है कि कर्म तो केवल उदासीनरूपसे निमित्तमात्र होता है । इसके उदयका निमित्त पाकर यह आत्मा स्वयं ही नानारूप परिणमन करता रहता है, तत्तद्रूप होता रहता है । कर्म वरजोरी (जवरदस्ती) नहीं करता है ।

**उच्चरः**—चार घातिया कर्मोंको दूर कर देनेके बाद भी ग्राठ वर्ष तथा एक मुहूर्त कम एक करोड वर्षों तक आत्मा इस शरीरमें मनुष्यके रूपमें बनी रहती है । सो क्या अपने आप ही ? ऐसा नहीं होता है किन्तु अघातिया कर्मोंके वश होकर ही उसे ऐसे रहना पड़ता है, अरहन्त कहलाना पड़ता है । यह बात दूसरी है कि उन कर्मोंको भी पहिले इस आत्माने ही कर्मोंके रूपमें स्वीकार कर रखा है । अब तो वे सब अपने समय पर ही इस आत्मासे दूर होंगे और तब ही इस आत्माको अरहन्त से सिद्ध बननेका अवसर देंगे ।

इसीप्रकार नारकी जीव जो अपने अशुभ शरीरमें पड़ा रहकर दुख सहता रहता है सो क्या अपने आपही ? नहीं, ऐसा नहीं होता है । उसे उसका आयुकर्म ही रोक रखता है । स्वर्गीय शुभ शरीरको भी छोड़कर पशु आदिका शरीर धारण करना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है ? कर्मोंके विवश होकर अर्थात् उसका देवायु कर्म तो पूर्ण हो जाता है और तिर्यगायु कर्मका उदय आ जाता है, जिससे उसे पशु बनना ही पड़ता है । जैसा कि श्री उमास्वामी आचार्यने 'विग्रहग्रतौ कर्मयोगः' ॥२५-२॥ इस सूत्रसे स्पष्ट करके बताया है । सूत्रकार कहते हैं कि इस जीवको एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करनेके लिए अपने किये हुए कर्मके उदयसे (दवावसे) जाना पड़ता है । जैसे कि हवाके झोंकेमें आकर घासके तिनकेको इधरसे उधर उड़कर जाना पड़ता है ।

**शङ्काः**—जैन शास्त्रोंमें कई स्थानों पर ऐसा लिखा हुआ है कि कर्म तो केवल निमित्त हैं। बुरा या भला तो यह आत्मा अपने ग्राप ही बनता है। ऐसा क्यों लिखा गया है?

**उत्तरः**—ऐसा जो लिखा हुआ है वह तो केवल राग द्वेष मोहको लक्ष्यमें रखकर लिखा गया है। आत्माके द्वारा बंध किये हुए ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंमें एक मोहनीय ही ऐसा कर्म है जिसके उदयमें यह जीव मोहित होकर पर पदार्थोंमें ममत्वभाव करता है और हर्ष विषाद युक्त होता है। यदि सही विचारसे काम लेवे तो उसे रोक सकता है या कमसे कम कर सकता है, यह इसके बाशकी बात है।

मोहनीय कर्मका जिसप्रकार उदय होता है वैसे ही उसका उपशम तथा क्षय और क्षयोपशम भी किया जासकता है। मोहनीय कर्मके अतिरिक्त ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन धातिया कर्मों का एकान्त उदय कभी नहीं होता है, क्षयोपशम ही रहता है अतः उपशम भी नहीं रहता है, क्षय अवश्य किया जा सकता है। अब रहे अधातिया कर्म, सो इनका क्षयोपशम भी कभी नहीं होता है। इनका तो यथासंभव उदय ही रहता है और उदय होकर अभाव हो जाया करता है। इनके उदयसे यह जीव नर नारकादि बनता है। जीव होकर भी अपने जीवत्वको सदा एकसा नहीं रख सकता है। यही आगे बताते हैं—

जायदि एव ए एस्सदि खण्भंगसमुद्भवे जणे कोई ।  
जो हि भवो सो विलभो संभवविलय त्ति ते णाणा ॥२७॥  
तम्हा दु णत्थि कोई सहावसमवट्ठिदो त्ति संसारे ।  
संसारो पुण किरिया संसरमाणस स दब्बस्स ॥२८॥

सद्भूतापेक्षया जीवो न नश्यति न जायते ।  
भव एव यतो नाशः किन्तु तौ रूपतः पृथक् ॥२७॥  
असद्भूततयाक्रान्तो जायतेऽपितु नश्यति ।  
स्वभावावस्थितः करिच्चत् संसारेऽस्मिन् विद्यते ॥२८॥

प्रतिपल उत्पादादिकमय यह चेतन जन्म न लेता है ।

और न मरता है किर भी तो प्रभव मरणको खेता है ॥

यह संसार कर्ममय इसमें परिवर्तन करनेवाला ।

सहजभाव संयुक्त नहीं हो सकता होता भतवाला ॥१४॥

**सारांशः**—यह पहिले भी बताया जा चुका है कि यह जीव अपने सद्भूत उत्पादादिककी अपेक्षासे प्रतिसमय सहजभावसे अपने आपमें ही उत्पन्न और विलीन होता रहता है । यदि यह अपने स्वभावमें ही रहे तब तो इसका जन्म और मरण कभी नहीं हो सकता है । फिर तो जन्म और मरण दोनों शब्द ही व्यर्थ हो जाते हैं परन्तु ऐसा होता नहीं है । इसने तो सदासे ही कर्मोंके साथ सम्बन्धित होकर असद्भूतपनको अपना रखा है । अतः नरादिमेंसे एक अवस्थाको त्याग कर दूसरीको ग्रहण करता रहता है, इसीका नाम संसार है ।

यह संसार क्षणिक एवं नाशमान् है । मनुष्य मरकर देव होता है और देव मरकर पशु हो जाता है । ऐसा ही होता रहता है । यहाँ पर जीवत्व सामान्यकी अपेक्षा देखा जावे तो वही जीव मरता है और वही जन्म लेता है । इसप्रकार जन्म और मरणमें या उत्पाद और विनाशमें परस्पर एकता तथा अनेकता दोनों आ जाती है । जैसे जो घड़ा है वही कूँड़ा है । ऐसा कहनेसे घड़े एवं कूँड़ेमें एकता नहीं मानी जा सकती है किन्तु कहनेवालेको पागल समझकर उस पर हँसी आजाती है । अतः उन दोनोंको एक बतलानेके लिये उनकी आधार स्वरूप मिट्टीको लेकर कहा जावे तो वही बात ठीक हो जाती है ।

ऐसे ही जो मनुष्य है वही स्वर्गीय देव भी है । यह बात मनको नहीं भाती है क्योंकि इन दोनोंमें स्पष्ट भेद दिख रहा है । यदि ऐसा जीवत्वकी अपेक्षा कहा जावे तो समझमें आ जाता है अर्थात् पर्यायार्थिक दृष्टिसे अनवस्थित होते हुए भी द्रव्यार्थिक दृष्टिसे जीव अवस्थित है । अस्तु ! इस संसारका मूलाधार क्या है ? यह आगे स्पष्ट करते हैं—

आदा कम्मलिमसो परिणामं लहदि कम्मसंजुत्तं ।  
तत्तो सिलिसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो ॥२६॥

परिणामो सयमादा सा पुण किरिय ति होदि जीवमया ।  
किरिया कम्म ति मदा तम्हा कम्मस्स ए दु कत्ता ॥३०॥

विकरोति सकर्मायं रागद्वेषादिरूपतः ।

ततः सञ्चीयते कर्म नूतनं भावानुसारतः ॥२९॥

कर्म नाम विकारस्य यत्र भूतार्थके नये ।

तत्र जीवो न कर्ता अस्तु पौद्गलिकस्य कर्मणः ॥३०॥

है अनादिसे कर्मयुक्त इससे विकार परिणाम धरे ।

ताकि पुनः कर्म प्रयोग इस चेतनसे सम्बन्ध करे ॥

कर्म नाम परिणाम और परिणाम तथा परिणामीमें ।

भेद कौन यों जीव नहीं कर्ता कर्मका सुवाणीमें ॥१५॥

**सारांशः**—ग्रंथकार कहते हैं कि जब यह आत्मा रागद्वेषादि सहित होता है तब कर्मरूपमें होने योग्य पुद्गल वर्गणाओंका संग्रह करता है । यही संसारका मूल कारण है । इस पर यह पूछा जा सकता है कि आत्मामें रागद्वेष उत्पन्न होनेका भी कोई न कोई कारण विशेष होना चाहिये क्योंकि रागद्वेष आत्माके सहजभाव नहीं माने जा सकते हैं । इसका उत्तर यह है कि उन संग्रहीत कर्म वर्गणाओंके साथमें तन्मयताका होना ही रागद्वेषको पैदा करनेवाला है । यह तो एक दूसरेके भरोसे पर होनेसे निस्सार प्रतीत होता है ।

जैसे ताला खुले तो चाबी निकले और चाबी निकले तो ताला खुले, ऐसे ही भाव विगड़े तो कर्म बने और कर्म हों तब उनके उदयसे भाव विगड़े । ऐसा तो तब कहा जा सकता है जब कि कर्मोंका सम्बन्ध आत्माके साथमें किसी निश्चित समयसे कहा गया हो । जैन सिद्धांतमें तो संसारी आत्माको सदासे ही तिलं तैलकी तरह सकर्म वताया है । अतः पूर्व कर्मोंके संबन्धसे इसके रागद्वेषादि भाव होते हैं और इन विकारीभावोंके द्वारा नूतन कर्म संग्रहीत होजाते हैं । ऐसा क्रम चलता रहता है, इसमें कोई बाधा नहीं आती है । अस्तु ।

यहाँ प्रसंग पाकर आचार्यश्री ने कर्म क्या हैं और उनका कर्ता कौन है? इस पर प्रकाश डाला है। व्याकरण शास्त्रमें करनेरूप किया के करनेवालेको कर्ता और उसके द्वारा जो किया जावे उसे कर्म कहा गया है। कर्मका ही दूसरा नाम कार्य भी है। यह हम लोगोंके नित्यके अभ्यासमें अभिन्न रूपसे और भिन्न रूपसे दो तरहसे देखनेमें आता है। जैसे कहा गया कि रामलालने लालच किया अतः वह भूठन भी चाट गया। यहाँ करनेवाला, एक रामलाल है और उसके कार्य दो हैं। एक लोभ करना और दूसरा भूठन चाट जाना। लालच तो रामलालका परिणाम (भाव) है। यह उससे अभिन्न है, पृथक् नहीं है और भूठन उससे भिन्न वस्तु है जिसे वह चाट गया। ऐसे ही आत्मा जब रागद्वेषादि सहित होता है तब वह कर्म वर्णणाश्रोंको ग्रहण करता है।

यहाँ भी रागद्वेष आत्माका विकारी भाव है जो आत्माके द्वारा किया जाता है अतः यह भाव आत्माका कर्म है, यह आत्मासे अभिन्न होता है। इन्हीं रागद्वेषादि भावोंके कारणसे आत्मा कार्मण पुद्गल समूह, जो आत्मासे भिन्न द्रव्य है उसको ग्रहण करता है। यह द्रव्य उसका कर्म कहलाता है। ऐसे भावकर्म और द्रव्यकर्मके नामसे दो भेद हो जाते हैं। यहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि आत्मा तो अपने भाव-कर्मका ही कर्ता है न कि द्रव्यकर्मका क्योंकि एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यके द्वारा कभी ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

इस पर शंका होती है कि फिर द्रव्यकर्म कैसे हुआ? इसका उत्तर यह है कि द्रव्यकर्म, पुद्गल द्रव्यका किया हुआ होता है अतः उसका कार्य कर्म है और उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य है। यह उत्तर भी ठीक तरहसे समझमें नहीं आता है क्योंकि फिर तो पुद्गल भी उसके अपने परिणामका ही कर्ता होना चाहिये, न कि पुद्गल द्रव्यका। ऐसी दशामें तो फिर भावकर्म और द्रव्यकर्म इसप्रकारसे भेद न होकर जीव भावकर्म और पुद्गल भावकर्म ऐसे भेद होने चाहिए।

इच्छावान्के द्वारा सम्पन्न परिणामनका नाम ही कार्य या कर्म होता है और वह इच्छावान् जीव उसका कर्ता होता है। ऐसा इन्हीं

ग्रंथकारने अपने समयसार ग्रंथमें कर्तृकर्माधिकारमें गाथा नं० ६७ तथा गाथा नं० १०२ में स्पष्ट बताया है। इच्छा रहित जीव तथा पुद्गलके द्वारा संपादनीय परिणमनको कर्म न कहकर भाव्य कहा जाता है। उसका सम्पादक कर्ता न होकर भावुक होता है। निष्कर्ष यह है कि जीवके रागद्वेषादि भावकी तरह पुद्गलका ज्ञानावरणादिरूप परिणमन भी पुद्गलका कर्म नहीं है। यह तो जीवका ही कर्म है, यह जीवके ज्ञानादि गुणोंका घात करता हुआ, उसके लिये फलप्रद होता है।

यह बात दूसरी है कि रागद्वेषादि भाव जीवका स्वयंका विकार-भाव होता है अतः उससे अभिन्न होता है। ज्ञानावरणादिरूप पुद्गल स्कंध जीवसे भिन्न द्रव्य है। अतः भिन्नको भी ग्रहण करनेवाले अभूतार्थनयसे तो वह भी जीवका ही कर्म है। केवल अभिन्न विकारको ही विषय करनेवाले भूतार्थ नय (अशुद्ध निश्चय नय)की दृष्टिमें ज्ञानावरणादि से जीवका कोई संबंध नहीं है। अतः वहाँ तो रागादि भाव ही जीवका कर्म है और जीव उसका कर्ता है ऐमा जैनागमका कथन है।

जीवका उक्त प्रकारसे रागादि विकाररूप परिणमन, होकर भी चेतनाको नहीं छोड़ता है किन्तु चेतनाका ही तादृश परिणमन होता है। चेतनाका परिणमन तीन तरहसे माना गया है। यही आगे बताते हैं—

परिणमदि चेदणाए आदा पुण चेदणा तिधाभिमदा ।  
सा पुण णाणे कम्मे फलम्मि वा कम्मणो भणिदा ॥३१॥  
णाणं अटुवियप्पो कम्मं जीवेण जं समारद्धं ।  
तमणेगविधं भणिदं फलं ति सोक्खं व दुक्खं वा ॥३२॥

आत्मनश्चेतनत्वेन परिणामस्त्रिधा मतः ।

आगमे गुणिनामीशै ज्ञाने कर्मणि तत्कले ॥३१॥

अर्थ निर्णायकं ज्ञानं कर्म जीव समर्जितम् ।

अनेकविधमेतद्यत् फलं दुःखं सुखं पुनः ॥३२॥

चेतनतया परिणमन इस आत्माका जगमें होता है ।  
कर्म और फल तथा ज्ञान यों तीन भावको ढोता है ॥  
वस्तुविवेचक वोध और जो जीव द्वारा किया गया ।  
कर्म वही नाना प्रकार फल उसका सुख दुख लिया गया ॥१६॥

**सारांशः**—चेतना नाम अनुभव करनेका है । यह जीवका स्वभाव है । आगमज्ञ लोगोंने उसे तीन भागोंमें विभक्त कर बताया है । (१) मैं जानता हूँ, जाननेवाला हूँ इसप्रकारके जानने मात्रको ज्ञान चेतना कहते हैं । यह ज्ञाती वीतरागियोंका धर्म है और उनकी आत्मामें पाया जाता है । (२) मैं करनेवाला हूँ, अमुक वात करना मेरा काम है अतः ऐसा करूँ, वैसा न करूँ, उसे मारूँ, उसे जिलाऊँ इत्यादिरूपसे विचार पूर्वक किसी भी कार्यमें तल्लीन होनेको कर्मचेतना कहते हैं । यह संज्ञी दशामें (मनसहित अवस्थामें) सरागी जीवोंके हुआ करती है । यह स्थूलरीतिसे सत् कर्म चेतना और असत् कर्म चेतनाके भेदसे दो तरहकी होती है । भगवान्का भजन करलूँ, दान देऊँ, संतोष धारण करलूँ इत्यादि शुभ कार्योंमें प्रवृत्त होनेका नाम सत् चेतना है किन्तु अपने आरामके लिये धन कमालूँ, मकान बनवालूँ, खेती करलूँ इत्यादि शरीरेन्द्रिय पोषक अशुभ कार्योंमें लगे रहनेका नाम असत् कर्म चेतना है ।

(३) खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, डरता हूँ और भागता हूँ इत्यादि रूपसे कर्मफलके वशमें रहनेको कर्मफल चेतना कहते हैं । यह भी सुख भोगने और दुख पानेके भेदसे दो भागोंमें विभक्त है । यह एकेन्द्रिय जीवसे लेकर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय तकके जीवोंमें होती है किन्तु कर्मचेतना योग्य संज्ञीजीवके भी यथासंभव यथावसर होती है । पदार्थके निर्णयका नाम ज्ञान, विचारपूर्वक जीवके करने योग्य चेष्टाका नाम कर्म और उसका आत्मा पर जो प्रभाव हो उसका नाम फल है । ये तीनों आत्माके ही परिणाम हैं । ऐसा सोचकर तटस्थ रहना ही साधुता है, इससे आत्मा निर्मल बनती है । यही आगे बताते हैं—

अप्पा परिणामप्पा परिणामो णाणकम्फलभावी ।  
तम्हा णाणं कर्मं फलं च आदा मुण्डव्वो ॥३३॥

कर्ता करणं कर्मं फलं च अप्पत्ति णिच्छिदो समणो ।

परिणमदि एव अण्णं जदि अप्पाणं लहदि सुद्धं ॥३४॥

आत्मैव मन्यतामेतज्ञानं कर्म च तत् फलम् ।

परिणाम स्वभावत्वात् परिणामोऽस्य चैषकः ॥३३॥

इत्यभिन्नतया कर्तु-करणादि समाश्रयन् ।

नोदीक्षते परं साधु-रात्मानं शुद्धमेति सः ॥३४॥

जब कि परिणमनरूप हुआ यह परिणामोंको ढोता है ।

ज्ञान कर्म तत्कलरूपतया आत्मा ही तो होता है ॥

हाँ मुनि राग रोष विरहित हो शुद्धवोधयुत होता है ।

कर्म कर्मफलरूप चेतनातीततया सुख जोता है ॥१७॥

**सारांशः**—पहिले बताया जाचुका है कि ज्ञानचेतना, कर्मचेतना और कर्मफल चेतना ये तीनों ही आत्माके परिणाम हैं । ज्ञान (जानना) आत्माका स्वभाव है परन्तु जब यह संसारी आत्मा किसी भी वस्तुको देखता है या जानता है तब उसी समय उसे अच्छी या बुरी मानकर उसे ग्रहण करना या उसका त्याग (नाश) करना चाहता है । उस पर हर्ष या विषाद प्रकट करता है । यही कर्मचेतना या कर्मफल चेतनाका संक्षिप्त स्वरूप है । ऐसा उपर्युक्त ज्ञान (चेतनाका) का विकार है । उससे जाना हुआ अज्ञान (चेतना) रूप है । ऐसा ज्ञान पदार्थको अपना और दूसरेका माननेसे होता है जिससे यह आत्मा परतंत्रतामें फँस जाता है । अन्य अन्य बातोंको अपना काम और अपने आपको उनको कर्ता मानकर उनके संपादनके लिए कोई न कोई उपाय सोचता रहता है । रात दिन इसी चिंतामें पड़कर विह्वल बना रहता है ।

जो मनुष्य साधु या साधक बन जाता है, सत्संगमें जाकर अपनी आत्माको स्वतंत्र निर्द्वन्द्व बनाना चाहता है, वह सोचता है कि—अहो ! मैं अज्ञानमें बहा जा रहा हूँ, भूल कर रहा हूँ । ऐसा करलूँ, वैसा करलूँ इत्यादि व्यर्थकी चिंताओंमें फँसा हुआ हूँ । यदि सत्य हृषिसे विचार करूँ तो मैं अन्य किसीका कर्ता नहीं हूँ । कोई भी किसीका कुछ नहीं कर सकता है । करना कुछ चाहता है और हो जाता है उसके विपरीत ।

श्रीकृष्ण चाहते थे कि द्वारिका न जले अतः उन्होंने उसकी रक्षा करनेमें कोई कमी न रखी, फिर भी द्वारिका जल गई। इसलिए किसी का भी किसीको कुछ कर डालनेका अभिमान मिथ्या है। जो कुछ भी होता है वह अपने उपादान और निमित्तरूप कारण कलापके अनुसार होता है। जब मैं किसीका कर्ता नहीं हूँ तब मेरा कर्म कैसा और कौन है? जिससे उसका फल पानेकी प्रतीक्षामें उसे सम्पादन करनेके लिए साधन जुटानेकी आवश्यकता समझी जावे।

जब कुछ कर देना, किसीके वशकी वात नहीं है तब उसे मिटा देना भी कैसे संभव है? अत्यन्त तेज सरदी और गरमीको यद्यपि कोई भी नहीं चाहता है फिर भी यह तो होती ही है। परमात्माके निन्दक लोग भी इस संसारमें पाये जाते हैं। इनको किसीने रोका क्यों नहीं। कंस और जरासिंधुने श्रीकृष्णका नाश करनेके लिये कितने प्रयत्न किये, फिर भी क्या हुआ? जो होना था वही हुआ और जब श्रीकृष्णका भी जानेका समय आया तो वह भी न रह सके। क्षणभरमें ही समाप्त हो गये। नारियलके भीतर होनेवाले पानीको कौन रोक सकता है? वह तो होता ही है और गधेके सींग भी कौन बना सकता है? कोई नहीं। इत्यादि वातों पर जब गंभीरतासे विचार किया जाता है तब यही निष्कर्ष निकलता है कि न तो कोई, किसीका करनेवाला है और न हरनेवाला है। फिर मैं क्या चौज होता हूँ? न तो मैं किसीको करने वाला ही हूँ और न किसीको मिटा देने वाला ही हूँ।

श्री जिन भगवानने वतान्या है कि मैं तो केवल जानने वाला हूँ। जानना भी मुझे तो अब और किसीको नहीं है किन्तु अपने आपको ही पहचानना है। जिसको मैं गंगा स्नानके लिये गये हुए दस नवयुवकोंकी तरह चिरकालसे भूल गया हूँ, इसी कारण यह कष्ट भोग रहा हूँ। आत्माको जान लेने पर मैं कृतकृत्य होजाऊंगा। उसे जाननेके लिये साधनरूपमें मुझे किसी दूसरेकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है। केवल अपनी हृषिको बदलनेकी ही आवश्यकता है।

आजतक मैं समझ रहा था कि मुझे कोई दूसरा सुख देनेवाला है अतः अपनी नाभिकी सुगंधको अन्यत्र समझनेवाले मृगकी तरह ही

उसे पानेके लिए इधरसे उधर भटक रहा था । अब मुझे ज्ञात हो गया है कि भूंगड़ों (सिके हुए चरणे) के लोभसे घड़ेमें फँसे हुए बंदरके समान अपनी ही भूलसे मैं बाह्य पदार्थोंमें फँसा हुआ हूँ । ऐसा केवल मैं अपने ममत्वभावसे कर रहा हूँ । यदि इसे छोड़ दूँ तो मैं भी सुखी बन सकता हूँ । इस प्रकार अपने आप पर सही विश्वास करनेवाला साधु सन्त पुरुष कभी दुखी नहीं रह सकता है । अस्तु । यहाँ द्रव्य सामान्यका अभी तक वर्णन हुआ है । अब आगे उसीके भेद बताते हैं—

द्रव्यं जीवमजीवं जीवो पुण चेदणोवश्चोगमश्चो ।  
पोगगलद्रव्यप्पमुहं अचेदणं हवदि य अज्जीवं ॥३५॥  
पोगगलजीवणिबद्धो धर्माधर्मत्थिकायकालड्ढो ।  
वद्वदि आगासे जो लोगो सो सव्वकाले दु ॥३६॥

जीवोऽजीव इति द्रव्यं द्वेधा जीवोऽत्र चेतनः ।

चैतन्यरहितस्त्वन्यः पुद्गलादि प्रभेदवान् ॥३५॥

जीवपुद्गलभूल्लोको धर्माधर्माऽस्तिकायवान् ।

कालेन च युतोऽतोन्य आकाशे लोक ईर्ष्यते ॥३६॥

जीवाजीव भेदसे द्वेधा द्रव्य बताया जाता है ।

बोधयुक्त तो जीव इतर फिर पुद्गलादि जड़ताँता है ॥

पुद्गल धर्माधर्म काल जीवप्रयुक्त जो गगन रहा ।

उसे लोक केवल नभको मुनियोंने किन्तु अलोक कहा ॥३६॥

उपादट्टिदिभंगा पोगगलजीवप्पगस्स लोगस्स ।

परिणामा जायंते संघादादो व भेदादो ॥३७॥

लिंगेहिं जेहिं द्रव्यं जीवमजीवं च हवदि विरणादं ।

तेऽतद्भावविसिद्धा मुत्तामुत्ता गुणा णेया ॥३८॥

क्रियावती भाववती शक्ती द्वे तत्र चादिमा ।

जीवपुद्गलयोरेव शेषा सर्वेषु वस्तुषु ॥३७॥

जीवाजीवाभिधं द्रव्यं यैरिदं ज्ञायते सदा ।

ते तद्भाव समाख्या गुणा मूर्च्छस्तथेतरे ॥३८॥

पुद्गल और जीव ये दोनों सहजासहज भाव धारें ।

शेष वस्तु ये सदा सहज परिणाम लिए ही हैं प्यारे ॥

द्रव्य ताकि पहिचाना जावे वह उसका गुण कहलाता ।

द्रव्य अमूर्त मूर्त यों गुण भी दो प्रकारताको पाता ॥१६॥

**सारांशः**—मूलमें द्रव्यके जीव और अजीव ये दो भेद हैं । इनमेंसे देखने, जाननेकी शक्तिवाला जीव है इस शक्तिसे जो रहित हो वह अजीव है, ऐसा समझना चाहिये । अजीव द्रव्यके भी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इस तरह पांच भेद होते हैं । इन छहों द्रव्योंका जहाँ समायोग है, उसे ही लोक कहते हैं । पाँचों द्रव्योंसे रहित केवल आकाश को अलोक कहते हैं । जीवादि सभी द्रव्योंमें केवल भाववंती शक्ति रहती है । इससे हरएक द्रव्य अपने आपके रूपमें पूर्व कथनानुसार निरन्तर परिणमन करता रहता है ।

जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योंमें एक क्रियावती नामकी शक्ति और है । इसके कारणसे दो द्रव्य आपसमें मिलते हैं और विछुड़ते भी हैं । क्रिया दो तरहसे होती है । १ स्थानसे स्थानान्तर होना, २ आपसमें मिलकर रूपान्तर धारण करना, ये दोनों ही शक्तियाँ जीव और पुद्गलमें पाई जाती हैं । जीवादिक द्रव्य भी मूर्त अमूर्तके भेदसे दो भागोंमें विभक्त हैं । इनके गुण भी मूर्त अमूर्त ही होते हैं । लक्ष्य, लक्षणके रूपमें गुण, द्रव्यसे भिन्न होकर भी सदाके लिए उसके साथ एकमेक होकर, उसे अन्य द्रव्यसे भिन्न वतलानेवाले होते हैं । कथंचित् तत्तद्भावको लिये हुए होते हैं । मूर्त गुण कौनसे तथा किस द्रव्यमें और अमूर्त गुण कौनसे तथा किस द्रव्यमें पाये जाते हैं, यही आगे वर्ताते हैं—

मुक्ता इंदियगेजभा पोगगलदव्यप्पगा अणेगविधा ।

दव्याणममुक्ताणं गुणा अमुक्ता मुणेदव्या ॥३८॥

वरणरसगंधफासा विज्जंते पुगगलस्स सुहुमादो ।

पुढवीपज्जंतस्स य सद्वो सो पोगगलो चित्तो ॥४०॥

बक्षग्राह्यतया ख्याताः पुद्गलदव्यसम्भवाः ।

गुणा अनेकधा मूर्चाः शेषाणामितरे पुनः ॥३९॥

वर्णगंधरसस्पर्शा ये भवन्ति च पुद्गले ।

अणोरारभ्य पाषाण पर्यन्ते त्र रवादिके ॥४०॥

पुद्गलके गुण मूर्त जो कि इन्द्रियप्राण हो जाते हैं ।

इतर सभी द्रव्योंके गुण वे अमूर्तता अपनाते हैं ॥

सूक्ष्म और बादर पुद्गलमें स्पर्शरूपरसगंध रहै ।

भूरि भाँतिजिसका विकार वह शब्द आदि सन्नाम गहै ॥२०॥

**सारांशः**—स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये गुण मूर्त कहलाते हैं ।

ये इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये जाते हैं और स्थूलसे स्थूल पाषाणसे लेकर परम सूक्ष्म पुद्गलाणु तकमें सदा रहते हैं । शब्दादिक पुद्गलकी सभी अवस्थाओंमें पाये जाते हैं । पुद्गल द्रव्यके छह भेद होते हैं, जैसे कि इस गाथामें बताये हैं—

पुढवी जलं च छाया चउरिन्दियविसय कम्मपरमाणु ।

छव्विहमेयं भणियं पोगालद्रव्यं जिणवरेहिं ॥

१ स्थूल स्थूल पाषाणादि जो ढूट जाने पर फिर न मिल सके ।

२ स्थूल जल वगैरह जो बरतन आदिमें भिन्नरूपसे लिये जाकर भी पुनः मिल सकते हैं । ३ स्थूल सूक्ष्म छाया घाम (धूप) वगैरह जो खूब फैले हुए दिखते हैं परन्तु हाथसे पकड़े नहीं जा सकते हैं । ४ सूक्ष्म स्थूल वे कहलाते हैं, जो आँखोंके अतिरिक्त अन्य इन्द्रियोंसे जाने जा सकते हैं । जैसे शब्द कानोंसे सुना जाता है, गंध नाकसे सूंधी जाती है आदि ।

५ जो स्कंधरूप होकर भी किसी भी इन्द्रियके द्वारा न जाना जा सके, वह सूक्ष्म कहलाता है । जैसे कर्म स्कंध ।

६ परमाणु परम सूक्ष्म होते हैं । यद्यपि परमाणु इन्द्रिय द्वारा ग्राह्य नहीं है फिर भी जब परमाणुसे परमाणु मिलकर जो स्कंध बनता है वह इन्द्रियसे जाना जाता है । स्पर्शादि चारों गुण पुद्गलमें सदा साथ रहते हैं । यह बात दूसरी है कि कोई गुण कहीं पर प्रस्पष्ट हो और कोई तिरोभूत हो रहा हो । जैसे पाथिव स्कंधोंमें स्पर्शादि चारों स्पष्ट होते हैं किन्तु जलमें गंध, अग्निमें गंध और रस तथा हवामें स्पर्शके सिवाय तीनोंही गुण छिपे रहते हैं । इन पृथिव्यादि का मूलमें जातिभेद न होकर आपसमें संकर (मिश्रण) होता हुआ पाया

जाता है। जैसे हवासे वादल, वादलसे जल, जलसे अग्नि और अग्निसे भस्म हो जाती है तथा वह देखनेमें भी आती है। अतः ये सब तथा अंधेरा, चांदनी वगैरह पुद्गल द्रव्यकी ही पर्यायें हैं। पुद्गल द्रव्यको छोड़कर शेष सब द्रव्य और उनके गुण अमूर्त ही होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? यही आगे बताते हैं—

आगाससवगाहो धर्मद्ववस्स गमणहेतुतं ।

धर्मेदरद्ववस्स दु गुणो पुणो ठाणकारणदा ॥४१॥

कालस्स वट्टणा से गुणोवओगो त्ति अप्पणो भणिदो ।

ऐया संखेवादो गुणा हि मुत्तिप्पहीणाण ॥४२॥

गमित्सोर्गतिहेतुत्वं धर्मद्रव्यस्य लक्षणम् ।

अधर्मद्रव्य चिह्नन्तु स्थान्तोः स्थितिनिमिचता ॥४३॥

परिवर्तनकारित्वं कालस्य च विहायसः ।

अवगाहन दात्रुत्वं उपयोगो सुधारिणः ॥४४॥

गमनहेतुता धर्मका तथा स्थितिकारणता अधर्मका ।

गुण होता है स्थानदान यह सदा गगनके सुशर्मका ॥

परिवर्तनकारित्वं कालका चेतनका उपयोग सही ।

गुणविशेष निस बिना इन अमूर्त द्रव्योंका सत्य नहीं ॥२१॥

जीवा पोग्गलकाया धर्माऽधर्मा पुणो य आगासं ।

देसेहिं असंखादा णत्थि पदेस त्ति कालस्स ॥४५॥

लोगालोगेसु णभो धर्माधर्मेहि आददो लोगो ।

सेसे पड्डच्च कालो जीवा पुण पोग्गला सेसा ॥४६॥

वहुप्रदेशिनोऽन्ये तु संसर्गेणाथ पुद्गलः ॥

कालाणवोऽभितो लोके पृथक् सन्ति विकीर्णिताः ॥४७॥

सर्वगन्तु नभो धर्मोऽप्यधर्मो लोकसम्प्रितः ।

जीवा अनेक संस्थानाः पुद्गलाश्च भवन्त्यमी ॥४८॥

धर्म अधर्म व्योम जीव ये वहुप्रदेशी द्रव्य कहे ।

पुद्गल भी संसर्गितया फिर भिन्न भिन्न कालाणु रहे ॥

सर्वव्यापी व्योम लोकमित धर्म अधर्म सदा ही से ।

पुद्गल जीव अनेक स्थानी कालविकीर्णित राईसे ॥२२॥

**सारांशः—** सभी द्रव्योंको स्थान देना आकाशका लक्षण है । आकाश सर्वव्यापी एक द्रव्य है । गमन करनेवाले जीव और पुद्गलको, मछलीको जलकी तरह गमनमें सहकारी होना धर्मद्रव्यका लक्षण है । ठहरनेवाले जीव और पुद्गलको, पथिकको छायाकी तरह ठहरनेमें सहायक होना अधर्मद्रव्यका लक्षण है । हरएक द्रव्यको परिवर्तन करनेमें कुम्भकारके चाकको उसके नीचे रहनेवाले शंकुकी तरह सहायता करना कालद्रव्यका लक्षण है । जीव द्रव्यका लक्षण उपयोग अर्थात् जानना और देखना है । यह पहिले भी बताया जाचुका है ।

धर्म और अधर्म द्रव्य एक एक हैं । सम्पूर्ण लोकाकाशमें फैले हुए हैं । प्रत्येक जीव भी पूर्ण विस्तारकी अपेक्षासे लोकाकाशके बराबर हैं परन्तु दीपकके प्रकाशकी तरह संकोच विस्ताररूप होनेसे वह अपने प्राप्त शरीर प्रमाण (समुद्रवात् अवस्थाको छोड़कर अन्य समयमें) रहता है । अतः जीवोंका कोई एक अवस्थान नियत नहीं है । पुद्गलों की भी यही दशा है । परमाणुकी अवस्थामें सभी पुद्गल एकसे अविभागीपनको लिये हुए होते हैं फिर भी आपसमें मिलकर स्कंध बनते हैं तब अनेक संस्थानवाले होजाते हैं ।

जीव द्रव्य संख्याकी अपेक्षा अनन्त और पुद्गल अनन्तानन्त हैं । कालाणु द्रव्य असंख्यात हैं । लोकाकाशके हरएक प्रदेश पर एकएकके रूपमें राईके दानोंके समान भिन्न भिन्न स्थित हैं । यह कालद्रव्य समयके रूपमें परिवर्तन करता रहता है । एक प्रदेश मात्र होनेसे अस्तिकाय नहीं है । शेष पांचों द्रव्य अस्तिकाय (बहुप्रदेशी) हैं । अस्तु । किस द्रव्यमें कितने प्रदेश होते हैं और कैसे होते हैं तथा समय नाम किसका है, यह बताते हैं—

जध ते एभप्पदेसा तधप्पदेसा हवंति सेसाणं ।

अपदेसो परमाणु तेण पदेसुभवो भणिदो ॥४५॥

समझो दु अप्पदेसो पदेसमेत्सस दब्बजादस्स ।  
बदिवददो सो बहूदि पदेसमागासदब्बस्स ॥४६॥

अणुना सम्मितं यद्वन् नभोऽनन्तप्रदेशकम् ।

धर्मोप्यथर्मो जीवश्चास्त्यसंख्यात् प्रदेशवान् ॥४५॥

मन्दगत्याणुरभ्येति प्रदेशं तु प्रदेशतः ।

तावत् काललवस्याहुः समयं नाम योगिनः ॥४६॥

अणुसे नपकर ज्यों प्रदेश नभके अनन्त होजाते हैं ।

धर्म अधर्म एक चेतन के त्यों असंख्य हो पाते हैं ॥

अणु अपने मन्दगमनसे अन्य प्रदेश पर जाता है ।

उस वेलाका नाम समय वह कालकलन कहलाता है ॥२३॥

सारांशः—पुद्गलके सबसे छोटे खंडको परमाणु कहते हैं । यह सूर्योदयके समय हमारे गवाक्षमें होकर आनेवाले सूर्यकी धूपके साथ पंक्ति सी बनकर आनेवाले त्रसरेणुओंमें से एक त्रसरेणुके भी असंख्यातवै भाग सूक्ष्म होता है । यह परमाणु जितने आकाशको रोकता है उसीका नाम प्रदेश है । इसप्रकार नपनेसे आकाश अनन्तप्रदेशी किन्तु लोकाकाश, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और एक जीव इनके असंख्यात्, असंख्यात् प्रदेश होते हैं । जैसे एक लट्ठा गजसे नपकर चालीस गजका होता है । यह परमाणु अपनी मन्दगतिसे एक प्रदेशपरसे दूसरे प्रदेशपर जितनी देरमें पहुँचता है, उतनी देरका नाम समय है । इसी एक समयमें पुद्गल परमाणु या जीव अपनी तेज चालसे चले तो लोकके एक किनारेसे दूसरे किनारे तक भी पहुँच सकता है । ऐसा श्री जिनशासनका कथन है ।

बदिवददो तं देसं तस्सम समझो तदो परो पुब्बो ।

जो अत्थो सो कालो समझो उपरणपद्मंसी ॥४७॥

आगासमणुणिविदुं आगासपदेशसणया भणिदं ।

सव्वेसिं च अणुणं सककदि तं देदुमवगासं ॥४८॥

सोऽस्मिन्नुदेति पर्यायः कालाणुर्नाम तिष्ठति ।

प्रतिप्रदेशं नोत्पन्न प्रध्वंसी स्थानुवत् पुनः ॥४७॥

प्रदेश नामतः ख्यातं परमाणुमितं नभः ।  
 तस्मिन् समस्तमध्येतत् सौक्ष्म्यतः स्थातुमर्हति ॥४८॥  
 वह जिसमें प्रस्कुट होता है सो नित्ये स्थिर कालाणु ।  
 रूपद्रव्य भिन्नभिन्नतया प्रतिप्रदेश यथा स्थाणु ॥  
 जितने आकाशको एक अणु रोके उसे प्रदेश कहा ।  
 उसमें सबही रह सकते हैं यदि बादरता न हो अहा ॥२४॥

**सारांशः—**—समय नामकी पर्याय कालाणु द्रव्यकी छोटीसे छोटी अवस्था है । इसे अपनी भाषामें हम लोग क्षण कहते हैं । इसमें भी असंख्यति समय होजाते हैं । समय होनेवाली और मिटनेवाली चीज है । यह निरन्तर होता और मिटता रहता है । यह आधेयरूपसे जहाँ होता रहता है ऐसा उसका आधाररस्वरूप कालाणु द्रव्य अपने स्थान पर कीलकी तरह सदाके लिए बना रहनेवाला नित्य और स्थित है । यह आकाशके हरएक प्रदेश पर भिन्न भिन्न विद्यमान है ।

प्रदेश (पहिले भी बताया जा चुका है) आकाशके उस छोटेसे अंशका नाम है जिसको एक पुद्गल परमाणु रोकता है । इतने ही स्थानमें धर्मद्रव्यका एक अंश, अधर्मद्रव्यका एक अंश और एक कालाणु द्रव्य भी निश्चितरूपसे है, ऐसे ही और भी परमाणु समा सकते हैं । परमाणु ही नहीं किन्तु सूक्ष्मरूपसे परिणत पुद्गल स्कंध भी रह सकता है ।

दूसरे शब्दोंमें यों कहो कि पत्थर वगैरहकी स्थूलता और दीर्घता ही परस्परमें एक दूसरेको रोकनेवाली है, नहीं तो संसारकी सब वस्तुएं भी उस आकाशके एक ही प्रदेशमें आसकती हैं । यही आकाशके अवगाहन गुणकी महिमा है । अब आगे बतलाया जाता है कि पदार्थमें फैलाव दो तरहका होता है । एक तिर्यकरूप और दूसरा ऊर्ध्वरूप—

एकको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंताय ।  
 द्रव्याणं च प्रदेशा संति हि समय त्ति कालस्स ॥४९॥  
 उप्पादो पद्मं सो विज्जदि जदि जस्स एकसमयम्हि ।  
 समयस्स सो वि समओ सभावसमवट्ठिदो हवदि ॥५०॥

अत्र चान्यत्र चैत्येवं तिर्यक्त्वं कालतो विना ।  
 अद्यान्यदापि चोर्द्धत्वं कालस्यापि तदीष्यते ॥४९॥  
 जनिष्ययौ विनोर्द्धत्वं जायेते नहि जातुचित् ।  
 समयस्यापि दृश्येते तौ ततः तत्र चोर्द्धता ॥५०॥  
 तिर्यक् प्रचय और सबमें है किन्तु कालमें कभी नहीं ।  
 उर्ध्वप्रचय कालमें भी औरोंमें भी यह बात सही ॥  
 कालाणुकसे कालाणुकपर मन्दतया अणु जाता है ।  
 समय नाम पर्याय वहाँ वह कालाणुकमें लाता है ॥२४॥

**सारांशः**—जो यहाँ, वही वहाँ भी, इसप्रकारके देशव्यापित्वका नाम तिर्यक् प्रचय है । यह कालद्रव्यको छोड़कर अन्य सब द्रव्योंमें पाया जाता है । काल एकप्रदेशी द्रव्य है इसलिये उसमें यह नहीं बन सकता है । जो था वही है या होगा इसप्रकार अनेक क्षणस्थाईपनरूप जो उर्ध्वप्रचय वह जैसे अन्य सब द्रव्योंमें है वैसे ही कालद्रव्यमें भी है ।

ग्रंथकार कहते हैं कि काल (समय) केवल निरन्वय उत्पत्ति और विनाशरूप ही हो, ऐसी बात नहीं है । यद्यपि हम सब कहा करते हैं कि अब वह समय नहीं रहा, समय बदल गया, दूसरा आगया किन्तु यहाँ पर भी समयपना तो दोनोंमें है ही । वह भी समय था तो यह भी समय है । समय सामान्यको दोनों दशामें मानना ही पड़ता है । इसके आधार पर समय विशेष आता है और निकल जाता है । मतलब यह है कि होचुका, है और होगा भी समय, इसप्रकार के अनुभवका विषय जो कोई भी वस्तु है वही कालद्रव्य है, यही आगे बता रहे हैं—

एगम्हि संति समये संभवठिदिणाससणिणदा अद्वा ।  
 समयस्स सव्वकालं एस हि कालाणुसव्वभावो ॥५१॥  
 जस्स ण संति पदेसा पदेसमेत्तं व तच्चदो णादुं ।  
 सुणणं जाण तमत्थं अत्थंतरभूदमत्थीदो ॥५२॥

समयत्वेन जायन्ते स्थित्युत्पचिष्यया भृशम् ।  
 यस्येह स हि कालाणु रस्तु सदभावभृत् सदा ॥५३॥

प्रदेशमात्रमेवेति प्रदेशा यस्य नेति यत् ।

शून्यन्तु पुनरस्तित्वादपिच्युतमनर्थकृत् ॥५२॥

पूर्व समयका अभाव पर (समय) की समुत्पत्तिमें कालपना ।

सदा बना रहता है ऐसे कालाणुकका ध्रौद्य बना ॥

अगर अप्रदेश ही काल तो कहो कहाँ अस्तित्व रहे ।

क्योंकि विना ध्रौद्यके नाश उत्पाद सदा निस्सार कहे ॥२६॥

**सारांशः**—कुछ जैन भाई भी ऐसा कहते हैं कि 'एति पदेसति कालस्स' ऐसा आप ही तो इस प्रकरणकी तियालीसवीं गाथामें कह आये हैं तथा 'समओ दु अप्पदेसो' ऐसा छियालीसवीं गाथामें भी कह आये हैं । इसपर ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसा तो 'अपदेसो परमाणु' इत्यादि पुद्गल परमाणुकी बात भी कही हुई है परन्तु वहाँ पर अप्रदेशका अर्थ सर्वथा प्रदेशाभाव नहीं लेकर, बहु प्रदेशोंके न होनेरूप एक प्रदेशमात्र ही लेना चाहिये । प्रदेश शून्य तो गधेके सींगकी तरह अस्तित्व रहित होनेसे कुछ भी कार्यकारी नहीं हो सकता ।

यदि कालद्रव्यको भी एकप्रदेशी न मानकर अन्य द्रव्योंकी तरह बहुप्रदेशी ही स्वीकार कर लिया जावे तो जो समय नामकी पर्याय काल में होती है वह नहीं बन सकती । क्योंकि पुद्गल परमाणु जब अपनी मंदगतिसे आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश पर जाता है तब वहाँ कालाणु भिन्न भिन्न होनेसे ही समय भेद होता है । कालद्रव्यको बहु-प्रदेशी मान लेने पर तिर्यक् प्रचय और ऊर्ध्वप्रचय ये दोनों भिन्न भिन्न न रहकर एक तिर्यक् प्रचय ही रह जावेगा । इसप्रकार विशेष ज्ञेय तत्त्वका निरूपण करके अब यह बताते हैं कि आत्मा ज्ञान और ज्ञेय दोनों रूप होनेसे अन्य सब पदार्थोंसे विलक्षण है और संसार दशामें चार प्राणींको धारण किये हुए रहता है—

सपदेसेहिं समग्गो लोगो अट्टेहिं णिट्टिदो णिच्चो ।

जो तं जाणदि जीवो पाणचदुक्काभिसंबद्धो ॥५३॥

इंदियपाणो य तथा बलपाणो तह य आउपाणो य ।

आणप्पाणप्पाणो जीवाणं होंति पाणा ते ॥५४॥

इति पद्मद्रव्यं सम्पूर्णं लोकमेनं सनातनम् ॥  
 ज्ञातुमर्हति जीवोऽयं चतुष्प्राणोपधारकः ॥५३॥  
 इन्द्रियं पञ्चथा त्रेधा वलमायुः शरीरिणाम् ॥  
 श्वासोच्छ्वासश्च चत्वारः प्राणाः संगदिता अमी ॥५४॥

यो अनादि पद्मद्रव्यं संग्रहालयको स्वयं जाननेका ।

यह चेतन चार प्राणान्वित होकर रखता है ठेका ॥

तीन तरहका वल होकरके पांच तरहसे इन्द्रिय हैं ।

आयु श्वासोच्छ्वासं जीवके प्राण चार यो सदा कहे ॥२७॥

पाएहिं चदुहिं जीवदि जीविस्सदि जो हि जीविदो पुब्वं ।  
 सो जीवो पाणा पुण पौगगलदब्वेहिं णिब्बत्ता ॥५५॥  
 जीवो पाणणिबद्धो बद्धो मोहादिएहिं कम्मेहिं ।  
 उवभुजं कम्मफलं बजभदि अगणेहिं कम्मेहिं ॥५६॥

जीवत्यजीवजीविष्यत्यसौ जीवश्चतुर्विधैः ।

यथा कर्मभ्युपाचैयैः प्राणा पौद्गगलिका अमी ॥५४॥

मोहादि कर्मभिर्बद्धः प्राणानादाय चेतनः ।

कर्मफलं प्रमुञ्जानो बद्धयते अन्यैश्च कर्मभिः ॥५६॥

इन चारों प्राणोंसे जीवित है होगा जो हुआ सदा ।

जीव किन्तु ये प्राण वने पुद्गगलागुओंसे ही सुखदा ॥

इन प्राण संयुक्त जीव यह कर्मबद्ध उनके फलको ।

मोगता हुआ और वांव लेता है वरता है छलको ॥२८॥

पाणावाधं जीवो मोहपदेसेहिं कुणदि जीवाणं ।

जदि सो हवदि हि वंधो णाणावरणादि कम्मेहिं ॥५७॥

आदा कम्ममलिमसो धरेदि पाणे पुणो पुणो अगणे ।

ए चयदि जाव ममतं देहपधाणेसु विसयेसु ॥५८॥

प्राणभृत् प्राणिनां प्राणं पीडनं रागरोपतः ।

प्रकुर्वन् बद्धयते ज्ञाना-वरणादि कुकर्मभिः ॥५९॥

सकर्मायमिति प्राणा-नन्यानेति पुनः पुनः ॥

ममत्वमनुवज्ञाति यावद्देहादि वस्तुषु ॥५८॥

जब यह जीव रागरोपोंसे निजपरके असु हरता है ।

तब ज्ञानावरणादि कर्मका बंध सदा ही करता है ॥

इन कर्मोंसे मलिन हुआ प्राणोंको किर भी धरता है ।

जबतक देहादिकमें चेतन यह ममत्वको करता है ॥२६॥

**सारांशः**—उपर्युक्त षड्द्रव्य संग्रहात्मक इस सनातन लोकको जो मात्र जानता है, ऐसे शुद्ध जीवका वर्णन पहिले ज्ञानाधिकारमें किया जा चुका है । यहाँ अब प्रसंगवश अशुद्ध जीवका वर्णन किया जा रहा है । सकर्म होते हुए जन्म मरण करनेवाले जीवको अशुद्ध जीव कहते हैं । इस साभिलाष जीवके विस्फुरणका नाम कर्म है । यह कर्म-भावकर्म, द्रव्यकर्म और नोकर्मके भेदसे तीन प्रकारका है । १ रागद्वेषादि जीवके ही विकारी भावोंका नाम भावकर्म है । २ इन भावकर्मोंके द्वारा बंधको प्राप्त ज्ञानावरणादिका नाम द्रव्यकर्म है । ३ इन बद्ध कर्मोंका फल प्राप्त करनेके लिए धारण किये हुए शरीर वचनादिका नाम नोकर्म है । इनको सरल भाषामें प्राण कहते हैं । प्राण मूलमें १ इन्द्रिय २ बल ३ श्वासोच्छ्वास और ४ आयु (उदीष्यमान)के भेदसे चार तरहके होते हैं—

इनमेंसे इन्द्रियाँ-स्पर्शन, रसना, ध्वनि, चक्षु और कर्णके भेदसे पाँच प्रकारकी हैं । बल-शरीर, वचन और मनके भेदसे तीन प्रकारका है । इस तरह उत्तर भेद करने पर दस प्राण होते हैं । इनमेंसे स्थावर जीवोंके अपर्याप्त अवस्थाको छोड़कर पर्याप्त अवस्थामें १ स्पर्शन इन्द्रिय २ शरीर बल ३ श्वासोच्छ्वास और ४ आयु ये चार प्राण होते हैं । द्वीन्द्रिय जीवोंके १ स्पर्शन, २ रसना, ३ शरीर बल, ४ वचन बल, ५ आयु और ६ श्वासोच्छ्वास ये छह प्राण होते हैं । त्रीन्द्रिय जीवोंके ध्वनि इन्द्रिय बढ़कर सात प्राण होते हैं । चतुरिन्द्रिय जीवोंके चक्षु इन्द्रिय बढ़कर आठ प्राण होते हैं । असंज्ञी पंचेन्द्रियोंके मनबलके बिना नौ प्राण होते हैं । संज्ञी पंचेन्द्रियोंके दस प्राण होते हैं ।

वास्तवमें पुद्गल कहे जानेवाले इन इन्द्रियादिक चारों प्राणोंको धारण किये हुए रहनेका नाम ही जीवन है और इनका वियोग हो

जाना ही मरण है । जबतक जीव इन्हें धारण किये हुए है तभी तक यह जीवित कहलाता है । ऐसे ही सदासे कहलाता आरहा है और आगे भी कहलाता रहेगा । अपते जीवनके प्रलोभनमें स्वार्थपरायणतासे दूसरोंके जीवनका धातक बनकर अपने जीवनको भी व्यर्थ खो रहा है और नृतन कर्मबंध करके नवीन जीवन धारण कर लेता है । ऐसे ही यह संसार परम्परा तबतक चलती रहती है जबतक कि यह जीव मोह ममतासे रहित नहीं होजाता है । अतः उस ममता पर विजय प्राप्त करनेके लिए अपनी इन्द्रियोंको वशमें करनेकी आवश्यकता है । यही आगे कहते हैं—

**जो इन्द्रियादिविजई भवीय उव्योगमप्पगं भादि ।**

**कम्मेहिं सो ण रंजदि किह तं पाणा अणुचरंति ॥५८॥**

**अत्थित्तणिञ्छदसस हि अत्थसस्तथंतरम्मि संभूदो ।**

**अत्थो पञ्जाओ सो संठाणादिप्पमेदेहिं ॥५९॥**

इन्द्रियादिजयी भूत्वो-पैति यो ज्ञायकं स्वयम् ।

न रज्यते कर्मभिः स जन्ममृत्यु कुर्तोऽस्य तौ ॥५९॥

निजीयास्तित्वयुक्तस्या-त्मनोऽन्यत्र प्रयोगतः ।

यस्ति संयोगजो भावः संस्थानादि प्रभेदवान् ॥६०॥

इन्द्रिय विजयी होकरके जो ज्ञायक निजको ध्याता है ।

यों कर्मोंसे रहित हुया प्राणोंसे क्या फिर नाता है ॥

ज्ञानयुक्त इस चेतनके पुद्गलसंयोगी भाव बने ।

संस्थानादिक भेदोंवाले वे इस जगमें घने घने ॥६०॥

**सारांशः—**जो स्पर्शनादि इन्द्रियोंको अपने वशमें कर लेता है, इनके स्पर्शनादि विषयोंको बुरा भला मानकर बुरेसे दूर रहनेका तथा भलेको ग्रहण करनेका विचार कभी स्वप्नमें भी नहीं करता है और आत्मेतर द्रव्योंके साथ फिर कोई भी प्रयोजन न रहनेसे केवल ज्ञायक स्वरूप अपनी आत्मामें ही स्थिर हो जाता है, वह सहजमें ही निश्चेष्ट अर्थात् कर्मरहित होजाता है । परमोदासीन बन जाता है । फिर उसे प्राण धारण करनेकी आवश्यकता नहीं होती है । नरोंको धोवी या साबुन पानी की कुछ भी आवश्यकता नहीं होती है । इसप्रकार वह जन्म मरणसे

रहित हो जाता है। जन्म मरण की आधारभूत जीव की संस्थान संहनना-दिरूप अवस्था परद्रव्य (पुद्गल) के संयोग बिना नहीं हो सकती है। एकमें संयोग ज भाव कैसे बन सकते हैं जो कि ये जीव के नामकर्मादिके उदयसे होते हैं। यही आगे बताते हैं—

एरणारथतिरियसुरा संठाणादीहिं अरणहा जादा ।  
पञ्जाया जीवाण उदयादिहिं णामकम्मस्स ॥६१॥  
तं सब्भावणिबद्धं दब्वसहावं तिहा समक्खादं ।  
जाणदि जो सवियप्पं ण मुहदि सो अरणदवियम्हि ॥६२॥

आकारान्तरतादेव नृनारकादिरूपतः ।  
जायते खलु जीवाना-मुदयान्नामकर्मणः ॥६१॥  
परिणामित्वमित्येत-दात्मनश्चानुविन्दति ।  
स नरो रागदोषाभ्यां न किलान्यत्र मुहति ॥६२॥

नामकर्म के विपाक से पशु नारक नर सुर होता है।  
भिन्न भिन्न आकार लिए चेतन कि शुद्धता खोता है ॥  
उत्पादादि त्रिधा सत्तावाले पदार्थ को जो जाने।  
वह परमें विकल्पयुत होकर मोहको न मनमें ठाने ॥३१॥

**सारांशः**—जो समझता है कि मेरी यह मनुष्यादिरूप अवस्था नामकर्म के उदयसे हुई है, इसमें नामकर्म का क्या अपराध है? इसका भी पहिले मैंने ही मेरे राग द्वेष भावों के द्वारा उपार्जन किया है। अतः जो हुआ सो हुआ। अब भी यदि मैं मेरे परिणामों को संभाल कर रखूं, वर्थ ही वाह्य पदार्थों को भला बुरा मानकर इनमें रागद्वेष न करूं तो मेरी आत्माकी सच्चिदानन्द अवस्थामें परिवर्तन लानेवाले वे नामादिकर्म अब आगे के लिए न बँधे। ऐसा सोचकर अपनी भूल को सुधार सकता है और सही मार्ग पर आसकता है क्योंकि आत्मा नित्य ज्ञानस्वरूप होकर भी परिणमनशील है। जबतक यह पूर्ण शुद्धताको प्राप्त नहीं करता है तबतक संसारदशामें इसका उपयोग शुभाशुभरूपमें परिवर्तित होता रहता है। यही आगे बताते हैं—

अप्पा उवश्रोगप्पा उवश्रोगोणाणदंसणं भणिदो ।  
 सौ वि सुहो असुहो वा उवश्रोगो अप्पणो हवदि ॥६३॥  
 उवश्रोगो जदि हि सुहो पुणणं जीवस्स संचयं जादि ।  
 असुहो वा तथ पावं तेसिमभावे ण चयमत्थि ॥६४॥

उपयोगमयोऽस्त्यात्मा ज्ञानदर्शनं नामभाक् ।  
 उपयोगः शुभोऽसौ चा-शुभो भवति चाङ्गिनः ॥६३॥  
 संचिनोति परं पुण्य-मुपयोगः शुभः स चेत् ।  
 अशुभः पापमेताभ्यां परस्मिन् न चयो मनाक् ॥६४॥  
 उपयोग स्वभाव चेतनका दर्शन वोधात्मक सारा ।  
 परके सम्पर्कमें शुभाशुभ दो प्रकार उसकी धारा ॥  
 शुभ उपयोग पुण्यचयकारक अशुभ पापचय करता है ।  
 इन दोनोंके अभावमें चेतन न वंघका भर्ता है ॥३२॥

### - शुभोपयोग तथा अशुभोपयोगका स्पष्टीकरण -

जो जाणादि जिणिंदे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगारे ।  
 जीवेसु साणुकंपो उवश्रोगो सो सुहो तस्स ॥६५॥  
 विसयकसाओगाढो दुसुदिदुच्चितदुट्ठगोट्ठिजुदो ।  
 उग्गो उम्मग्गपरो उवश्रोगो जस्स सो असुहो ॥६६॥

श्रीजिनसिद्धसाधूनां सत्यश्रद्धानवांस्तथा ।  
 सानुकम्पो विचारोऽस्य जीवस्य स शुभो मतः ॥६५॥  
 दुःश्रद्धानतया अत्यन्तं कपायविषयेषु यः ।  
 तल्लीनो मार्गतो अप्प उपयोगोऽशुभः स तु ॥६६॥

श्री जिन सिद्ध साधुकी सच्ची अद्वायुत दयादिमय हो ।

ऐसे लीवोंके विचारको ही तो शुभ उपयोग कहो ॥

दुःश्रद्धानतया अन्यायाभद्र्यवृत्तिमय विचार हो ॥

वह अशुभोपयोग सभ्य पुरुष उससे निशादिन दूर रहो ॥३३॥

असुहोवओगरहिदो सुहोवजुत्तो ण अणणदवियम्हि ।  
होजं मज्जत्थोऽहं णाणप्पगमप्पगं भाए ॥६७॥  
एण देहो ण मणो ण चेव वाणी ण कारण तेसि ।  
कत्ता ण ण कारयिदा अणमंता णेव कत्तीण ॥६८॥

नष्टोऽशुभोपयोगस्तु शुभतोऽप्युपयोगतः ।

पारमेत्य कदात्मानं थ्रयेयं ज्ञानमात्रकम् ॥६७॥

न देहो न मनो वाक् च नाहं तेषां च कारणम् ।

कर्त्तविाऽथ कारयिता नुमन्तापि न जात्वहं ॥६८॥

किन्तु शुभोपयोगसे भी हट अन्य वस्तुके वारेमें ।

तटस्थ हो ज्ञायक निजको ध्याऊं मैं सांझ सवेरेमें ॥

न मैं देह न वचन न चित्त भी और न उनका कारण भी ।

करनेवाला और करानेवाला तो उनका न कभी ॥३४॥

**सारांशः**—आज इस कलिंकालमें भी विदेहसे चलकर चारण महा-पुरुषोंका यहाँ पर आना और एकाएक यहाँसे लेजाकर विदेहमें विराज-मान साक्षात् श्रीसीमधर स्वामीका सम्पर्क करा देना, ऐसी बात कभी अशुभोपयोगमें संभव नहीं होसकती है। अतः धर्मानुरागको व्यक्त करते हुए प्रसन्नता पूर्वक मूलग्रंथकार कहते हैं कि अहो अशुभोपयोग तो अब विलीन होचुका है। इसका निश्चितरूपसे दूर हटना आज यहाँ वाले इस पामर प्राणीके लिए एक साधारण बात नहीं है। फिर भी इतनेसे ही संतुष्ट होजाना तो मेरी मूढ़ता ही कही जावेगी क्योंकि अनार्जको चाहने वाले किसानके लिए लाणको खड़ा हुआ देखकर ही प्रसन्न होजाना ठीक नहीं कहा जा सकता है। उसे अन्नको सम्पन्न कर दिखानेके लिए प्रयत्नशील रहना ही चाहिये। लाण ही लाणको देखनेमें अन्नको भूल वैठना कृषकता नहीं कही जा सकती है।

ऐसे ही आचार्य महाराज श्री कुन्दकुन्द स्वामी अपनी वर्तमान परिस्थिति पर हृषि डालते हुए विचार करते हैं कि—अहो, अब मुझे वह अवसर भी कब प्राप्त होगा, जब मैं ग्रन्थाध्ययनादि परद्रव्योंके भरोसे

पर न रहकर, परिपूर्ण उदासीन भावमय उपेक्षा संयमको प्राप्त करते हुए, पूर्ण निराकुल होकर, अपने आपको केवल ज्ञायक अनुभव करनेमें समर्थ होऊंगा । वस्तुतः देखा जावे तो शरीर, वचन और मन भी मेरा स्वरूप नहीं हैं । ये सब मुझसे भिन्न हैं, इनके साथमें मेरा कोई संबंध नहीं है । न तो मैं इन सबका कारण ही हूँ, न करनेवाला ही हूँ और न करानेवाला ही हूँ, न मुझे इनमें किसी प्रकारकी अनुमति ही रखना ठीक है, क्योंकि ये सब—

देहो य मणो वाणी पोगलदब्बप्पग ति णिदिट्टा ।  
 पोगलदब्बं हि पुणो पिंडो परमाणुदब्बाणं ॥६८॥  
 णाहं पोगलमहाओ ए ते मया पोगला क्या पिंडं ।  
 तम्हा हि ण देहोऽहं कत्ता वा तस्स देहस्स ॥७०॥

शरीर बाहू मनांसि स्युः पुद्गलदब्यकान्यहो ।  
 भवन्ति परमाणुनां पिण्डरूपाण्यमूनि तु ॥६९॥  
 न तु पुद्गलरूपोऽहं पिण्डतात्र न पुद्गलः ।  
 मयेतिस्यामहं देहो यतः कर्तास्य वा पुनः ॥७०॥  
 क्योंकि देह मन वाणी ये तो पुद्गलके ही हैं सारे ।  
 उन उन पुद्गल वर्गणा विना वने नहीं ये बेचारे ।  
 पुद्गलमय मैं नहीं और पुद्गल है मेरे किये नहीं ।  
 किर कैसे मैं देहरूप या उसका कर्ता कहो सही ॥३५॥

सारांशः—माना कि उपादान रूपमें देह, मन और वाणी ये सब पुद्गलसे ही वने हैं । पुद्गल परमाणुओंका ही पिण्डरूपसे परिणमन हो करके ये सब सम्पन्न हुए हैं परन्तु पुद्गल परमाणुओंका पिण्डरूपसे परिणमन भी क्यों और कैसे होता है ? यह बताते हैं—

अपदेसो परमाणु पदेसमेतो य सयमसदो जो ।  
 णिद्धो वा लुक्खो वा दुपदेसादित्तमणुहवदि ॥७१॥  
 एगुत्तरमेगादी अणुस्स णिद्धत्तणं च लुक्खत्तं ।  
 परिणामादो भणिदं जाव अरांतत्तमणुभवदि ॥७२॥

अप्रदेशोऽणुरेकाकी शब्दादित्वं न चाञ्चति ।  
 स्तिर्ग्रथत्वेन रुक्षत्वेन संजुज्य स्कंधतां ब्रजेत् ॥७१॥  
 स्तिर्ग्रथता रुक्षता वाणा वारभ्यैकांशतः क्रमात् ।  
 अनन्तांशपर्यन्तं सा वर्द्धमानानुभूयते ॥७२॥

अणु है एक प्रदेश यद्यपि शब्दादि न हो पाता है ।  
 चिकनाई रुखाई द्वारा स्कंध किन्तु बन जाता है ॥  
 अणुके चिकनेपन रुखैपनका परिणमन हुआ करता ।  
 जो कि एकसे अनन्त तक अंशोंको क्रमसे है धरता ॥२६॥

**सारांशः**—परमाणु जबतक अकेला रहता है तबतक शब्दादिरूप स्कंधपनेको कभी भी प्राप्त नहीं होता है किन्तु अपने स्तिर्ग्रथपन या रुक्षपनके द्वारा दूसरे परमाणुके साथ संयोग प्राप्त करता है तभी स्कंध बनता है । परमाणुकी स्तिर्ग्रथता और रुक्षता भी परिणमनशील है । यह अपने एक अंशसे प्रारब्ध होकर एकैक अंशके हिसाबसे अनन्तांश पर्यन्त वृद्धिगत होती रहती है । जब स्कंध योग्य स्तिर्ग्रथता या रुक्षता होती है तभी परमाणु एक दूसरेके साथ बंधको प्राप्त होता है । बंधके योग्य स्तिर्ग्रथता या रुक्षता भी कब कैसे होती है, यही आगे बता रहे हैं—

णिद्वा वा लुकखा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा ।  
 समदो दुराधिगा जदि बज्मन्ति हि आदिपरिहीणा ॥७३॥  
 णिद्वत्तणेण दुगुणो चदुगुणणिद्वेण बंधमणुभवदि ।  
 लुकखेण वा तिगुणिदो अणु बज्मदि पंचगुणजुतो ॥७४॥

द्वयधिकेन भजेद्वंधमेकतोऽभ्यधिकांशवान् ।  
 रुक्षेण रुक्षः स्तिर्ग्रथेन स्तिर्ग्रथः स्तिर्ग्रथेन रुक्षवाक् ॥७३॥  
 द्वयंशिना चतुरंशीयः पञ्चांशी त्र्यंशिना समम् ।  
 अणुना अणुश्च स्कंधेन स्कंधः स्कंधोऽणुना पुनः ॥७४॥

एकसे अधिक अंशोंवाला दो अधिकांशोंवाले से ।  
 रुखा रुखेसे चिकना चिकनेसे रुखा चिकनेसे ॥  
 द्वयंशी चतुरंशीसे त्र्यंशी पञ्चांशीसे मिलता है ।  
 ऐसा बतलाते हैं गुरुजी जिनमें कोमल दिलता है ॥३७॥

**सारांशः**—परस्पर बंधको प्राप्त होनेवाले पुद्गलोंमें स्निग्धता या रुक्षताके अंश एकसे अधिक अर्थात् दो वगैरह अंश होने चाहिये । दोनोंमें समानांश नहीं होने चाहिए किन्तु एकमें दूसरेसे अंश कम होने चाहिये, तभी उनका आपसमें बंध हो सकेगा । इन दोनोंमें से एक रुखा और दूसरा चिकना हो या दोनों रुखे हों अथवा दोनों ही चिकने हों तो भी इनका आपसमें बंध हो जावेगा अर्थात् दो अंशोंवाला चार अंशवालेके साथ मिल सकता है किन्तु एक अंशवाला जैसे दूसरोंके साथ नहीं मिल सकता वैसेही वह तीन अंशवालेके साथ भी नहीं मिल सकता है । बंध होनेमें दो अधिकांशवाला पुद्गल हीनांशवाले पुद्गलको अपने समान बना लेता है, यही बंध होनेका फल है । ऐसा ही तत्त्वार्थसूत्रमें भी बताया है कि 'वन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च' । ऐसा बंध-अणुके साथमें अणुका, अणुके साथमें स्कंधका और स्कंधके साथमें स्कंधका भी तथा अनेकोंका भी एक साथमें हो सकता है । इसप्रकार बंध होकर जो पुद्गल स्कंध बनते हैं, उनका परिणामन क्यों और कैसे होता है ? यही अब बताते हैं—

दुपदेसादी खंधा सुहुपा वा वादरा ससंठाणा ।  
पुढविजलतेउवाऊ सगपरिणामेहिं जायंते ॥७५॥  
ओगाढगाढणिचिदो पुगलकायेहिं सवदो लोगो ।  
सुहुमेहिं वादरेहिं य अप्पाओगमेहिं जोगेहिं ॥७६॥

द्वयणुकाद्याः पुनः स्कंधा सूक्ष्माः स्थूला यथोचिताः ।  
परिणामेन जायन्ते स्वेनावन्यादिरूपतः ॥७५॥  
सूक्ष्मैश्च वादरैरेवं कर्मयोग्यैश्च योग्यकैः ।  
प्रगाढं निचितो लोकः सर्वतः पुद्गलैरयम् ॥७६॥

द्वयणुकादि स्कंधोंका ऐसे सूक्ष्म और वादर जाति ।

भूमि वारि पावक पवनतया परिणति होना नाना भाँति ॥

यों कर्मोंके अयोग्य अथवा योग्य पुद्गल स्कंधोंसे ।

सारी दुनिया भरी सब जगह स्थूल सूक्ष्ममय धंधोंसे ॥३८॥

**सारांशः**—सूक्ष्म तथा स्थूलरूपमें परिणत हुए नाना आकारोंको धारण करनेवाले वे द्वयणुकादि स्कंध अपने अपने परिणामनके अनुसार

पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु आदिके रूपमें अनेक प्रकारके परिवर्तन प्राप्त करते रहते हैं। इनमेंसे कितने ही तो ऐसे होते हैं जो कर्मरूपमें परिणत हो सकते हैं, इन्हें कार्मण वर्गणा कहते हैं। जो औदारिक आदि शरीररूप बन सकते हैं उन्हें आहारक वर्गणा कहते हैं। शब्दरूप होनेवाले पुद्गल स्कंधोंको भाषा वर्गणा कहते हैं। मनरूप होनेवालोंको मनोवर्गणा कहते हैं। इत्यादि। नाना जातिकी सभी तरहकी वर्गणायें लोकाकाशके हरएक प्रदेशमें ठसाठस भरी हुई हैं। न तो किसी जीवको इन्हें बनाना ही पड़ता है और न किसी दूसरी जगहसे लाना ही पड़ता है, यही बताते हैं—

**कम्मत्तणपाओगमा खंधा जीवस्स परिणइ पप्पा ।**

**गच्छंति कम्मभावं णा हि ते जीवेण परिणामिदा ॥७७॥**

**ते ते कम्मत्तगदा पोग्गलकाया पुणो वि जीवस्स ।**

**संजायंते देहा देहंतरसंकमं पप्पा ॥७८॥**

कार्मण वर्गणः प्राप्य विभावं देहधारिणः ।

कर्मत्वं यान्ति तास्त्वज्ञी तथात्वं न नयत्ययम् ॥७७॥

अथ तान्येव कर्माणि शरीरत्वं शरीरिणः ।

भवान्तरं समासाद्य यान्तीति जिनदेशना ॥७८॥

चेतनके विभावको पाकर भी तो कार्मण पुद्गल ही।

कर्मरूप होते हैं क्यों फिर कर्ता उसका जीव सही ॥

कर्मरूप परिणत पुद्गल ही नन्मान्तरमें देह बने ।

अतः देहका कर्चा भी न जीवको माना श्रीजिनने ॥३६॥

**सारांशः—** इनपर बताया गया है कि अपने अपने स्तनग्रध रूक्ष परिणामनके अनुसार तत्तत्पुद्गल वर्गणायें बनतो रहती हैं। जीवका उनमें कोई कार्य नहीं होता है। ऐसा ही यहाँ समझा रहे हैं। कार्मण वर्गणायें कर्मरूपताको प्राप्त होकर जीवके साथ बंधको प्राप्त होती हैं। वे ही जीवके रागद्वेष भावोंका निमित्त पाकर अपने आप ही ताहशपनको स्वीकार कर लेती हैं। जीवका इनपर स्वतंत्र रूपसे कोई उपाय नहीं चलता है। कर्मरूपको प्राप्त हुई कर्म वर्गणायें ही आगे भवान्तरमें

जीवके तादृश शरीरकी सम्पादिका बनती हैं। जीव इनमें कुछ भी परिवर्तन अपनी स्वतंत्रतासे नहीं कर सकता है।

मानलो कि एक मनुष्यने अपनी भुज्यमान मनुष्यायुकी त्रिवलिके अवसर पर किसी निरपराव जीवको मारनेका या चोरी, जारी, चुगलखोरी करनेका विचार किया तो इसके अवश्य ही अशुभ नामकर्म आदिके साथ साथ नरकायुका वंध होगा। आयुके अन्तमें यह जीव नरकमें जाकर नारकीय शरीरको धारण किये हुए वहाँ अनेकप्रकारके मारण ताडन शूलारोपण आदिके कष्ट पाये विना न रहेगा।

यह जीव उपर्युक्त बुरे विचार तो करता रहे और चाहे कि मेरे पापकर्मका वंध न हो, मुझे नरकमें न जाना पड़े तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। ऐसी अवस्थामें कर्मोंके प्रति एवं शरीरके प्रति भी जीव का कर्तापिन कैसे संभव है क्योंकि कर्ता तो स्वतंत्र होता है। अपनी इच्छानुसार कार्य करता है, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। अतः मानना ही चाहिए कि कर्म तो कार्मण वर्गणाओंका परिणमन मात्र है और शरीर आहारक वर्गणाओंका परिणमन है, पौदुगलिक है, यही आगे बताते हैं—

**ओरालिओ य देहो देहो वेउविओ य तेजइओ ।**

**आहारय कम्मइओ पुगगलदव्वप्पगा सव्वे ॥७६॥**

**अरसमरुवमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसद्दं ।**

**जाण अलिंगगहणं जीवपणिदिदुसंठाणं ॥८०॥**

औदारिको वैक्रियक आहारकश्च तैजसः ।

कार्मणोऽपि पुद्गलाख्य पर्यायो देह इष्यते ॥७९॥

जीवो रूपादितः शून्योऽप्यव्यक्त शब्दवर्जितः ।

चैतन्यवानथालिंग—ग्राह्यश्चानियतस्थितिः ॥८०॥

औदारिक वैक्रियक तथा आहारक तैजस कार्मण भी ।

ये पांचों ही देह सदा पुद्गलके द्वारा वनें सभी ॥

इन्द्रियसे न ग्रहण योग्य यह स्वयं अरूपी चेतन है ।

शब्दशून्य व्रोधस्वभाव जो कभी न एकाकार रहे ॥८०॥

**सारांशः**—आदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्मणिके भेदसे शरीर पाँच प्रकारका होता है। यह पौद्गलिक है और पुद्गल द्रव्यका ही विकार है। जब आत्मा इन पांचों ही शरीरोंसे रहित हो जाता है तब न तो यह रूपरसादियुक्त रहता है, न इसमें किसी प्रकारका शब्द ही होता है, न कोई इसका एक आकार ही नियत रहता है, न इसको हम लोग देख ही सकते हैं और न हम इसे किसी विशेष चिह्नके द्वारा ही जान सकते हैं। यह तो केवल एक चैतन्यका पुंज मात्र शाश्वत द्रव्य है, इतना ही हम कह सकते हैं। यहां शंका होती है कि फिर यह आत्मा बँधा हुआ क्यों है? इसका उत्तर प्रश्नपूर्वक आगे दे रहे हैं—

मुक्तो रूवादिगुणो बजभदि फासेहिं अणमणेहिं ।

तविवरीदो अप्पा बजभदि किध पोग्गलं कम्मं ॥८१॥

रूवादिएहिं रहिदो पेच्छदि जाणादि रूवमादीणि ।

दव्वाणि गुणे य जधा तह बंधो तेण जाणीहि ॥८२॥

मूर्तिमान् पुद्गलः स्पैरेति वन्धं परेण सह ।

कुतोऽन्यथा स्वभावोऽयं कर्मबध्नाति चेतनः ॥८३॥

आत्मसात् कुरुते रूपादीनि ज्ञानेन चेतनः ।

बालः क्रीडनकेनेव तेन वन्धमुपैति सः ॥८४॥

रूपी जो पुद्गल अपने रूक्षादि गुणोंसे बंध धरे ।

किन्तु अरूपी चेतनमें क्यों बंध कथा अवकाश करे ॥

तो इसका उत्तर कि जीव यह रूपादिकमय भाव धरे ।

अपने इसीलिए तन्मय हो बंध सदा स्वीकार करे ॥८५॥

**सारांशः**—एक बच्चा किसी काष्ठ आदिके खिलौनेको देखकर उसे सुन्दर समझता हुआ अपने हाथमें पकड़े रहता है। यदि वह फूट जावे या बिगड़ जावे तो रोने लगता है। किसी भी प्रकारसे उसका अभाव होजाने पर दुखी होता है। इसीप्रकार यह सच्चिदानन्द आत्मा भी इन मूर्तिक पर पदार्थोंको सदासे ही अपने भावोंमें अपनाये हुए है अतः अपने भावोंके द्वारा ही यह उनके साथ बँधा हुआ है। इसीको आगे स्पष्ट कर रहे हैं—

उवश्चोगमयो जीवो मुजभदि रज्जेदि वा पदुस्सेदि ।  
एषा विविधे विषये जो हि पुणो तेहिं संबंधो ॥८३॥  
भावेण जेण जीवो पैच्छदि जाणादि आगदं विसये ।  
रज्जदि तेणैव पुणो बज्भदि कम्म त्ति उवदेसो ॥८४॥

विषयान् प्राप्य सम्मृदो रज्यते द्वेष्टि तेष्वसौ ।  
उपयोगमयो जीवस्सम्बद्धो भवतीह तैः ॥८३॥  
विषयं येन भावेन प्राप्त लानाति पश्यति ।  
रज्यते च तेनैव कर्म वध्नाति देहवान् ॥८४॥

विषयोंमें उपर्युक्त मोहसे रागी द्वेषी होता है ।  
इसीलिये इस चेतनमें वंधप्रयोग समझोता है ॥  
प्राप्त विषयको अनुभव करता हुआ विकारी बना जहाँ ।  
श्रीलिङ्ग कहते हैं कि कर्मवंध तभी फिर हुआ वहाँ ॥४२॥

**सारांशः**—देखो, एक मनुष्य जिनको अपना परिकर मानता है, जिनके साथ मिलकर रहता है फिर भी अपने व्यक्तित्वमें उनसे सर्वथा ही भिन्न होता है । ऐसा होने पर भी वह कहता है कि मैं इनमें फँसा हुआ हूँ, इन्हें छोड़कर मैं कैसे और कहाँ जासकता हूँ । परस्परके लौकिक संबंधोंकी अपेक्षासे परिवारवाले भी कह देते हैं कि ठीक ही तो है, यदि तुम जाना भी चाहो तो हम लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे । यही दशा इस संसारी जीवकी है । यह भी बाह्य विषयोंमें संबंध करके फँसा रहता है इसीलिए कर्मधीन बना रहता है । मतलब यह है कि जीवके रागद्वेषभावोंके कारणसे कर्मोंका वंध होरहा है । यह वंध तीन तरहका होता है । १ केवल पुद्गलका, २ केवल जीवका और ३ जीव तथा पुद्गलका । यही आगे बताते हैं—

फासेहिं पुग्गलाण वंधो जीवस्स रागमादीहिं ।  
अरणोरणसवगाहो पुग्गलजीवप्पगो भणिदो ॥८५॥  
सपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेसु पुग्गला काया ।  
पविसंति जहाजोग्गं चिट्ठुंति य जंति बज्भर्ति ॥८६॥

स्पर्शाख्येन यथारूपानां जीवानां च रागादिना ।

द्वयोर्मिथोऽवगाहेन संब्धः सम्भवतीत्यसौ ॥८५॥

प्रदेशेषु च जीवस्य पुद्गलानां च तादृशाम् ।

स्पन्दनेन प्रवेशोऽस्तु निवासस्तु कषायतः ॥८६॥

स्पर्शभावसे पुद्गलमें रागादि भावसे चेतनमें ।

एकमेकपनसे प्रवंध होता है चेतन पुद्गलमें ॥

स्पन्दभावसे इस चेतनके देशोंमें मिल जाती है ।

कर्मवर्गणा मोहभावसे किन्तु चिपकने पाती है ॥८७॥

**सारांशः**—पुद्गलका पुद्गलके साथमें जो संबंध होता है, वह उसके स्तिरधृत्व और रूक्षत्वरूप स्पर्शकों लेकर संस्पर्शात्मक सम्बन्ध होता है । जीवका जीवके साथमें जो संबंध होता है, वह केवल रागद्वेषमय मोहभावके द्वारा संभवनात्मक संबन्ध होता है । यह पति पत्नी, पिता पुत्रादिके रूपमें अनेक प्रकारका होता है । जीवके साथ कार्मण्य पुद्गलोंका जो सम्बन्ध होता है, वह परस्पर संश्लेषात्मक एकावगाहरूप होता है । यह दो प्रकारका होता है—

१ परिस्पन्दनरूपयोग भावके द्वारा जीवके प्रदेशोंमें कर्म वर्गणायें प्रवेश पाती हैं । २ उस जीवके कषायभावकी तीव्रता और मन्दताको लेकर वे वहाँ पर कर्मरूपमें ठहरी रहती हैं । फिर उदयकालमें इस जीवको अपना फल दिखलाती हुई वे आगेके लिए कर्मवन्धके कारणभूत रागद्वेषभावको उत्पन्न करके निर्जीर्ण हो जाती है । मतलव यह है कि कर्माधीन होकर जीव जबतक रागद्वेष करता रहता है तबतक नूतन कर्मोंका वन्ध करता रहता है । यही बताते हैं—

रत्नो वंधदि कर्मं मुच्चदि कर्मेहिं रागरहिदप्ता ।

एसो वंधसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो ॥८७॥

परिणामादो वंधो परिणामो रागदोसमोहजुदो ।

असुहो मोहपदोसो सुहो व असुहो हवदि रागो ॥८८॥

रागी वध्नाति कर्मणि मुच्यते विरागवान् ।  
 संसाधकतमत्वेन रागो वंधस्य कारणम् ॥८७॥  
 वंधकृद्यो विकारः स रागरुद्मोह भेदवान् ।  
 रागः शुभोऽशुभश्चस्यादशुभं हि परद्वयम् ॥८८॥

इस सबका सारांश यही निश्चयसे ठीक निखरता है।  
 रागी जीव वंध करता है किन्तु विरागी हरता है ॥  
 वंधक परिणामोंकी धारा तीन तरहकी बतलाई ।  
 रोष मोह तो अशुभराग शुभ अशुभ हुआ करता भाई ॥४४॥

**सारांशः—** आत्माको वंधनमें जकड़ देनेवाला आत्माका विकार भाव है । यह राग, द्वेष और मोहके भेदसे तीन प्रकारका है । दूसरोंके साथ अनुकूलताका अनुभव करना राग है । दूसरोंके प्रति प्रतिकूलता रखना द्वेष है । दूसरोंकी उलझनमें फँसकर अपने आपको भी भूल जाना मोह है । इनमेंसे मोह और द्वेष ये दोनों तो अशुभ ही होते हैं, सर्वथा हानिकारक हैं क्योंकि ये विप्लव फैलानेवाले हैं ।

राग भी यदि अपनी इन्द्रियोंके संतर्पणरूप दुर्वासिनाको ही लेकर होता है तब तो वह भी अशुभ ही होता है किन्तु धर्मभावनाको लक्ष्यमें रख कर प्रवृत्त होनेवाला राग शुभ होता है क्योंकि यह निविकारताके लिए किया जाता है । फिर भी स्वयं तो विकारांश ही है, तत्कालमें तो वन्धरूप ही होता है, स्वस्थतासे दूर ही रहता है । यही आगे बताते हैं—

सुहपरिणामो पुणणं असुहो पावत्ति भणियमणेसु ।  
 परिणामो णणगदो दुक्खक्खयकारणं समये ॥८९॥  
 भणिदा पुढविष्पमुहा जीवणिकायाध थावरा य तसा ।  
 अणणा ते जीवादो जीवो विय तेहिंहो अणणो ॥९०॥

परोपकारः पुण्याय पापायान्यविनिग्रहः ।  
 शुभोऽशुभः क्रमादुःख(कर्म)क्षयायौदास्यमिष्यते ॥८९॥  
 पृथिवीत्यादिनामानः स्थावराः पञ्चधोदिताः ।  
 व्रसारच जीवकाया ये जीवादन्या यथार्थतः ॥९०॥

पराधीन परिणाम शुभाशुभ पुण्यपापके कारक हो ।

आत्माधीन विचार जीवके बंधविदारक तथा अहो ॥

पंचस्थावर और एक नंगम षट्काय बताई है ।

जीवकी कि जो नहीं जीवमय इससे विभिन्न गाई है ॥४५॥

**सारांशः—**यहाँ ग्रंथकार सिद्धोंके अतिरिक्त, षट् कायिक संसारी जीवोंको पर शब्दसे पुकार रहे हैं क्योंकि ये अपने सहजरूपमें न रहकर और ही रूप बने हुए हैं । इन षट्कायके जीवोंकी रक्षा हो, कोई भी जीव किसी भी तरहसे दुखी न रहे, इसप्रकारके सद्विचारका नाम ही शुभ भाव है । यह जीवके लिये पुण्यबंध कारक है ।

मुझे और लोगोंकी चिन्तासे क्या लाभ है, ये सब चाहे जीवित रहें या मर जावें, सुखी हों या दुखी हों, कैसे भी रहें, मुझे इनसे कोई भी प्रयोजन नहीं है । मुझे तो अपने आपको कभी कष्ट न होना चाहिए, खूब खाऊं, खूब पीऊं और निश्चिन्त होकर सोजाऊं, इस प्रकारके पर पीड़ा कारक विचारका नाम अशुभ भाव है । यह पापबंध कारक है ।

उपर्युक्त दोनों ही प्रकारके विचारोंसे दूर होकर परमात्म चिन्तनमें निमग्न रहनेरूप उदासीनभाव वीतराग भाव है । यह पुण्य और पाप दोनों ही तरहके बन्धसे रहित होकर आत्माको पूर्ण शांतिदायक होता है । अशुभोपयोगी मिथ्यादृष्टि जीव कर्तव्य विमृढ़ होता है । यह कर्तव्यको भूलकर, अकर्तव्यको ही कर्तव्य मान लेता है अथवा दोनोंको ही समान समझता है या दोनोंके ही विषयमें कुछ भी विचार न करके आलसी बना रहता है ।

चतुर्थ गुणस्थानमें जब सम्यगदर्शन होता है तब अशुभसे हटकर शुभोपयोग पर आता है । यह अकर्तव्यको अनुचित मानकर कर्तव्य करनेके लिए उत्कंठित होजाता है । उसे करनेके लिए कटिवद्ध होकर उत्तरोत्तर उसमें अधिकाधिक आनन्द मानता है । शुभसे शुभतर और शुभतम् उपयोगवाला बन जाता है । इसप्रकार कृत कर्तव्य होते हुए यही आत्मा अन्तमें स्वस्थ हो जाता है । इसकी उस स्वस्थताका नाम ही शुद्धोपयोग है ।

शङ्काः—यहाँ यह बतलाया गया है कि शुभोपयोग रागरूप ही होता है, इसमें द्वेष नहीं हुआ करता है। यह बात कुछ समझमें कम आती है क्योंकि राग और द्वेष ये दोनों तो साथ साथ रहनेवाले हैं। जहाँ किसी एक वस्तुसे राग होगा तो वहाँ उसकी प्रतिपक्षभूत दूसरी वस्तुसे द्वेष भी अवश्य ही होगा। जैसे एक मनुष्य मीठेको अच्छा मानता है तब फीकेको बुरा भी मानता है, ऐसा ही सर्वत्र देखनेमें आता है। शुभोपयोग और अशुभोपयोगमें तो अन्तर होना चाहिये तो इतना ही कि—मन्द रागद्वेषका नाम शुभोपयोग और तीव्र राग-द्वेषका नाम अशुभोपयोग।

उत्तरः—राग और द्वेष ये दोनों एक आत्मामें एकसाथ कभी नहीं हो सकते हैं। राग और द्वेष ये दोनों प्रकाश और अंधकारकी तरह परस्पर विरोधी भाव हैं। राग द्वेष ही नहीं किन्तु रागके भेद, माया और लोभ तथा द्वेषके भेद, क्रोध और मान भी दोनों एक समयमें एक आत्माके नहीं हुआ करते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारोंमें से एक समयमें एक आत्माके एक ही भाव होता है, ऐसा जैनसिद्धांतका कथन है।

राग द्वेष रूप कथाय भावकी तीव्रता और मन्दताका नाम यदि शुभ और अशुभोपयोग कहा जावे तो छठे गुणस्थानकी अपेक्षासे पंचम, गुणस्थान और पंचम गुणस्थानकी अपेक्षासे चतुर्थ गुणस्थान अशुभोपयोग कहा जाना चाहिए। इसीप्रकार मिथ्याहृषि नामके गुणस्थानसे मिश्र गुणस्थान और मिश्रसे सासादन गुणस्थान शुभोपयोगरूप माना जाना चाहिए। ऐसा करनेसे तो फिर शुभोपयोग और अशुभोपयोगकी व्यवस्था ही नहीं रहेगी। यह तो ऐसी ही बात होगी जैसे एकत्र कहा कि कम काला सो पीला और अधिक पीला सो काला, परन्तु हमारे श्रद्धेय आचार्य महोदयोंका तो ऐसा अभिमत नहीं रहा है।

जैनाचार्योंका कथन है कि सम्यग्दर्शनका न होना अशुभोपयोग है। सम्यग्दर्शन होकर भी चारित्रमोहका उदय होना शुभोपयोग है और चारित्रमोहका भी उदय न रहना शुद्धोपयोग है। ऐसा समझना

चाहिये । यहाँ ग्रंथकार शुभोपयोग और अशुभोपयोगकी ही बात न कहकर शुभ, अशुभ और शुद्ध भावोंके विषयमें कह रहे हैं ।

आचार्य महाराज कहते हैं कि पर जीवोंकी विराधनारूप हिंसादि परिणामोंका होना अशुभ है । यह मिथ्याहृष्टि और सम्यक्‌हृष्टि दोनोंके ही असाता वेदनीयादि पापबंधको करनेवाला होता है । जीवोंकी रक्षारूप दयादि भावोंका होना शुभ है । यह सम्यग्हृष्टिकी तरह मिथ्याहृष्टि जीवके भी होता है । यह साता वेदनीयादि पुण्यबन्ध कारक होता है । इन अशुभ और शुभ दोनों भावोंसे रहित परनिरपेक्षभाव होता है, वह शुद्धभाव होता है । यह किसी भी प्रकारका बन्ध न करके आत्माको स्वतंत्र रखनेवाला होता है—

जो एवि जाणदि एवं परमपाणं सहावमासेज्ज ।

कीरदि अज्भवसाणं अहं ममेदं ति मोहादो ॥६१॥

कुञ्चं सभावमादा हवदि हि कत्ता सगस्स भावस्स ।

पोगगलदब्वमयाणं ण दु कत्ता सब्वभावाणं ॥६२॥

चेतनोऽहं जडं चाङ्ग—मितीदं यो न पश्यति ।

अहमेवेदमेतच्च ममेत्यंचति मोहतः ॥६३॥

स्वं कुर्वन् भावमात्माऽयं कर्ता भावस्य तस्य तु ।

पौद्गलिक विकाराणां कर्ता नायं निदानतः ॥६४॥

मैं हूँ चेतन देह अचेतन ऐसा जिसे विचार नहीं ।

अहंकार ममकार मोहवश होकर करता वहाँ वही ॥

अपने भले बुरे भावोंका तो करनेवाला जन्तु ।

पुद्गलके परिणामोंका भी वह कैसा कर्ता किन्तु ॥६५॥

**सारांशः**—मैं चेतन हूँ, सदा ज्ञायक स्वरूप हूँ और यह देह जड़ है, पुद्गल परमाणुओंसे बना हुआ है । ज्ञान भावसे विहीन है, ज्ञेय मात्र है, मेरेसे भिन्न है, नाश होनेवाला है । मैं अविनाशी हूँ । इसतरह से जो मनुष्य अपने आपको इस शरीरसे भिन्न कोई वस्तु नहीं मानता है और न उसे जाननेका प्रयत्न ही करता है, वह मोही जीव होता है ।

यह मोहके वश होकर भुलावेमें आकर मैं मनुष्य हूँ, बलवान् हूँ, राजा हूँ, मेरी समानता कौन कर सकता है। मैं दीन दुखी दुर्वल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इत्यादि रूपसे अहंकार भावको करता रहता है। यह मेरी खी, वड़ी पतिक्रता और सुन्दरी है, यह मेरा पुत्र वड़ा सुशील और समझदार है। ये सब सदा मेरी आज्ञानुसार चलनेवाले मेरे सेवक हैं। यह मेरा मकान है। ये सब गायें, भैंसें, बैल, घोड़ा वगैरह मेरे कामकी वस्तुएँ हैं। इनकी रक्षा करना मेरा काम है। जो इन्हें विगाड़नेका प्रयत्न करता है, वह मेरा शत्रु है। उसे मैं अवश्य मारूँगा। जो इन कार्योंके सम्पादनमें मेरी सहायता करता है, वह मेरा मित्र है। उसके लिए मैं भी सदा प्राण देनेको तैयार हूँ, इत्यादि ममकार भावोंको भी करता रहता है।

जब जैसा चाहे वैसे ही भाव करके उनसे सुखी और दुखी होता रहता है अतः अपने इन भले और बुरे विचारोंका करनेवाला तो यह जीव ही है परन्तु इनके अतिरिक्त इन दृश्यमान पुद्गल परिणमनोंका भी कोई भी जीव अपनी इच्छानुसार कुछ कर सकता हो, ऐसी वात भी कभी संभव नहीं है। जब दृश्यमान इन स्थूल पुद्गल परिणमनोंको ही यथेष्ट बदलनेमें पूर्ण समर्थ नहीं है तब फिर स्वयंके सूक्ष्म पुद्गल (कार्मण वर्गणाएं)के विषयमें तो केवल अपने विचारोंके अतिरिक्त कुछ कर ही कैसे सकता है, क्योंकि—

गेण्हदि एव ए मुंचदि करेदि ण हि पोगलाणि कम्माणि ।  
जीवो पुगलमज्जभे बटुरणवि सव्वकालेसु ॥६३॥  
स इदाणि कत्ता सं सगपरिणामस्स दव्वजादस्स ।  
आदीयदे कदाई विमुच्चदे कम्मधूलीहिं ॥६४॥

जीवः सदा देहगोऽपि कर्माणि किमु शक्नुते ।

ग्रहीतुं वा परित्यक्तुं यथेच्चं कारकोऽस्त्वतः ॥६३॥

विकुर्वश्चात्मनो भावं संसारी किल कर्मभिः ।

आदीयेत विमुच्येत तैः कदेति नवेत्यसौ ॥६४॥

जीव पुद्गलोंमें रहकर भी उन्हें न पकड़े वा छोड़े ।  
उपादानरूपसे वहाँ वह कर्तापनको कब जोड़े ॥  
किन्तु निमित्तरूपमें चेतन कर्ता है यह कर्मोंका ।  
लेता भी है और छोड़ता भी है उनको जब मोका ॥४७॥

**सारांशः**—शरीर सहित होते हुए भी यह आत्मा जिसप्रकार घड़ा बनानेकी इच्छा करता है तो उसके लिए खान परसे मिट्टी लाता है । उसे पानीमें गोंदकर चाक पर भी चढ़ाता है, उसे हाथसे हिलाता है, ऐसे उसे तैयार करके रखता है । इसप्रकार विचारपूर्वक क्रिया करता है अतः घड़ेका कर्ता कहलाता है, परन्तु इसके कर्म कहे जानेवाले पुद्गलों को यह अपने बुद्धिगम्य रूपसे न तो कहींसे कभी ग्रहण ही कर सकता है और न उन्हें दूर ही हटा सकता है जिससे यह उनका कर्ता कहा जावे । यह तो अपने भावोंको बिगाड़ सुधार सकता है । इतना ही इसका काम है । फिर इस पर कर्म कब और कैसे आते हैं तथा कब और कैसे चले जाते हैं, यह बात संसारी अज्ञानी जीवके ज्ञानसे वाहरकी है । यदि यह जानना चाहे तो केवल इतना ही जान सकता है कि—

परिणमदि जदा अप्पा सुहम्हि असुहम्हि रागदोसजुदो ।  
तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिभावेहिं ॥९५॥  
सपदेसो सो अप्पा कसायिदो मोहरागदोसेहिं ।  
कम्मरजेहिं सिलिद्वो बंधो ति पर्खविदो समये ॥९६॥

ज्ञातुमर्हति लिप्येत ज्ञानवृत्त्यादि कर्मभिः ।  
रागरोपावितोऽभीष्टे ऽनिष्टेऽयं कुरुते यदा ॥९५॥

यत आगम इत्युक्तं कषायी चेच्छरीरवान् ।  
भवेत्तदैष वध्येत सहसा कर्मपांशुभिः ॥९६॥

जबकि जीव यह राग द्वेष युत इष्टानिष्ट समझता है ।  
ज्ञानावरणादिकमय होकर कर्म इसे तब भजता है ॥  
रागरोप या मोहभावसे जबकि कषायी बनता है ।  
कर्मरेणुसे तब लिपता है ऐसी जिनशासनता है ॥४८॥

**सारांशः**—यह अल्पज्ञ संसारी जीव यदि कर्मोंके विषयमें जानना चाहे तो इसके पूर्व आचार्य यह अंकित करके रख गये हैं कि—जब यह जीव कषायवान् होता है तब कर्मवंध करता है, आदि । इसके आधारसे यह इतना मान सकता है कि मैं जैसे अपने भले या बुरे परिणाम करता हूँ या करूँगा वैसे ही मेरे कर्म बनते रहेंगे और ये मुझे दुखी करते रहेंगे । संसारकी वस्तुओंमें इष्ट अनिष्ट मान्यताके कारण ही मैं अनेक प्रकारके कर्मोंके फंदेमें फँस रहा हूँ । अतः जहाँ तक हो सके मैं मेरे राग-द्वेषरूप परिणामों पर ही विजय प्राप्त करूँ, इन्हें न होने दूँ यही इसका फलितार्थ है । इसीका उपसंहार आगे करते हैं—

एसौ वंधसमासो जीवाणं णिच्छयेण णिदिद्वो ।

अरहतैहि जदीणं ववहारो अणणहा भणिदो ॥६७॥

ण चयदि जो दु ममतिं अहं ममेदं ति देहदविणेसु ।

सो सामरणं चत्ता पडिवरणो होदि उम्मग्गं ॥६८॥

यतिम्योऽर्हद्विरित्युक्तं वंधस्य परिवर्णनम् ।

ज्ञानावृत्यादि कर्माणि कषाय च्यवहारिणः ॥९७॥

अहं ममेदमित्येतन्ममत्वं न जहाति यः ।

देह विचादिष्ट्वामार्गं मुनिराप्त्वा प्रणश्यति ॥९८॥

निश्चयसे तो कर्मराग ही जिसे जीव यह करता है ।

कर्मपुद्गलोंका माना व्यवहाररूपमें भर्ता है ॥

तन धनादिके अहंकार ममकार भावको नहीं हरे ।

तो वह साधुपतेको तलकर उत्पयको स्वीकार करे ॥४६॥

**सारांशः**—एक मंदाग्निवाले रोगीको देखकर वैद्यने कहा कि तुमने कोई मैदाकी चीज खाई है, वह पेटमें नहीं पची, इसलिये पेटमें दर्द हो रहा है । वह निकले तब ठीक हो । इस पर रोगी बोला कि ठीक है । आज मेरे यहाँ मैदाकी पपड़ी बनी थी । उसे देखकर मेरा मन चल गया तब मैं विवश होगया, मैं क्या करूँ ? यदि उस समय जरासा मनको रोक लेता तो ऐसा अवसर क्यों आता ? अब मैदा मेरे लिये यदि

हानिप्रद है तो आगे के लिये उसका त्याग ही कर देता हूँ। कभी मैदाकी चीज खानेका विचार ही नहीं करूँगा।

वैद्यके कहनेकी तरह व्यवहार नयकी दृष्टिमें आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मोंका कर्ता है। इन्हींके वशमें होकर यह कष्ट भोग रहा है। यदि निश्चयसे देखा जावे तब तो उस रोगीके मनचलेपनकी तरह इसकी मोह ममता ही इसे दुःख दे रही है। इसे करना ही अनुचित है। ऐसा सोचकर यति लोग देह और धनादिमें रहनेवाले अहंकार ममकाररूप मोह ममताको ही जीतनेका उपाय करते हैं। गृहस्थोंकी बात दूसरी है।

गृहस्थ जीवन तो मोहममतामय ही होता है परन्तु मुनि होकर भी जो मोहममताको करता रहता है, उससे दूर नहीं होता है और न दूर होनेका उपाय करता है प्रत्युत मेरे तेरेपनमें ही फँसता रहता है तो फिर वह गृहस्थोंसे भी निकृष्ट है। नीतिपथको छोड़कर अन्यायमार्गको अपनाता है एवं भ्रष्टसे भी भ्रष्ट होजाता है। अतः मुनि यति कहलाने वालेको तो निरन्तर आगे लिखे अनुसार विचार करते रहना चाहिए—

णाहं होमि परेसि ण मे परे सन्ति णाणमहमेक्को ।

इदि जो भायदि भाणे सो अप्पाणं हवदि भादा ॥६६॥

एवं णाणप्पाणं दंसणभूदं अदिंदियमहत्थं ।

धुवमचलमणालंबं मणेऽहं अप्पगं सुद्धं ॥१००॥

नान्येषामहमन्येऽपि न मे ज्ञानात्मकोऽस्म्यहम् ।

इत्येकाग्रमना य स्या-दात्मा ध्याता स इष्यते ॥१९९॥

ज्ञानद्यग्रपमचल - मतीन्द्रियमनाकुलम् ।

शाश्वतं शुद्धमात्मानं भावयेयमहं कदा ॥१००॥

मैं तो ज्ञायक हूँ मेरा पर परका मैं भी कभी नहीं।

यों एकाग्र बने तब ही होता है आत्मज्ञान सही ॥

अविकल अचल परालम्बवरहित आत्माको कब पाऊंगा।

शुद्धबोध दर्शनवाला मैं अतीन्द्रिय कहा जाऊंगा ॥५०॥

सारांशः—प्रथम तो कोई भी किसीका हो ही नहीं सकता। सभी पदार्थ अपनी अपनी सत्ताको लिये हुए सदासे भिन्न भिन्न ही हैं। फिर

भी संसारी जीव जिनसे अपना संबंध बनाये रहता है, वह तो उनको अपना कहे, ऐसा कुछ समयके लिए किसी भी तरह माना जा सकता है परन्तु मैंने यह समझ लिया है कि इन संसारके पदार्थोंमें से कोई भी एक मेरा नहीं है और न मैं ही किसी एकका हूँ। ऐसा समझकर जब संसारके लोगोंसे संबंध ही छोड़ रखा है तब मेरा कौन और मैं किसका कहा जा सकता हूँ।

अब भी मैं किसी एकको अपना समझकर उसे ग्रहण करनेका प्रयत्न करूँ तो यह की हुई वमन (उलटी)को चाटनेके समान अत्यन्त वृणित है। महात्माओंकी हृषिमें ही नहीं, इन दीन हीन संसारके लोगों की हृषिमें भी बुरी बात होजाती है। अतः मुझे तो यह सदाके लिए याद रहना चाहिये कि मेरा अब किसीसे भी कोई संबंध नहीं रहा है। अब मैं किसी दूसरेका आश्रय लूँ या उसे याद करूँ तो यह मेरी बड़ी भूल है। औरोंकी तो बात ही क्या? यह शरीर भी मेरा नहीं है, जिसमें मैं अभी रहता हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, और यह जड़ है अतः मेरेसे सर्वथा भिन्न है।

जब यह शरीर ही भिन्न है तब शेष सब पदार्थ तो स्पष्टरूपमें ही मेरेसे भिन्न हैं। यदि इन सबके साथ मेरा कोई संबंध है तो केवल इतना ही है कि ये सब ज्ञेय हैं और मैं इनका ज्ञाता हूँ। फिर भी मैं ऐसा मूर्ख बना हुआ हूँ कि इनमेंसे किसीको अच्छा और किसीको बुरा मानकर उलझनमें पड़ रहा हूँ। वह दिन कब आवेगा जब मैं इस उलझनसे छूटकर तथा अपने उपयोगको निर्मल बनाकर अपने आपको शुद्ध ज्ञान दर्शनमय इन्द्रियातीत रूपसे स्पष्ट अनुभव कर सकूँगा। इन्द्रिय गम्य देहादिक सभी पदार्थ आत्मासे भिन्न और क्षणिक हैं। मेरी आत्मा शाश्वत अमूर्तिक ज्ञानमय है। ऐसा ही आगे बताते हैं—

**देहा वा दविणा वा सुहटुक्खा वाध सत्तुमित्तजणा ।**

**जीवस्स ण संति धुवा धुवोवश्चोगप्पगो अप्पा ॥१०१॥**

**जो एवं जाणित्ता भादि परं अप्पम् विसुद्धप्पा ।**

**सागारोऽणागारो खवेदि सो मोहटुगंठिं ॥१०२॥**

देहं धनं सुखं मित्रं तथा ऽन्यं शत्रुतादिकम् ॥

अग्रुपमेव जीवस्य ज्ञानभावो हि स ग्रुवः ॥१०१॥

एवं ज्ञात्वा विशुद्धात्मा मुनिर्वा गृहि एव वा ।

ध्यायेभः परमात्मानं स मोहाद्रहितो भवेत् ॥१०२॥

देह और धन शत्रु मित्र ये दुख सुख नहीं मेरे हैं ।

मैं तो हूँ उपयोगरूपनिश्चल ये विश्चल धनेरे हैं ॥

यों विश्वासयुक्त होकर जो परमात्माको याद करे ।

यति हो वा गृहस्थ हो वह ही कटपट दुरभिनिवेश हरे ॥५१॥

**सारांशः**—जीवके साथमें रहनेवाला यह देह और देहके निमित्तको पाकर होनेवाले धन, मकान, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, सुख और दुःख इत्यादि सब ही पदार्थ क्षणिक हैं । अपने समय पर नष्ट होनेवाले हैं किन्तु इनको अनुभवमें लानेवाला आत्माराम शाश्वत है, सदा रहनेवाला है । यह किसी भी भवान्तरसे आकर इस शरीरको धारण किये हुए है और इसे भी छोड़कर दूसरा शरीर धारण करेगा । फिर इससे भी दूसरा इसप्रकार यह परम्परा चलती रहेगी जबतक यह आत्मा उपर्युक्त देह तथा धनादिमें अहंकार ममकार करता रहेगा ।

जो लोग अपनी आत्मामें रहनेवाले अहंकार ममकार भावोंका शम और दमके द्वारा अत्यन्त अभाव कर चुके हैं वे सब परमात्मा बन चुके हैं । जन्म और मरणसे रहित होकर शाश्वत सत्य पूर्ण ज्ञानके धारक बन गये हैं । इसप्रकारके विचार द्वारा अपनी आत्मामें विशुद्धता, कोमलताको प्राप्त करनेवाला जीव भले ही गृहत्यागी मुनि हो या गृहस्थ हो वह उस परमात्माका ध्यान करनेसे, उसे अपने हृदयमें स्वीकार करनेसे मोह (मिथ्यादर्शन) का नाश कर सकता है । मोहके नाश करने का एक यही मार्ग है और इसके नाश होजाने पर—

जो णिहंदमोहगंठी रागपदोसे खवीय सामणे ।

होजं समसुहदुक्खो सो सोक्खं अक्खयं लहदि ॥१०३॥

जो खविदमोहकलुसो विसयविरक्तो मणो णिरुभिता ।

समवट्ठिदो सहावे सो अप्पाणे हवदि भादा ॥१०४॥

मोहे नष्टे मुनिभूत्वा रागद्वेषौ च नाशयन् ।  
 समानः सुखदुःखस्यात् स हि शर्मक्षयं श्रयेत् ॥१०३॥  
 दुरभिप्रायहीनोऽपि विहाय विषयान्मनः ।  
 न गोपयेच्चेत्किं ध्याये—च्छुद्धमात्मानमेषकः ॥१०४॥  
 मूढभावसे रहित हुआ फिर साधुपनेको अपनावे ।  
 विरागतासे समसुखदुःखात्मक हो अक्षयपद पावे ॥  
 अमूढ सानव सब विषयोंसे दूर हुआ मनको दोके ।  
 ऐसे शुद्ध बने विलीन वह आत्मभावनामें होके ॥५२॥

**सारांशः**—उपर्युक्त प्रकारसे श्री अरहंत भगवान् पर विश्वास करके मोहका अभाव होकर मनुष्यका मन ठीक होजाने पर शेष वचे अपने रागद्वेषरूप कषायांशको नष्ट करनेके लिये उसे वाह्य विषयोंसे दूर हो जानेकी आवश्यकता होती है । इसलिये वह गृहस्थाश्रमका त्याग करके सांसारिक सुख और दुःखमें समान वुद्धि रखनेवाला मुनि बनकर अपनी वीतरागताके द्वारा वह कभी भी नष्ट न होनेवाले वास्तविक आत्मसमुत्थ अतीन्द्रिय सुखको भी प्राप्त कर लेता है । मतलव यह है कि दुरभिप्रायका नाश करके सम्यग्वृष्टि होजाने पर भी जबतक मुनि न बने तबतक शुद्धात्माका ध्यान नहीं बन सकता है । गृहस्थ दशामें मनुष्यका मन विषयोंमें फँसा रहता है । वह राग द्वेषके रंगमें रँगा रहता है । ऐसी दशामें आत्माको शुद्ध व स्वच्छ कैसे जान सकता है ? रंगीन चश्मेके द्वारा देखने पर श्वेत वस्त्र भी रंगीन ही दिखता है । इसीप्रकार विषयानुरागरंजित चंचल मनके द्वारा निविकल्प आत्माका भान होना भी असंभव होता है ।

**शङ्काः**—नित्य निरंजन सिद्ध समान, मैं हूँ सदा ज्ञानकी खान । मुझमें नहीं राग या रोष, मैं तो हूँ समताका कोष ॥। इत्यादि रूपसे गृहस्थ लोग भी अपनी शुद्धात्माका ध्यान किया करते हैं, सो क्या यह भूठा है ?

**उत्तरः**—अगर उनका उपर्युक्त विचार वर्तमान अवस्थाकी अपेक्षा से है तब तो विलकुल ही भूठा है । पागलके प्रलापकी सदृश है । यदि आत्मद्रव्यकी अपेक्षासे अपने आपको भविष्यत् कालमें सुधारनेके लिए

ऐसा सोचा जाता है तो ठीक ही है। फिर भी यह उनके द्वारा किया हुआ शुद्धात्म ध्यान नहीं कहा जा सकता है। यह तो शुद्धात्मभावना अर्थात् अपने आपके शुद्ध हो सकने पर विश्वास रखते हुए उसके विषय में विचार मात्र होता है। ध्यान तो आत्माके उपयोगका तदनुकूल परिणमन होजाना माना गया है।

इसको समझनेके लिये मानलो कि एक मनुष्यका परम प्यारा पुत्र खोगया। वह सोचता है कि मेरा पुत्र बड़ा हृष्ट पुष्ट था, सुन्दर सुडौल था, बहुत ही समझदार था और आज्ञाकारी था इत्यादि। फिर इसी विचार में तन्मय होकर कुछ देरमें वह कहने लगता है कि यह आगया, आओ भैय्या ! कहाँ चले गये थे ? अर्थात् उसको वही वह दिखने लगता है। उसकी मूर्तिसी बनकर उसके सम्मुख आ खड़ी हुई प्रतीत होती है, इस प्रकारके उपयोगकी एकाग्रताका नाम ध्यान है।

ऐसा ध्यान शुद्धात्माके विषयमें सांसारिक भंझटोंमें फँसे हुए राग द्वेषयुक्त जीवके कभी नहीं हो सकता है। इसप्रकारकी अपने आपमें उपयोगकी एकता हुए बिना, आत्माके अनादिकालसे लगे हुए कर्मोंका बंधन कभी शिथिल नहीं हो सकता है। इस पर कुछ प्रश्न और उत्तर आगे बताये जाते हैं—

**णिहदधणधादिकम्मो पञ्चक्खं सव्वभावतच्चराहू ।**

**णेयंतगदो समणो भादि कमटुं असंदेहो ॥१०५॥**

**सव्वाबाधविजुत्तो समंतसव्वक्खसोक्खणाणडृदो ।**

**भूदो अक्खातीदो भादि अणक्खो परं सोक्खं ॥१०६॥**

अल्पज्ञायोपयोगिस्याद् ध्यानं धातिविनाशिनः ।

तत् सर्वदर्शिनः किन्तु कथं संभवतीति चेत् ॥१०५॥

एतस्योचरमित्येतत् समर्थं परिणामिना ।

अव्यावाधत्वमागच्छ—जिजनराजाऽनुभूयते ॥१०६॥

अल्पज्ञोंके लिए ध्यान हो किन्तु धातिघन नाश किया ।

उनके लिए ध्यान कैसा फिर सब जग लिनने जान लिया ॥

अक्षातीत वोधवाले अरहंत जो कि कहलाते हैं ।  
ग्राप्त हुए स्वाभाविक सुखको निश्चलतासे ध्याते हैं ॥५३॥

**सारांशः—** यहाँ यह शंका होती है कि इसप्रकारके उपयोगकी एकाग्रता छद्मस्थ अल्पज्ञोंके तो नहीं बन सकती है, इनका ज्ञान क्रमिक होता है । परन्तु जिन्होंने चारों धाति कर्मोंका नाश कर दिया है अतः संपूर्ण भूत, भविष्यत और वर्तमानके सब पदार्थोंको जो एक साथ जानते रहते हैं, जिन्हें कोई भी वात जाननेको शेष नहीं है, ऐसे श्री अरहंत परमेष्ठीके भी तो ध्यान माना गया है वह कैसा और किसलिए है ? इस सबका उत्तर इसप्रकार समझना चाहिये—

उपयोगकी एकाग्रता निश्चलताका नाम ध्यान है । उपयोग आत्मा का गुण है । यह आत्मासे अभिन्न रहता है । आत्माकी या उपयोगकी चपलता मन वचन और कायके द्वारा हुआ करती है । श्री अरहंत भगवान्‌के मनके द्वारा होनेवाली चपलता नहीं होती है । वह तो वारहवें गुणस्थानके अंतमें जब केवलज्ञान प्राप्त होता है तब विल्कुल दूर होजाती है किन्तु वाचनिक और कायिक चपलता उनके भी रहती है जिनसे वे उपदेश देते हैं और चलते फिरते हैं । इन दोनों तरहकी चपलताका भी न रहना ध्यान कहलाता है, यह भगवान्‌को करना होता है । इसे स्थूल शब्दोंमें योगनिरोध किन्तु आगमिक शब्दोंमें सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामसे क्रमशः कहा जाता है । इससे भगवान् अव्यावावत्व अर्थात् पूर्ण स्वतंत्रताको प्राप्त करके अरहंतसे सिद्ध बन जाते हैं ।

**शङ्काः—** क्या अरहंत होजाने पर भी भगवान् परतंत्र ही रहते हैं ?

**उत्तरः—** जैनागममें वताया गया है कि जिनके वशमें संसारी आत्मा हो रहा है वे सब कर्म ज्ञानावरणादिके भेदसे आठ प्रकारके हैं । इनमेंसे अरहंत अवस्थामें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय ये चार तो नष्ट होजाते हैं परन्तु ग्रायु, वेदनीय, नाम और गोत्र ये चार कर्म फिर भी शेष रह जाते हैं । इनके वशमें होकर ही उन्हें संसारी बना रहना पड़ता है ।

शङ्का:—फिर अरहंत अवस्थामें अनन्तसुख कैसे कहा गया है क्योंकि सुख तो स्वतंत्रताको ही कहते हैं ?

उत्तरः—हमारे पूज्य आचार्योंने सुखका लक्षण निराकुलता बताया है। अज्ञानके वशमें हुआ संसारी जीव बाह्य पदार्थोंमेंसे किसीको भला और किसीको बुरा मान कर उद्विग्न बना रहता है। उस उद्विग्नता (आकुलता)का श्री वीतराग सर्वज्ञ अरहंत भगवान्‌के सर्वथा अभाव होजाता है। फिर वहाँ सुखके लक्षणमें कोई बाधा नहीं रहती है, वे पूर्ण सुखी हो जाते हैं। उनके वह सुख होनेके बाद फिर कभी नहीं मिटता है इसलिये वह अनन्त सुख कहलाता है। ऐसा माननेमें क्या बाधा है ? यही बात ग्रंथकार पहिले गाथा नं० १०३में बता आये हैं। रागद्वेषका जीतना ही सुखका मूल है और इसीसे मनुष्य पूज्य बनता है—

एवं जिणा जिणिदा सिद्धा मग्गं समुद्दिदा समणा ।

जादा एमोत्थु तेसिं तस्स य णिवाणमग्गस्स ॥१०७॥

तम्हा तह जाणित्ता अप्पाणं जाणगं सभावेण ।

परिवज्जामि ममत्ति उवट्टिदो णिम्ममत्तमिमि ॥१०८॥

जिनास्तीर्थेश्वराः सिद्धाः श्रमणाश्च महाशयाः ।

पथाऽनेनैव संजातास्तस्मै तेभ्योऽथ मे नमः ॥१०७॥

त्यजेयं ममतामस्मान् निर्ममत्वमधिष्ठितः ।

ज्ञात्वा ज्ञायकमात्मानमधुनाऽहं स्वभावतः ॥१०८॥

नमस्कार हो सिद्धि धरोंको जिन जिनेश सिद्धोंको भी ।

तथा समीचीन श्रमणोंको जो कि सिद्धिपदके लोभी ॥


उनका ले आदर्श निर्ममावस्थाको अपनानेसे ।

हो जाऊँगा उऋण नियमसे मैं भवदुःख खजानेसे ॥५४॥

सारांशः—आजतक जितने भी जिन (सामान्य केवली) जिनेश्वर (तीर्थकर केवली) और सिद्ध हुए हैं वे सब एक इसी निर्मल मार्गको अपनानेसे हुए हैं। वर्तमानमें भी जो योगी लोग संसारी गृहस्थोंके द्वारा वास्तविक आदरणीय दिखाई पड़ते हैं वे भी इस निर्ममभावकी कृपाहीसे दिखाई देरहे हैं। अतः उस निर्ममभावको और निर्ममभावके अनुयायियों

को भी नमस्कार करते हुए आदर्श मानकर उसी निर्मममार्गका अनुसरण करनेमें लगा हुआ हूँ और भावना करता हूँ कि अब शीघ्रातिशीघ्र उसे ज्ञायक स्वभाव अपनी शुद्धात्माका अवलम्बन लेकर इस जन्म मरणके चक्करसे पार हो जाऊँ । इसप्रकार पुनः शुभ भावना भाते हुए ग्रंथकार इस ज्ञेयाधिकारको भी पूर्ण करते हैं ।





## चारित्राधिकार

पहिले बताया जा चुका है कि ज्ञान आत्माका अनन्यगुण है परन्तु उस ज्ञानकी सार्थकतां पवित्र आचरणके द्वारा होती है। अतः आचार्य महाराज हरएक ज्ञानी (समझदार) मनुष्यको चारित्र धारण करनेकी प्रेरणा देते हुए उसका बाह्य प्रकार क्या है सो बताते हैं—

**दंसण संसुद्धाणं सम्मरणाणोववोगजुत्ताणम् ।**

**अव्वाबाधरदाणं एमो एमो सिद्धसाहूणम् ॥१॥**

**एवं पणमिय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे ।**

**पडिवज्जदु सामणं जदि इच्छदि दुःखपरिमोक्खं ॥२॥**

सम्यग्दर्शनयुक्तेभ्यो ज्ञानवद्भ्यो नमो नमः ।

सिद्धेभ्यः संयतेभ्यश्चाधितिष्ठद्भ्योऽप्यवाधतां ॥१॥

सिद्धान् जिनाधिपानेवं साधून् नत्वा पुनः पुनः ।

श्रामण्यं भो व्रजेर्भव्य चेदुःखशयमिच्छसि ॥२॥

नमस्कार हो सिद्धोंको भी और साधुओंको मेरा ।

जहां सुदर्शन वोध वृत्त निर्वाधपनेका भी डेरा ॥

सिद्ध और अरहंत साधुको नमस्कार करके सुखदा ।

दुःखशयका इच्छुक हो वह दीक्षा धारण करे मुदा ॥१॥

**सारांशः—**आचार्य महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य अपने दुःखको हूर करना चाहता हो उसे चाहिए कि वह सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और

सम्यग्चारित्रके धारक, सब प्रकारकी वाधाओंसे रहित ऐसे जिनदेवोंमें भी मुख्य कहे जाने वाले सिद्धोंको तथा साधु लोगोंको भी नमस्कार करके चारित्रको धारण करे, अपना आचरण ठीक करे, यही एक दुःख दूर होनेका उपाय है। ऐसा किये विना दुख कभी भी दूर नहीं हो सकता है। अतः चारित्र धारण करनेकी रीति आगे बताते हैं—

अपिच्छ वंधुवर्गं विमोचिदो गुरुकलत्पुत्रेहिं ।  
आसिज्ज णाणदंसणचरित्ततवबीरियायारं ॥३॥  
समणं गणिं गुणडृढं कुलरूपवयोविसिद्धमिदृदरं ।  
समणेहि तं पि पणदो पडिच्छ मं चेदि अणुगहिदो ॥४॥

वंधुवर्गमनुजाप्य त्यक्तः स्त्रीतनयादिभिर्विद्वा ॥३॥  
सम्यग्वरज्ञानचारित्रं तपोवीर्याधिकारिणं गारे ॥४॥  
कुलरूपवयोर्युक्तं श्रमणैरुपसेवितम् ॥५॥  
गुणाढवं गणिनं नत्वा प्रार्थयेष्टमुरीकुरु ॥६॥

वंधुवर्गसे आज्ञा लेकर पिता पुत्र दारादिकसे ।

समुच्छन्न वह साधु शिरोमणि पंचाचार समर्थ वसे ॥

कुलवयरुपविशिष्ट शिष्ट उनके सम्मुख समता धरके ।

करे अनुग्रह करनेको प्रार्थना स्वशीर्ष नमा करके ॥७॥

**सारांशः—** आचार्य महाराज कहते हैं कि जिसको चारित्र धारण करना हो, वह सबसे पहिले जिनके सम्पर्कमें रहकर अपना अवतक का जीवन विताया है, उन वंधुलोगोंसे आज्ञा लेवे कि मैं आप लोगोंके साथ आजतक वडे संतोषपूर्वक रहा, आप लोगोंने मेरे जीवनोपयोगी कार्योंमें सब तरहसे सहायता पहुँचाई और मेरा आदर किया इसके लिए मैं आपका बड़ा आभार मानता हूँ। अब मुझे आप लोगोंसे पृथक् होकर निर्वन्द (शांत) जीवन वितानेकी आवश्यकता प्रतीत हुई है अतः मैं श्रीगुरुके पास जाकर संयमी बनना चाहता हूँ। इस शुभ कार्यके लिए आप सब लोग मुझे सम्मति प्रदान करेंगे, मैं ऐसी आज्ञा करता हूँ।

इसप्रकार नम्रता और भद्रता पूर्वक सब कुदुम्बियोंसे विदा होकर किसी सुधोग्र धर्माचार्यके पास पहुँचे, जो रत्नव्रयका धारक हो, अनशनादि

तप तपनेमें भी कुशर्ल हो, कुल रूप अवस्था और विद्या वगैरहमें भी अधिकार रखता हो, जिसको अन्य साधु लोग अपना बड़ा समझकर उसकी आज्ञामें रहनेको पसन्द कर रहे हों। उससे प्रार्थना करे कि मुझे भी आप अपने चरणोंका सेवक बना लीजिये। अस्तु।

ये दोनों ही नियम, साधक संयमी बननेवाले जीवके लिये सर्वथा अनिवार्य नहीं हैं। समय पर इसमें अनेक अपवाद भी आये हुए हैं। जैसे सुकुमाल कुमार अपनी माता और पत्नी आदिसे बिना कहे ही जाकरके मुनि बन गये थे। जब तीर्थकर दीक्षा लेते हैं तब किसी भी दूसरे साधु को गुरु न बनाकर अपने आपही दीक्षित होजाते हैं। फिर भी सर्व साधारण लोगोंको इन दोनोंही नियमोंका ध्यान रखना परमावश्यक है। ऐसा करनेसे किसीको भी कोई बाधा नहीं पहुंचती है और संयतात्मा सहज गौरवका भाजन बन जाता है। अतः वह संयम धारण करनेवाला मनुष्य गुरुके पास किसतरहसे प्रार्थना करे, यह आगे बता रहे हैं—

एाहं होमि परेसि ए मे परे णत्थि मज्भमिह किंचि ।

इदि णिच्छदो जिदिंदो जादो जधजादरुवधरो ॥५॥

जधजादरुवजादं उप्पाडिदकेसमंसुगं सुद्धं ।

रहिदं हिंसादीदो अप्पडिकम्मं हवदि लिंगं ॥६॥

मुच्छारंभविजुतं जुतं उवजोगजोगसुद्धीहिं ।

लिंगं ए परावेक्खं अपुण्डभवकारणं जेणहं ॥७॥

आदाय तं पि लिंगं गुरुणा परमेण तं णमंसित्ता ।

सोच्चा सवदं किरियं उवट्टिदो होदि सो समणो ॥८॥

नान्ये मे नाहमन्येषां मत्तोऽङ्गं च परं पुनः ।

जितेन्द्रियतयेत्येवं यथाजातपथे रुचिः ॥५॥

हिंसादितोऽतिगं जैनं रूपं कुन्तललुञ्चकम् ।

शुद्धोपयोगयोगाख्यं निरारम्भपरिग्रहम् ॥६॥

परानपेक्षमात्मत्वं साधकं प्राकृतं तथा ।

अपुनर्जन्मनेयुक्तं गुरोरादाय सादरम् ॥७॥

सप्रतिक्रमणं तस्मात् सकलब्रतं संग्रहं ।  
श्रुत्वा कर्म प्रहाणाय आमण्डेभ्युचितो भवेः ॥८॥

इस जगमें मेरा नहिं कोई और न मैं कोईका हूँ ।  
हे भगवन्, यों जितेन्द्रियतया मनसा बननेकी साहू ॥  
यथाजात हिंसादि रहित निर्लाङ्घन कचलुंचनवाली ।  
हो परिग्रहारंभरहित उपयोग योगशुद्धि सम्भाली ॥९॥

परालम्बसे रहित एक जिसमें आत्मोपासन शिक्षा ।  
भवविच्छेदकरी मुझको वह दिला दीजिये जिनदीक्षा ।  
यों गुरुसे विनिवेदनपूर्वक सकलब्रतं संदेश सुने ।  
सच्चासाधु सन्त होकर निज कर्मतूलको क्यों न छुने ॥१०॥

**सारांशः**—इस स्वार्थी संसारमें रहकर भी मैं किसीका नहीं हूँ और न कोई अन्य मेरा ही है । इस प्रकारका विचार भी इस जीवका दो तरहसे होता है । एक तो इन्द्रियविषय भोगाधीन होकर जब यह जीव देखता है कि मेरी मनचाही बात नहीं होती है तब व्याकुल होकर ऐसा विचार करने लगता है कि यह तो सब बुरा है, द्वेषरूप होनेसे पापमय है । दूसरा—जब यह देखता है कि देवोपनीत कल्पबृक्षादिसे सम्प्राप्त इच्छानुसार विषय भोगने पर भी कुछ शांति नहीं मिल रही है । प्रत्युत दिन प्रतिदिन आशा तृष्णा बढ़ती जारही है अतः इनका सेवन मेरी आत्माके लिए हानिकर है, निस्सार है, भूल भरा है । इसप्रकार अपने मन एवं इन्द्रियोंको वशमें करते हुए किया जाता है ।

यह विचार वैराग्ययुक्त होता है । इसीसे गुरुदेव के सम्मुख साधु बननेकी इच्छा प्रकट करना चाहिये । भगवन् ! अब मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा दीजिये जो आरंभ और परिग्रहसे रहित होती है । अतएव यथाजात (तत्काल उत्पन्न हुए वच्चेकी तरह) सरलताको लिये हुए होती है । अपने उपयोग और योग दोनोंको शुद्ध (निर्द्वन्द्व) बनाते हुए समता को उत्पन्न करनेवाली है । हिंसा आदिका सर्वथा अभाव होकर जिसमें वाह्याद्म्बर भी विलकुल नहीं होता है । इस शरीरमें भी निस्पृहताको प्रगट करनेवाला केशलुंचन किया जाता है । जिसमें परावलंवनका नाम-

मात्र भी न होकर अपने भरोसे पर ही खड़ा हुआ जाता है। अतएव जो पुनः शरीर धारण करनेका विच्छेद करनेवाली है।

ऐसा निवेदन करके गुरुके सम्मुख पहिले तो पूर्वमें किये हुए अपने सम्पूर्ण दुष्कृतयोंको स्पष्ट करते हुए उन पर पश्चात्ताप करे, फिर गुरुदेव जो भी आदेश उपदेश करें, कर्तव्य कार्य वतावें उसे ध्यानपूर्वक सुने एवं गुरुजीके आशीर्वाद पूर्वक उसे पालन करनेके लिए हृदप्रतिज्ञ बनना चाहिये। अस्तु। इस साधु दीक्षामें कौन कौनसे कर्तव्य किस प्रकारसे करने पड़ते हैं, यही संक्षेपमें बता रहे हैं—

वदसमिदिंदियरोधो लोचावस्सयमचेलमण्हाणं ।  
खिदिसयणमदंतवणं ठिदिभोयणमेगभत्तं च ॥६॥  
एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णता ।  
तेसु पमत्तो समणो छेदोवट्टावगो होदि ॥१०॥

ब्रतानि समितीरक्षा-निरोधानि च पंचधा ।  
कचलु चनमस्नान-माचेलक्यमिलाशयम् ॥९॥  
अदन्तधावनं स्थित्या भोजनं चैकधा दिने ।  
विद्वयावश्यकपट्कं भो मुने मूलगुणानिमान् ॥१०॥

ब्रतसमितीन्द्रियजय आवश्यक लोच भूशयन पटमुक्ति ।  
अदन्तोन अस्नान एक भोजन दिनमें उत्थित भुक्ति ॥  
जिनवरलीने अठाईस ये मूलगुण कहे हैं भाई ।  
साधु वही होता है जिसके इनमें कमी न होपाई ॥५॥

**शङ्का:**—और तो सभी बातें ठीक हैं परन्तु साधुको विलकुल वस्त्रहीन नग्न ही रहना चाहिए, विनयपूर्वक एक दिनमें एकवार ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, यह भी एक जगह खड़े रहकर ही लेना चाहिए ये तीनों बातें कुछ कम समझमें आती हैं क्योंकि श्वेताम्बर जैन इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं।

**उत्तर:**—यदि अपने वर्तमान साम्प्रदायिक रुढिवादमें पड़करके ही इनको न माना जावे तब तो वात कुछ निराली है। अन्यथा तो उपर्युक्त

तीनों ही वातोंका समर्थन श्वेताम्बर शास्त्रों से भी पूरा पूरा होता है। देखो उमास्वामी विरचित तत्त्वार्थसूत्र महाशास्त्र जिसको हरएक जैन पूर्णरूपसे प्रमाणित मानता है। इसमें वाईस परिषहोंके नामोल्लेखकारक सूत्रमें छठा नग्न परिषह लिखा हुआ है। इसका यह अर्थ है कि वस्त्ररहित नग्न रहकर भी निर्विकार रहना जो कि हरएक मुनिके लिये आवश्यक है।

**शंका:**—आप कहते हो सो ठीक है किन्तु परिषहोंका जीतना तो उत्तरगुणोंमें आता है जो कि हरएक मुनिके लिए आवश्यक नहीं है अपितु अभ्यासरूप होता है।

**उत्तरः**—परिषहजयको यद्यच्छावाद यथाशक्यवाद कहकर मुनिके लिए वस्त्रधारणका समर्थन किया जायगा तब तो स्त्री परिषह न सह सकनेवालेके लिये स्त्री सम्पर्क, चर्या परिषह न सह सकनेवालेके लिए कोई भी प्रकारकी सवारी और पादत्राण (जूते) का विधान, शय्या परिषह न सह सकनेवालेके लिए पलंगकी आवश्यकता आदि सभी प्रकारकी अभद्रता हो जायगी। इन सबको उत्तरगुणोंमें रखनेका तो इतना ही मतलब है कि प्रसंग प्राप्त इन सब वातोंको वाहरमें सहन करते हुए भी अंतरंग परिणामोंमें कभी किसीके चङ्गलता आजाती है।

जैसे किसी मुनिको स्थानान्तरमें जाना आवश्यक है। मारवाड़ देश है, जहाँ मार्गमें बँडूलकी शूल तथा अन्य कंटक (काँटे, भरूँठ) बगैरह सर्वत्र विखरे हुए पड़े हैं, जो पैरोंमें चुभते हैं, उन्हें न सह सकनेसे वह मुनि कराहने भी लग जाता है और चलता रहता है। ऐसी दशामें तो यही कहना चाहिए कि वह चर्या परिषहका विजयी न हो सका। यदि उन कंटकोंसे डरकर वह पैरोंमें जूते पहिनकर चलने लगे तब तो मुनि कहलानेका पात्र ही नहीं रहा क्योंकि उसके अपरिग्रहादि महाव्रतों का भंग होगया। मूलगुण ही नहीं रह पाए। ऐसे ही नग्न परिषहके विषयमें भी समझना चाहिए।

यह वात दूसरी है कि नग्न होकर निर्विकार बने रहना हरएक समझदारके वशकी वात नहीं हो सकती। अतः जो पूर्ण नग्न न रह

सकता हो वह एक वस्त्रादिका धारक होकर थुल्लकादिके रूपमें धर्म-साधन कर सकता है किन्तु वह मुनि नहीं माना जासकता है । यदि कोई भोजेपनसे या और किसी कारणको लेकर उसे गृहत्यागी जानते हुए उपचार मात्रसे मुनि कह रहा हो तो उसका कोई क्या कर सकता है । जैसे कि प्रद्युम्नचरित्रके रचयिता श्री सोमकीर्ति जैसे दिगम्बर जैन आचार्यने भी नारदजीको स्थान स्थान पर मुनि कहकर पुकारा है ।

### मुनि अहोरात्रमें दिनमें एकबार ही भोजन करता है

दिगम्बर शास्त्रोंके अतिरिक्त श्वेताम्बरोंके मान्य ग्रंथ उत्तराध्ययनके सामाचारी नामक छब्बीसवें अध्यायमें लिखा हुआ है—

दिवसस्स चउरो भागे भिक्खूं कुज्जा विपक्षणो ।

तवोउच्चर गुणे कुज्जा दिण भागेसु चउसु वि ॥

पठमं पोरसिसमज्ञायं वीयं ज्ञाणं ज्ञिपायई ।

तइयाये भिक्षायरि यं पुणो चउत्थी ये सज्जायं ॥

अर्थात् ज्ञानी मुनि दिनके चार भाग कर लेवे । इनमेंसे पहिले भागको स्वाध्याय करनेमें, दूसरेको ध्यान करनेमें, तीसरेको भिक्षावृत्तिमें और चौथे भागको फिर स्वाध्याय करनेमें व्यतीत करे । इसप्रकार लिखकर उसके आगे १७ वीं और १८ वीं गाथामें रात्रिके भी चार भाग करके पहिले भागमें स्वाध्याय, दूसरे भागमें ध्यान, तीसरे भागमें निद्रा और चौथे भागमें फिर स्वाध्याय करनेके लिये लिखा हुआ है । दिनरात के आठ पहरोंमेंसे मुनिके लिये केवल दिनका तीसरा पहर बताया है, जिसमें वह भिक्षाके लिए शहरमें भ्रमण करके उसी एक पहर कालके समाप्त होनेसे पहिले भोजन भी कर चुके और पुनः आकर अपने स्वाध्याय स्थानमें स्वाध्याय करनेमें लग जावे । इस सब कथनसे यह स्पष्ट है कि मुनि चौबीस घंटेमें दिनमें एकबार भोजन करे ।

### मुनि एक स्थान पर खड़ा खड़ा ही भोजन लेता है

दिगम्बर जैनाचार्योंके ही नहीं किन्तु श्वेताम्बर मान्य जैनाचार्योंके लिखे हुए इतिहासरूप कथाग्रंथोंमें किसी भी जगह ऐसा स्पष्ट नहीं होता

कि किसी भी जैन मुनिने अनेक घरोंसे थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर कहीं अन्यत्र एक जगह बैठकर खाया हो । प्रत्युत सभी उपाख्यानोंमें ऐसा ही वर्णन मिलता है कि अमुक मुनिने अमुक श्रावकके यहाँ आहार लिया । धन्ना चरितमें लिखा है कि धन्ना मुनि तथा शालिभद्र मुनि भिक्षाके लिए नगरमें जानेकी स्वीकृति प्राप्त करनेको भगवानकी सेवामें गये । भगवानने दोनों मुनियोंको भिक्षाके लिए नगरमें जानेकी स्वीकृति देकर शालिभद्र मुनिसे कहा कि हे शालिभद्र ! आज तेरी माताके हाथसे तुम दोनोंका पारणा होगा । फिर दोनों मुनि सीधे भद्राके हीं पहुँचे लेकिन वह तो भगवानके दर्शन करनेके लिये जानेकी तैयारी कर रही थी अतः वहाँ उन्हें भिक्षा न मिल सकी और यों ही वापिस लौटना पड़ा ।

लौटते हुए दोनों मुनि सोचने लगे कि भगवानके कहे अनुसार भद्रा के यहाँ तो अपनेको भिक्षा नहीं मिली परन्तु भगवानके वचन तो अन्यथा नहीं होने चाहिये । अतः अपन फिर एकवार भद्राके यहाँ और चलें । संभव है कि इस बार भिक्षा मिल जावे । ऐसा सोचकर फिर वे भद्राके यहाँ गये किन्तु इस बार भी उन्हें खाली ही लौटना पड़ा । दोनों हो विचारने लगे कि आहार न मिला तो न सही, अब अपनेको भगवानकी सेवामें उपस्थित होना चाहिये ।

जब दोनों चले जा रहे थे तब उन्हें एक दूध वेचनेवाली वृद्धाने देखा और उसने उनसे श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की कि स्वामिन् ! मेरे पास दूध है । आप कृपाकर ग्रहण करें । दोनों मुनियोंने वृद्धाकी प्रार्थना स्वीकार करके दूधका पारणा किया और फिर भगवान्के पास पहुँचे । जब गृहस्थके यहाँ ही मुनिका पारणा होना स्पष्ट है तब फिर गृहस्थके यहाँ मुनिको नहीं बैठना चाहिये । खड़ा ही रहना चाहिए, ऐसा आजके श्वेताम्बर भाई भी मानते हैं । जब खड़ा खड़ा ही भोजन लेता है तब फिर पात्रकी भी कोई आवश्यकता नहीं रहती है । गृहस्थ उसकी अंजलिमें रखता जाता है और मुनि उसे खाता या पीता रहता है, यही सुशोभन प्रतीत होता है । यही बात जैनशास्त्रों से ही नहीं किन्तु वैदिक साहित्यसे भी स्पष्ट है—

एकाकी निस्पृहः शान्तः कर्मनिर्मूलनक्षमः ।  
कदाहं संभविष्यामि पाणिपात्रो दिग्म्बरः ॥श्री भर्तुहरि॥

मतलब यह है कि करपात्रभोजी नगन दिग्म्बर साधु बने बिना कर्मोंका नाश नहीं किया जासकता है, यह निविवाद सिद्ध है। इसे हर एक ज्ञानीका मन स्वीकार करता है। श्वेताम्बरोंके भी उवाई सूत्रमें प्रश्न २१में बतलाया है कि दिग्म्बरत्वसे मुक्ति प्राप्त होती है। सब कुछ त्यागकर दिग्म्बर साधु हुए बिना तो अधिकसे अधिक यह मनुष्य अच्युत स्वर्गमें जाकर जन्म ले सकता है। ऐसा भी वहाँ प्रश्न नं० वीसवेंमें बताया है। ऐसा ही उत्तराध्ययनमें लिखा है।

याद रहे कि शरीरपरसे वस्त्र उतार देने मात्रका ही नाम दिग्म्बर नहीं है। वस्त्र तो एक पागल भी उतारकर फेंक देता है। वह दिग्म्बर नहीं किन्तु नंगा कहलाता है। वस्त्रोंके साथ साथ संसारके सभी पदार्थोंसे निस्पृह होकर रहना और अपने मानसिक मैल (कषाय भाव) को दूर करके सर्वत्र ही समता भावको स्वीकार करना दिग्म्बरत्व होता है। इसे प्राप्त करनेवाला ही सच्चा साधु होता है और तभी वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

### मुनियोंमें कुछ आवश्यक भेद

लिंगग्गहणे तेसि गुरु त्ति पञ्चज्जदायगो होदि ।

छेदेसूवट्टवगा सेसा णिज्जावगा समणा ॥११॥

पयदम्हि समारद्धे छेदो समणस्स कायचेट्टम्हि ।

जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुव्विया किरिया ॥१२॥

छेदुवजुत्तो समणो समणं ववहारिणं जिणमदम्हि ।

आसेज्जालोचित्ता उवदिट्टं तेण कायव्वं ॥१३॥

अधिवासे व विवासे छेदविहूणो भवीय सामणे ।

समणो विहरदु णिच्चं परिहरमाणो णिबंधाणि ॥१४॥

दीक्षाप्रदायकोऽमीषु गुरुरित्यभिधीयते ।  
 निर्यापिकः स यो दोषं विशेष्य स्थितिकारकः ॥११॥  
 सयत्लं शब्दग्रोऽङ्गस्य व्यापारेण यदुत्थितम् ।  
 प्रतिक्रमण मात्रेण दूषणं तद्विशुद्ध्यति ॥१२॥  
 किन्तु सानसयोगेन यदा संजायते मलं ।  
 गुरोरग्रे निवेद्यास्यच्छेदसम्पत्तिः क्षतिः ॥१३॥  
 ततश्चपल चेतस्को मुनिर्गुरुकुले वसेत् ।  
 निर्दोषरीत्या कर्तव्य-पालकस्तु वसेत् क्वचित् ॥१४॥

इन मुनियोंमें दीक्षा देनेवाला गुरु कहलाता है ।  
 निर्यापक जो दूषितको दण्डितकर ठीक बनाता है ॥  
 यत्तसहित चलते चलते जो कायिक दूषण बन जावे ।  
 समालोचनायुत किया करनेसे ठीक सुधर पावे ॥६॥  
 किन्तु सानसिक दूषणमें गुरुसे विनिवेदन करके ही ।  
 उनके कहे हुएको करनेसे निर्दोष बने देही ॥  
 जो अपने कर्तव्योंका ढंगासे पालन करता हो ।  
 वह मुनि तो गुरुकुलमें अथवा एकाकी भी कहीं रहो ॥७॥

**सारांशः—**मुनियोंमें प्रधान दो तरहके होते हैं । एक तो नूतन दीक्षा देकर असंयमीको संयमी बनानेवाले होते हैं, इन्हें गुरु कहते हैं । दूसरे वे जो सर्व साधारण मुनि किसी कारणवश अपने गुरुके सञ्चिकट न होने पर अपने व्रतोंमें किसी प्रकारकी भूल बन जाने पर जिसके आगे प्रायश्चित लेकर उस भूलको ठीक कर लेता है, इन्हें निर्यापिक वाचार्य कहते हैं । चलते फिरते छब्बस्थ आत्मासे न करना चाहते हुए भी अनेक अपराध बन जाते हैं । जैसे एक मनुष्य बहुत अच्छी तरहसे देखभालकर चल रहा है फिर भी कोई उड़नेवाला जन्तु हटात् आकर उसके शरीरसे टकराकर मर गया । अब उसके मरनेमें उस चलनेवाले मनुष्यकी कोई भूल नहीं है और न उसे मारनेका मनुष्यका विचार ही था फिर भी वह मनुष्य अपने आपको इसमें अपराधी मानता है । वह सोचता है कि हाय हाय वड़ा अनर्थ

होगया। मेरे शरीरसे टकराकर यह जीव मर गया। इस विचारेका जीवन समाप्त होगया इत्यादि।

इसके बदले यदि वह ऐसा विचार करले कि मैं क्या करूँ, मेरी तो कोई भूल नहीं है। मर गया तो अपनी भूलसे मर गया। मैं तो अच्छी तरहसे चल रहा हूँ। ऐसे कहनेका यह अर्थ निकलता है कि यह मनुष्य निर्दय है, यह उसे मारना ही चाहता था। इस प्रकार मानसिक घोर अपराधी प्रमाणित होता है। इसकी परिशुद्धिके लिये भले ही वहाँ इच्छापूर्वक उसका कोई भी योग न हो फिर भी निमित्तरूपमें अपनेको अपराधी मानते हुए उसे पश्चात्ताप करना आवश्यक होजाता है। जिससे उसके चित्तमें पहिलेसे भी कुछ अधिक कोमलता उत्पन्न होसकती है, इससे उसके अपराधकी निवृत्ति हो सकती है।

ऐसे अवसर पर अपने आप भी आलोचना प्रतिक्रमण करके संशोधन किया जासकता है परन्तु अपने मनकी चंचलताके कारणसे जान बूझकर कोई भी भूल करदी गई हो तो उसको गुरुके सम्मुख प्रगट करके उनसे प्रायश्चित्त लिये बिना उसका संशोधन नहीं बन सकता है। मनुष्य अपने कर्तव्यको अपने आप तो करता ही है किन्तु अपने अन्य साथियोंको करते हुए देखकर उससे उसको और भी प्रोत्साहन मिलता है। मनुष्यकी चित्तवृत्ति चंचल होती है। न मालुम किस समयमें मन का किधर ध्रुमाव होजावे। ऐसे अवसर पर गिरते हुए मनको सहारा देकर स्थिर करनेके लिए सहयोगियोंकी आवश्यकता होती है।

इसीलिये अधिकतर आत्मार्थी साधक लोग गुरुकुलमें सत्समागममें ही रहते हैं, ऐसे मुनियोंको अन्तेवासी स्थविरकल्पी मुनि कहा जाता है। जो सुदर्शन (सेठ) मुनिके समान सुहड़ अध्यवसायी होते हैं, जिनको अपने आत्मवल पर पूर्ण भरोसा है, घोरसे घोर उपसर्गादिके आने पर भी जो सुमेरुके समान अविचल रहनेवाले हैं, जिनके आवश्यक कार्योंमें कभी भी किसी प्रकारकी कमी नहीं रहती है, ऐसे महामुनि जहाँ कहीं भी स्वतन्त्ररूपसे विचरण करते हुए रह सकते हैं। इन्हें एकाकी या जिनकल्पी मुनिके नामसे पुकारा जाता है, क्योंकि—

बरदि णिबद्धो णिच्चं समणो णाणमिम दंसणमुहमिम ।  
पयदो मूलगुणेसु य जो सो पडिपुणसामणो ॥१५॥  
भत्ते वा खमणे वा आवसधे वा पुणो विहारे वा ।  
उवधिमिह वा णिबद्ध एच्छदि समणमिह विकधमिह ॥१६॥

आत्मनिप्रणियुक्तिर्य यतो ज्ञानदगात्मनि ।

सैव आमण्यमूलाख्य गुणानामपिनिष्ठितिः ॥१५॥

यथा७७गमविरुद्धेषु प्रवृत्तिश्च्छेदकारिणी ।

योग्येष्वपि किलाहारा-दिषु सा शमदारिणी ॥१६॥

पूर्णरूपसे मूलगुणोंका पालन करता हुआ मुनि ।

परमात्मानुभवनमें रत हो रहे वही हैं धन्य गुणी ॥

अशनकी तरह अनशनमें भी स्थानकी तरह विहारमें ।

विकथा श्रमणोपधिमें भी जो सुधङ् साधु सो नहीं रमें ॥८॥

**सारांशः**—सम्पूर्ण प्रकारकी वाह्य प्रवृत्तिसे दूर होकर ज्ञानदर्शनात्मक आत्मामात्रमें तल्लीन रहना ही वास्तविक श्रमणत्व है। यही मूलगुणोंका यथार्थ पालन है। मूलगुणोंमें प्रधान पाँच महाव्रत हैं अन्य सब तो उन महाव्रतोंको न विगड़नेदेने, उन्हें बनाये रखने और परिवर्द्धित करनेके लिये उन्हींके परिकर स्वरूप हैं। इन महाव्रतोंका स्वरूप श्री तत्त्वार्थसूत्रके “हिंसानृतस्तेयाव्रह्यपरिग्रहेभ्यो विरतिर्वत ॥१॥” इस सूत्रानुसार हिंसा, भूठ, चोरी, कुशोल और परिग्रह इन पांचों पापोंसे सर्वथा दूर रहना माना गया है। ये उपर्युक्त आत्मतल्लीन अवस्थामें पूर्ण रूपसे होते हैं।

आगम विरुद्ध आहार (अभक्ष्य भक्षण) वर्गरहमें प्रवृत्त होना जिसप्रकार पापवंधका कारण है, उसीप्रकार आगमोच्चित योग्य भोजन करने वर्गरहमें लगे रहना भी पापवंधका कारण भले ही न सही, फिर भी त्यागीके सर्वस्वभूत समताभावसे तो दूर करनेवाला ही है। यह प्रादेशिक ममताको लिये हुए होता है। अतः यह लक्षणवृत्तिसे परिग्रह वन जाता है। जहाँ परिग्रह होता है वहाँ धुमाव खाकर हिंसादि पाँचों ही वातें उतने अंशमें आजाती हैं। प्रवृत्यात्मक महाव्रत तो मुनिके लिए

जैनाचार्योंने इस बातको ध्यानमें रखते हुए बतलाये हैं कि मुनिपदका निमित्त कारण छद्मस्थका यह शरीर है। जब यह मुनिपदके योग्य ध्यानाध्ययन करनेमें असमर्थ प्रतीत हो तब इसे शास्त्रोक्त रीतिसे समुचित आहार पान देकर आत्मध्यान करनेके योग्य बना सकते हो।

जब तुम्हें ध्यानादि करनेके लिए बैठना हो तब वहाँ पर जो जीव जन्तु हों उन्हें न सताकर उन पर दयाभाव रखते हुए अपनी पिच्छका से उन्हें आसानीसे दूर हटाकर वहाँ बैठ सकते हो। प्रारंभिक दशामें ध्यानकी सहकारिताके रूपमें यदि कुछ बोलना भी पड़े तो अशुद्ध न बोलकर शुद्ध बोलते हुए अपना कार्य कर सकते हो। शौचादिसे निवृत्त होनेके लिए यदि कहीं जाना पड़े तो ईर्यासमिति पूर्वक गमन करके प्रतिष्ठापना समितिको उपयोगमें लाते हुए शरीर चिन्तासे भी निवृत्त हो सकते हो।

मलोत्सर्ग करनेमें शरीर पर मल लगा हुआ रह जानेसे उसमें जन्तु समागम होकर वह हिंसाका साधन न बन जावे, इसके लिये अप्रासुक तो नहीं किन्तु प्रासुक किये हुए जलसे और दग्ध मृत्तिकासे अपने हाथ धो सकते हो। न मालुम मलादिकका वेग किस समय किस प्रकार होजावे, अतः उसे साफ करनेके लिये धार्मिक स्नेहसे किसी धर्मात्माके द्वारा दिये गये शुद्ध जलको एक काष्ठपात्र (कमण्डलु) में हरसमय अपने पास रख सकते हो। किसी भी स्थानको अपना घर बनाकरके तो नहीं किन्तु ध्यान करनेके लिए जहाँ तुम्हारा चित्त लग सके ऐसे बेरोकटोक गिरि गुहादि शून्य स्थानमें ठहरकर अपना आत्म-चिन्तन आदि कार्य कर सकते हो। इत्यादि रूपसे अपना कर्तव्य समझ लेना चाहिये।

**शङ्का:**—आपने कहा सो तो समझा किन्तु मूलगाथामें महात्माके लिए भोजनकी ही भाँति उपवासको भी बताया सो कुछ समझमें नहीं आता क्योंकि उपवास तो मुनिका जीवन सर्वस्व ही है जो कि समाधिकालमें भी रहता है। जो भोजन भी नहीं करेगा और उपवास भी नहीं तो फिर क्या करेगा?

उच्चरः—तुम्हारा कहना ठीक है परन्तु वात यह है कि भोजन करना जिसप्रकार शरीराश्रित जीवकी क्रिया है उसीप्रकार उपवास करना एवं मुनि दशा भी। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। शरीर को ग्रहण किये हुए रहना ही आत्माके लिये सबसे बड़ा परिग्रह है। उपवास ही करता रहूँ या मुनि ही बना रहूँ, ऐसे सोचनेका भी अर्थ यह हुआ कि मैं शरीरधारी ही बना रहूँ। ऐसा एक आत्मार्थी जीवके लिये कभी संभव नहीं कहा जासकता है।

वह यह अवश्य सोचता है कि अहो ! मैं मुनि बन गया हूँ। मेरे इन परिणमनशील भावोंके द्वारा ऐसा न हो कि मैं वापिस चलायमान होकर गृहस्थपन पर चला जाऊँ। स्वल्प रागीसे तीव्ररागी होकर त्यागीसे भोगी बननेका अवसर देख पाऊँ। मुझे तो अपने परिणामोंको इसप्रकार सँभालकर रखना चाहिये। मेरे परिणामोंमें जो यह धमनिउराग हो रहा है वह भी स्वल्पसे स्वल्पतर और स्वल्पतरसे स्वल्पतम बनते हुए अन्तमें मैं पूर्ण वीतराग बन जाऊँ क्योंकि उसके इस प्रकारके विचारका नाम ही प्रयत्न है, यत्नाचार है। इसके होनेसे उसकी सभी क्रियायें अहिंसात्मक बनती हुई सफल बनती हैं। यत्नशून्य होने पर हिंसारूप ठहरती हैं। यही आगे बता रहे हैं—

अपयत्ता वा चरिया सयणासणठाणचंकमादीसु ।

समणस्स सब्बकाले हिंसा सा संततिय त्ति मदा ॥१७॥

मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छदा हिंसा ।

पयदस्स णत्थि वंधो हिंसामेत्तेण समिदस्स ॥१८॥

यतितातिगतास्थाना — सनसंशयनादिषु ।

प्रदृत्तेश्चेचदाहिंसा—मनुवध्नाति निश्चताम् ॥१७॥

प्रमादचारिणः साधो—म्र्यतांमाथवाऽसुमान् ।

समितिपृच्छितज्जस्य वन्धो नासुहतावपि ॥१८॥

क्योंकि स्थानासनादिमें लग रहना भी तो हिंसा है।

जहाँ कि मुनिका हो ममत्व किर कैसी वहाँ अहिंसा है ॥

मरे जीव या नहीं असंयतभाव रहे तो हिंसा है ।

समितियुक्त यतिपनमें वध होकर भी सदा अहिंसा है ॥६॥

**उच्चालिदमि पाये इरियासमिदस्स णिग्गमत्थाये ।**

**आबाधेज्ज कुलिंग मरिज्ज तं जोगमासेज्ज ॥१६॥**

एहि तस्स तरिणमित्तो वंधो सुहमो वि देसिदोसमये ।

मुच्छापरिग्गहोच्चिव्य अज्भप्पमाणदो दिट्ठो ॥२०॥

अयदाचारो समणो छसु वि य कायेसु वंधगो ति मदो ।

चरदि जदं जदि णिच्चं कमलं व जले णिरुवलेवो ॥२१॥

ईर्यासमितियुक्तेनापि पादे परिचालिते ।

कुन्थु जीव वधोऽवश्यं न वंधो जातु तत् कृतः ॥१९॥

अयताचरणी साधुः पट्टपु कायेषु वंधकृत् ।

यतं यदि चरेन्नित्यं जले कमलवत्तु सः ॥२०॥

ईर्यासमिति सहितका भी जब जिस जमीन पर पैर गया ।

कुन्थु जीव मरते हैं फिर भी वंध न कुछ भी कहा गया ॥

यत्नाचारहीन मुनि ही हिंसक हो वंध लहाता है ।

यति चलकर भी कमलकी तरह जलसे भिन्न कहाता है ॥१०॥

**सारांशः—**‘मनो निग्रहीति, चित्तवियंत्रणा’ मनको अपने वशमें करके रखनेको यत्नाचार कहते हैं । यत्नाचारबृत्तिके न होने पर मनुष्य अपने उठने, बैठने, चलने और शयन करने आदि सभी कार्योंमें हिंसक बनकर पापबंधका करनेवाला होता है और यत्नाचारसे चलकर इन्हीं कार्योंमें प्रवत्त होनेवाला यति पापबंधको कभी भी प्राप्त नहीं होता है । पूर्णरूपसे ईर्यासमितिपूर्वक चलनेवाले मुनिराज भी जब पैर उठाते हैं और रखते हैं तब अवश्य ही वहाँ पर रहनेवाले अनेक सूक्ष्म कुन्थवादि जीवोंका घात होता रहता है । इस बातको वे यतिराज स्वयं भी जानते हैं फिर भी उन्हें हिंसक नहीं कहा जाता है क्योंकि उस जीव हिंसा जन्य बंध उनके बिलकुल भी नहीं होता है ।

ऐसा हमारे आगममें बतलाया है और बुद्धि भी इस बातको मानती है क्योंकि इसप्रकारसे हिंसक बनकर पापी होनेपर तो फिर

कोई भी पापसे बंचित नहीं रह सकता है। बल्कि श्री केवली भगवान् को भी पापका बंध होगा क्योंकि चलते फिरते तो वे भी हैं। उनका वह चलना फिरना किसी भी प्रकारकी मनोवृत्तिको (इच्छा विशेषको) लेकर नहीं होता है, केवल नियोगमात्र होता है। इसीप्रकार जो मुनि मनको मारे हुए होते हैं, उनका शास्त्रानुसार चलना, फिरना, उठना, बैठना वगैरह होते हुए भी कर्मबंधकारक नहीं होता है। जैसे कमलका जलमें रहना भी उसके लिए समार्द्रता विधायक नहीं हुआ करता है।

यदि मन वशमें नहीं है तो फिर भले ही कोई भी जीव उसके चलने फिरने आदि कार्यमें न भी मारा जावे तो भी उसके पापबंध अवश्य होता ही है। क्योंकि बंधका कारण तो और कोई भी न होकर केवल एक मनोमालिन्य है, ममता भाव ही है। जिसको परपदार्थमें जितना अधिक ममत्व होगा उसके उतना ही तीव्र बन्ध होगा और जिसके जितना कम होगा उसके उतना ही कम होगा।

जैसे एक मनुष्य स्वदारसंतोषी है। वह अपनी स्त्रीके साथ सन्तानोत्पत्तिकी इच्छासे हरएक क्रतुकालमें योग्य समय पाकर प्रसंग करता है। इस कार्यमें उसे बार बार बहुत हिस्सा करनी पड़ती है फिर भी वह पापी नहीं है। एक दूसरा मनुष्य जिसके अपनी स्त्री नहीं है और वह स्त्रीप्रसंगका त्यागी नहीं है अंतः परस्त्रीकी तलाशमें फिरता है, तब वडे परिश्रमसे किसी स्त्रीके साथमें संपर्क कर पाता है। यहाँ एक बारके प्रसंगमें यद्यपि उस उपर्युक्त स्वदारसंतोषीकी अपेक्षा जीव-हिस्सा बहुत कम है फिर भी घोर पापका बंध होता है, जिससे नरकमें जाकर भयंकर कष्ट भोगता है।

कर्मबंध तो जितने अंशमें राग होता है उतना उपर्युक्त स्वदारसंतोषीके भी होता है किन्तु वह शुभायुर्नाम गोत्र और सातावेदनीयके रूपमें होकर उसे स्वर्गमें पहुँचा देता है, नरकमें नहीं जाने देता है। परस्त्रीके प्रसंगकी बात तो दूर ही रहे, उसकी तो अधिवासनामात्रसे मनुष्य नरकगामी बन जाता है। मतलब यह है कि कर्मबंधके लिए अन्य प्राणियोंके घातरूप हिसाकी कोई अपेक्षा न होकर परपदार्थके प्रति

होनेवाला इस जीवका मोह ममत्वरूप परिग्रहभाव ही बलवान् है ।  
यही आगे बताते हैं—

हवदि वण हवदि वंधो मदम्हि जीवेऽध कायचेटुम्हि ।  
वंधो धुवमुवधीदो इदि समणा छड़िया सब्बं ॥२२॥  
ए हि पिरवेक्खो चागो ए हवदि भिक्खुस्स आसयविसुद्धी ।  
अविसुद्धस्स य चित्ते कहं ए कम्मक्खओ विहिओ ॥२३॥

मृतेऽपि प्राणिनीत्यत्र शरीरस्य तु चेष्टया ।

वंधो भवेदपि न वा भवेदिति सतां मतिः ॥२१॥

किन्तूपथिस्तु यत्र स्यात् तत्र वंधो निदानतः ।

इति निश्चत्य योगीन्द्राः त्यक्तवन्तः पुराऽखिलं ॥२२॥

वहिस्त्यागं विना चित्त-शुद्धिर्नहि यथोचिता ।

अशुद्धचेतसः कर्म-क्षयवार्ती कुरस्तनी ॥२३॥

तनुसे जहाँ जीव भरता है वहाँ वंध है और न भी ।

किन्तु संगसे वंध नियमसे साधु न रखता संग कभी ॥

वहिस्त्यागके विना चित्तकी शुद्धि न पूरी होपावे ।

कलुषित मनवालेका कर्मक्षय कैसे फिर होजावे ॥११॥

**सारांशः**—पहिले बताया जाचुका है कि हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पांच पापोंसे साधकको बच कर रहना चाहिये । साधारण रूपसे किसीके प्राणोंका धात करना, उसे मारना, पीटना वगैरह हिंसा है । किसीके साथमें धोखेबाजीकी बातें करना भूठ है । किसीकी वस्तुको बलात्कारसे या बहाना बनाकर छीन लेना चोरी है । स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेमभावका नाम कुशील है । दूसरी वस्तुओंको अपनी मान लेना ममत्वभाव है, मोह है, परिग्रह है ।

यह परिग्रहभाव तो जहाँ हिंसादिक होते हैं वहाँ भी होता है और उनके बिना भी होता है । जैसे एक पुत्र अपने पिताकी सम्पत्तिको अपनी सम्पत्ति बताता है, उसके ऐसे कहनेमें हिंसा, भूठ, चोरी और कुशील चारों पाप नहीं हैं परन्तु परिग्रहभाव भी वह है । इसीप्रकार हिंसादिक चारों कार्य भी परिग्रहभावको लिये हुए भी होते हैं और उसके बिना

भी हुआ करते हैं। जब ये चारों ही कार्य यदि परिग्रहभावके बिना होते हैं तब अनर्थकर नहीं, किन्तु परिग्रह भाव से युक्त होने पर अनर्थ करनेवाले होते हैं। जैसे एक स्त्री अपने पुत्रको पुत्रभावसे चूमती है तो अनर्थ नहीं है परन्तु वही यदि उसको पतिभावसे चूमती है तो वह कुशील है, अनर्थ है।

रातदिन खेल ही खेलमें समयको नष्ट करनेवाले बालकके हाथमें से उसके तासके पत्तोंको उसका पिता छीन लेता है तो वह बुरी बात नहीं है, चोरी नहीं है। यदि कोई दूसरा मनुष्य उससे छीनकर कहीं छिपा भी देता है तो चोरी है, खोटी बात है। एक खाँसीका रोगी बाजारमें कच्ची अम्बी (कैरी) आई सुनकर अपने मित्रसे पूछता है कि क्या बाजारमें अम्बियाँ आई हैं? यदि आई हो तो मेरे लिये भी लादो। मैं भी उनका शाक (अचार) खाऊंगा। इसपर मित्र यह सोचकर कि यह खावेगा तो इसकी खाँसी और वडेगी इसलिये कह देता है कि अम्बी बाजारमें नहीं आई है अथवा आई तो थी परन्तु विक चुकी हैं, ऐसा कहना बुरा नहीं है, भूठ नहीं समझा जाता है। यदि वही यह सोचकर कि अम्बियाँ थोड़ी हैं यदि यह मँगा लेवेगा तो फिर मैं उनके बिना रह जाऊंगा या मुझे थोड़ी ही मिल सकेगी तब उसीका यह कहना बुरी बात हो जाती है, भूठ समझी जाती है।

वैद्य किसी रोगीको उसका अजीर्ण दूर करनेके लिए लंघन करवाता है जिससे उस रोगीको कष्ट भी होता है फिर भी वैद्यको पापबंध नहीं होता है। यदि वह वैद्य यह सोच करके कि मैं इसे लंघन करवा कर कमजोर कर दूँगा तो फिर इसे स्वस्थ होनेमें कई दिन लगेगे जिससे मुझे अधिक लाभ होगा। इस आशयसे लंघन करवा रहा है तो वह अवश्य पापी है क्योंकि इसमें उसका परिग्रहभाव बढ़ा हुआ है।

भूठ, चोरों और कुशील ये तीनों कार्य भी हिंसाके ही प्रकार हैं। जहाँ किसी भी अन्य प्राणीको सीधा कष्टमें डाला जाता है उसका नाम हिंसा है। जहाँ वचनके द्वारा किसीको कष्ट पहुँचाया जाता है उस हिंसाका नाम भूठ है। जहाँ कोई भी वस्तुका अपहरण करके दूसरेको कष्ट दिया

जाता है उस हिंसाका नाम चोरी है। जहाँ शीलको विगड़ते हुए किसी दूसरेको कष्टमें डाला जाता है उस हिंसाका नाम कुशील है। जहाँ परपदार्थके प्रति अहंकार ममकार करते हुए जो अपने परिणाम विगड़ते हैं, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं उसका नाम परिग्रह है। इसप्रकार अब दूसरे शब्दोंमें हिंसा तथा परिग्रह ये दो ही परिहार्य अवशिष्ट रह जाते हैं।

**शङ्काः**—जब अपने रागादि भावोंका नाम परिग्रह और दूसरेको कष्टमें डालना हिंसा है, ऐसा कहा जायगा तब हिंसाके, जो द्रव्यहिंसा और भावहिंसा ये दो भेद किये जाते हैं, सो कैसे होंगे?

**उत्तरः**—आपने किसीके थप्पड़ लगाया, जिससे उसके परिणामोंमें क्लेश हुआ यह भावहिंसा हुई और आपके थप्पड़ मारनेसे उसके गाल पर चोट आई, उसका गाल लाल होगया; यह द्रव्य हिंसा हुई। भावप्राणोंका घात होना भावहिंसा है और द्रव्यप्राणोंका घात होना द्रव्यहिंसा है, इसप्रकार स्पष्ट है। अस्तु।

वह हिंसा (जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है) दो प्रकार की होती है। एक तो परिग्रहयुक्त अर्थात् रागद्वेषादि भाव करते हुए इच्छापूर्वक और दूसरी परिग्रहभावके बिना अपने आवश्यक कर्तव्य गमनादिमें अनिच्छापूर्वक। यह हिंसा हो जाती है किन्तु की नहीं जाती है। इससे कर्मबन्ध नहीं होता है परन्तु जो हिंसा इच्छा पूर्वक की जाती है उससे जीवके कर्मबन्ध होता है। इसप्रकार हिंसाके साथ कर्मबन्धका अविनाभाव न होकर परिग्रहके साथमें है। जहाँ परिग्रह होता है, परपदार्थोंमें रागद्वेष भाव होता है वहाँ बन्ध अवश्य होता है। हिंसा हो अथवा न हो। इसप्रकार परिग्रहभावके साथमें बन्धका अविनाभाव जानकर आजतक जितने भी योगी हुए हैं, उन्होंने यत्नपूर्वक परिग्रहका ही त्याग किया है, तभी वे योगी बने थे और आगे बन सकते हैं।

**शङ्काः**—यहाँ रागादि भावोंको परिग्रहमें लिया है परन्तु श्री अमृतचन्द्राचार्यने अपने पुरुषार्थसिद्धचुपाय ग्रंथमें राग द्वेषको वास्तविक हिंसा बताया है, जैसा कि इस आर्यमें लिखा है:—

अप्रादुर्भाविः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।  
तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥

उच्चरः—यदि रागादि भावोंको ही हिंसा कहा जायगा तो फिर तत्वार्थसूत्र नामक महाशास्त्रमें ‘मूर्च्छा परिग्रहः’ ७/१७ इस सूत्रमें अन्य पदार्थके प्रति उत्पन्न होनेवाले रागद्वेष परिणाम को परिग्रह कहा गया है, उसके साथ विरोध आजावेगा तथा ‘प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा’ ७/२३ यह हिंसाका लक्षण बताया है वह भी व्यर्थ ठहरेगा क्योंकि प्रमत्तयोग इन्द्रियाधीन होनेका नाम है । इन्द्रियाधीन होकर किसीके भी प्राणोंको कष्ट पहुँचाना हिंसा है । ऐसा इस सूत्रका अर्थ है ।

जब रागद्वेष मात्रका नाम हिंसा है तब इन्द्रियाधीनरूप राग द्वेष उससे भिन्न कहाँ रह गया, जिसको यहाँ लिया जावे । जब राग द्वेष मात्र ही हिंसा कही गई है तब प्राण व्यपरोपण शब्द भी व्यर्थ ही है परन्तु वात ऐसो है कि अमृतचंद्राचार्यने जो हिंसाकी उपर्युक्त परिभाषा की है वह हिंसादि पांचों पापोंको भिन्न भिन्न न कहकर सबको एक करते हुए की है । तत्वार्थसूत्रकारकी परिभाषामें परिग्रहको ही हिंसा माना गया है क्योंकि वहाँ उन्होंने हिंसाको ही बंधका कारण ठहराया है । प्रवचनसारके कतनी हिंसाको बंधका नियामक कारण नहीं कहकर परिग्रहको बंधका अविनाभावी बताया है तथा उसके त्यागकी प्रेरणा दी है ।

शंकाः—हम लोगोंको तो अमृतचंद्राचार्यका विवेचन ही ठीक प्रतीत होता है क्योंकि रागद्वेषके अभावका नाम धर्म है । जो अहिंसारूप माना जाकर ‘अहिंसा परमो धर्मः’ जैनधर्मका यह प्रसिद्ध घोषणा वाक्य स्थिर रहता है अन्यथा इस प्रवचनसार तथा आपके कहनेमें तो ‘असंग परमो धर्मः’ ऐसा होना चाहिए था ।

उच्चरः—जैनागमका कथन है कि दशम गुणस्थानके अन्त तक रागद्वेषरूप परिग्रहभावका सर्वथा अभाव होजाता है । फिर भी उसके शरीरस्य मांसरुधिरादिमें निरन्तर उत्पन्न होते रहनेवाले निरोदिया जी वोंका निरणि वारहवें गुणस्थानमें होता है । इससे उसके शरीरका

अचित्तरूपमें परिगमन होकर तेरहवें गुणस्थानमें अरहंत अवस्थामें शेष बचे हुए कायिक और वाचनिक योग भी पूर्ण प्रासुक रूपमें सम्पन्न होजाता है।

मतलब यह है कि रागद्वेषरूप परिग्रहका अभाव मात्र परम (परमात्म दशाका) धर्म न होकर वह महत्तम धर्म ही कहा जा सकता है परन्तु पूर्णतया अहिंसकपना परमात्मदशामें ही स्पष्ट होता है अतः परमधर्म कहलाने योग्य तो अहिंसाभाव ही है। चित्तशुद्धिका कारण रागद्वेषरूप परिग्रहका अभाव है। ये राग द्वेष वाह्य पदार्थोंके निमित्तसे होते हैं अतः इनके अभावके लिए धन, मकान वस्त्रादिकका त्याग भी परमावश्यक है। इस पर यह कहा जासकता है कि जिसप्रकार शरीर रहते हुए भी इससे राग रहित होकर रहते हैं वैसे ही वस्त्र पात्रादि आवश्यक वस्तुओंको रखते हुए भी उनसे राग रहित रह सकते हैं, इसमें क्या विरोध है? यह अब आगे बताते हैं—

गेणहदिव चेलखण्डं भायणमत्थिति भणिदमिह सुते ।

जदि सो चत्तालम्बो हवदि कहं वा अणारम्भो ॥२४॥

वथ्यक्खण्डं दुद्विय भायणमण्णं च गेह्नदि व णियदं ।

विज्जदि पाणारम्भो विक्खेवो तस्स चित्तम्मि ॥२५॥

गेह्नइ विधुणइ धोवइ सो सेइ जदं तु आदवे खित्ता ।

पथं च चेलखण्डं विभेदि परदोय पालयदि ॥२६॥

किध तमिह णत्थि मुच्छा आरंभो वा असंजमो तस्स ।

तध परदव्वम्मि रदो कधमण्णाणं पसाधयदि ॥२७॥

यदि सूत्रोदितं वस्त्र पात्रादि ग्रहणं मुनेः ।

वहिरालम्बनत्वेन कुतो नारम्भता पुनः ॥२४॥

यः कोऽपि खलु भूमागे वस्त्रपात्रादि निर्वहेत् ।

चित्तक्षोभकरं प्राण व्यपरोपणमाचरेत् ॥२५॥

रक्षण क्षालनोच्छ्रोष धारणादि च कुर्वतः ।

मनोनाङ्गी करोतीह मूच्छा नास्तीति वस्त्रिणः ॥२६॥

एवमारम्भमूर्छावानसंयमपरायणः ।  
अहो परावलम्बी सोऽप्यात्मासाधकतामटेत् ॥२७॥

वस्त्र पात्रका ग्रहण साधुके सूत्रोदित माना जावे ।  
बहिरालम्बन होनेसे फिर निरारंभ क्यों हो पावे ॥  
यति होकर यदि वस्त्र पात्र कम्बलादिक अपनावेगा ।  
तो प्राण व्यपरोपण करके चित्तक्षोभ बढ़ावेगा ॥१२॥  
धोना और सुखाना धारण रक्षण मांगन आदिकमें ।  
वस्त्रादिकवालेके मूर्छारहितपना दीखे न हमें ॥  
यों आरंभ परिग्रहवाला पुरुष असंयम भाव लिये ।  
आत्मसिद्धि कैसे पासकता पर परिणति जिसके कि हिये ॥१३॥

**सारांशः**—वस्त्र पात्रादि वाह्य वस्तुओंको भी शरीरकी समक्षतामें रखना भारी भूल है । शरीर धारण तो आयुकर्मकी विवशतासे होता है, इसका दूर होना भी आयु अवसानके आधीन है । अतः उसको तो आयु अवसानके पहिले ही नष्ट कर डालने की या उससे भी अधिक समय तक बनाये रखनेकी चेष्टा करना भी मूर्छा होती है । शरीरके अतिरिक्त वस्त्र पात्रादि और सब वाह्य पदार्थोंको तो मनुष्य अपनी इच्छासे ही ग्रहण करता है और आपही उनका त्याग कर सकता है ।

ऐसी दशामें उन्हें धारण करते हुए भी मनुष्य सर्वथा मूर्छारहित रह सके इस बातको किसी भी ज्ञानीका मन कभी स्वीकार नहीं कर सकता है । इनको प्राप्त करके धारण करने, धोने, पोछने, सुखाने तथा बनाये रखने और नष्ट होजाने पर उसकी जगह दूसरा प्राप्त करने आदिमें व्यग्र रह कर स्पष्टरूपसे हिंसा करनेवाला बनकर मनुष्य पापारंभी होता है । ऐसा ही श्वेताम्बर सम्प्रदाय सम्मत आचारांग सूत्रादि ग्रंथोंमें लिखा हुआ है, वह ठीक ही है । फिर भी वस्त्र पात्रादिको मुनिके उपकरण कहकर उनका समर्थन करना एवं आत्मसाधनरूप निर्द्वन्द्व मोक्षमार्गमें उन्हें उपयोगी ठहराना कैसे बन सकता है ? यह हम नहीं जानते हैं । उपकरण तो उसे कहा जा सकता है जो हमारे मूल उद्देश्यमें किसी भी प्रकारसे सहायक हो । यही बताते हैं—

ब्रेदो जेण ण विज्जदि गहणविसग्गेसु सेवमाणस्स ।  
समणो तेणिह वट्टु कालं खेत्ते वियाणिता ॥२८॥  
अप्पडिकुटुं उवधिं अपत्थणिजं असंजदजणेहिं ।  
मुच्छादिजणरहिदं गेगहटु समणो जदि वि अप्पं ॥२९॥

न भूत्वाऽक्षाधीनभावो भूयाच्चित्तविनिग्रहः ।  
उपक्रियेतपि मुनिः कदाचित्तेन वस्तुना ॥२८॥  
यत्पापवर्द्धकं नस्या-दल्पादल्पमथो भवेत् ।  
उपेक्षणीयं भवि भीरक्षणाद्यनपेक्षितम् ॥२९॥  
जिससे संयमका न धात होकर प्रत्युत बढ़वारी हो ।  
ऐसी पिच्छी आदि उपकरण रखना भी अपवाद कहो ।  
हिंसारंभशून्य ममतातिग जो संयमका साधक हो ।  
वही उपकरण साधु योग्य है जो गृहस्थका भोग्य न हो ॥३०॥

**सारांशः**—जो विलासप्रिय भोगी लोगोंके लिये योग्य न हो, जिस पर आराम करनेवाले संसारियोंकी दृष्टि नहीं जाती हो, यदि यत्नपूर्वक इसकी रक्षा नहीं करूँगा तो कोई इसको उठाकर ले जावेगा इसप्रकार की चित्ता जिसके ग्रहण करनेमें न हो, जो इंद्रियोंका पोषक न होकर मनोनिग्रहका समर्थक हो, जिसमें पापकी कोई संभावना न होकर प्रत्युत संयमकी साधना होसके, जो अनायास रूपसे प्राप्त होने योग्य साधारणसी परिस्थितिको लिये हुए हो, ऐसा कमण्डलु आदि मुनिके ग्रहण करनेके योग्य होसकता है । यह भी उपेक्षासंयमकी प्राप्तिसे नीचे केवल अपहृत संयमकी दशामें ग्राह्य कहा गया है ।

पानी रखनेका कमण्डलु काष्ठ या तूम्बीका बना हुआ होता है । यह गृहस्थके कामका नहीं होता है । अतः उसके रखनेमें, उसकी रक्षा करनेके लिये चित्ताकी किंचित् भी आवश्यकता नहीं होती है । उसे ले जाकर कोई क्या करेगा ? कदाचित् उसे भी कोई लेजावे तो जंगल में होनेवाली तूम्बीका और बनाया जा सकता है । इसमें केवल शौचके लिये जल रहता है । यदि उस जलको पीने आदिके काममें लेने लग जावे तो फिर वह उपकरण न रहकर भोग्य बन जाता है । इसीप्रकार

पिच्छिका जो सहज उन्मुक्त मोरके पंखोंकी होती है और जीवजन्तुओं की रक्षा करनेके लिए प्रतिलेखन करनेकी वस्तु है, यदि उसीको पंखा मानकर उससे हवा करना शुरू कर दिया जावे तो उस समय वह भी उपकरण न रहकर भोग्य वस्तु बन जाती है। तब वस्त्र पात्र आदिको उपकरण कैसे कहा जा सकता है? ये तो प्रत्यक्ष शरीरके आरामके लिये ही धारण किये जाते हैं—

**किं किंचण त्ति तककं अपुणव्यवकामिणोध देहे वि ।**

**संग त्ति जिणवरिंदा णिष्पडिकम्तमुहिद्वा ॥३०॥**

**ऐच्छदि एहि इह लोगं परंच समणि ददेसिदो धम्मो ।**

**धम्मम्हि तम्हि कम्मा वियप्पियलिंगमित्थीणम् ॥३१॥**

किमन्वे चेह देहोयमपुनर्भवकामिने ।

जिनै संगतयाख्यातो निर्द्वन्द्वत्वोपदेशकैः ॥३०॥

हेयं स्यात्ख्यातिलाभाद्यमत्रासुत्र स्वरादिकम् ।

यस्मिन्थर्मेऽभ्युपास्येत त्यागो वैराग्यमेव च ॥३१॥

जहाँ देहको स्नेह ही न हो आदरणीय न गाई हो ।

वहाँ कौनसी और वस्तु जिसको सुयोग्य बतलाई हो ॥

जहाँ त्याग वैराग्य भावकी ही हो रही प्रसुखता है ।

तब किर वहाँ सबस्त्र वेश कैसे प्रशस्य हो सकता है ॥१५॥

**सारांशः—** केवल आत्मत्वका उपदेश करनेवाले वीतराग शिरोमणि श्री महावीर स्वामीने बताया है कि जो महानुभाव 'अब मुझे पुनः जन्म धारण न करना पड़े' ऐसी भावना रखता है उसके लिये तो उसका वर्तमान शरीर भी पर पदार्थ है किन्तु इस शरीरको छोड़ देना तो (जैसा कि पहले भी बता आये हैं) अपने वशकी बात नहीं है, आयु बाधीन है। अतः इसके अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थ छोड़ जासकते हैं। इन्हें धारण करके रहना तो योगितासे दूर होकर भोगिताकी कक्षामें ढकेलने वाला ही है।

वस्त्रको गृहस्थ अपने लज्जालुपन आदिके वश होकर अपने अंतरंगमें रहनेवाले कामुकतादि दोपोंको अन्य लोगोंकी दृष्टिसे छिपाकर

रखनेके लिये ही पहिना करता है। जबतक अपने अंतरंगका विकार दूर न होजावे तबतक अपनी मानवताको ध्यानमें रखते हुए मनस्वी जीव वस्त्र धारण किये हुए रहता है और उसे रहना भी चाहिये। स्त्री जीवनमें मायाचारादि दोष नैसर्गिकरूपसे होते हैं अतः वे वस्त्रका त्याग नहीं कर सकती हैं। इसीलिए श्री महावीरके शासनमें स्त्रियोंको अपने उसी शरीरसे सिद्धिकी अधिकारिणी नहीं बताया है। यही अब दिखाते हैं—

णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणादिट्टा ।  
तम्हा तप्पडि रुवं वियप्पियं लिंगमित्थीणम् ॥३२॥  
पयडी पमाद बहुला एतेसिं वित्तिभासियापमदा ।  
तम्हा तावो पमदा पमादमझ्यत्ति णिदिट्टा ॥३३॥  
संति धुवं पमदाणं मोहपदोसा भयं दुर्गं छाय ।  
चित्ते चित्ता माया तम्हा तासिं ण णिव्वाणम् ॥३४॥  
णविणा वटुदि णारी एकं वा तेसु जीव लोयम्मि ।  
णहि सउडं च गतं तम्हा तासिं च संवरणम् ॥३५॥

सिद्धिर्न जन्मना तेन महावीरस्य शासने ।

स्त्रीणामस्ति यथायोग्यं धर्मसाधनमिष्यते ॥३२॥

प्रमाद बहुला यासां प्रवृत्तिः प्रकृतिस्तथा ।

प्रमदेति कृताकोष-कारैराख्याप्यहो यतः ॥३३॥

मृदुतेर्पा तथा भीति-रुज्जामाया च मानसे ।

संभवत्येव नारीणा-मतस्तासां न निर्वृत्तिः ॥३४॥

शरीरमपि नैतासां स्वायत्रं स्थातुमर्हति ।

ततो वस्त्रादिनाच्छ्राद्य जीवनं ध्रियते भुवि ॥३५॥

इसीलिये महिलाओं को उस जन्मसे न सिद्धि कही है।

यथाशक्ति वृषके साधनकी यद्यपि वह भी मान्य मही है।

देखो कि उन्हें कोषकार ही प्रमदा कहे वतलाते हैं।

उनकी वृत्ति कहो प्रमादसे हीन कहाँ हम पाते हैं। ॥१६॥

सूढ़पना ईर्पा भय माया लज्जादिक जिनमें भारी ।

उत्त महिलाओंकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती शिवकारी ॥

नहीं सर्वथा दोषरहित उत्तका जीवन हो सकता है ।

इसीलिए वह सन्तत खुदको वस्त्रादिकसे ढकता है ॥१७॥

वङ्गाः—जब कि आपके कहनेमें लज्जाका होना एक दूषण है तब क्या सभीको निर्लज्ज होजाना चाहिए ? गृहस्थको भी कपड़े खोल कर फेंक देने चाहिये ?

उत्तरः—अपने अजितेन्द्रियपत्नको सभ्योंके सम्मुख कमीके रूपमें अनुभव करना लज्जा कहलाती है । चंचलताको भी चंचलता न कहकर प्रत्युत उसका समर्थन करना निर्लज्जता है किन्तु चंचलताको अपने मन से दूर हटाकर निस्संकोच रहना गुण है । जैसे एक युवकमें भाँग पीनेकी आदत होगई । फिर भी वह अपनी आदतको वृद्ध गुरुजनोंकी दृष्टिमें नहीं आने देता है, उसे बुरी समझकर छिपकरके कभी पी लेता है तो वह सलज्ज है । वही यदि धृष्टतापूर्वक वेरोकटोक सभी के सामने पीने लगे और दूसरोंको भी पीनेकी प्रेरणा करे तो समझो कि निर्लज्ज बन गया । यदि वह पीना ही छोड़दे तो न तो वह निर्लज्ज ही है और न सलज्ज ही, वह तो निर्दोष कहा जाता है ।

इसीप्रकार दस्पति अपने वंधुवर्गके सम्मुख लज्जाके वश होकर परस्पर प्रेमकी बातें नहीं किया करते । ये ही जब एकान्तमें होते हैं तब निर्लज्ज होते हुए आपसमें आलिंगनादि करने लगते हैं । ऐसे ही एक भोला (छोटा) वालक न निर्लज्ज ही कहा जाता है और न सलज्ज ही, वह तो अभी उस विषयमें कुछ जानता ही नहीं है अतः प्रसन्नरूप है । वालकके समान निर्विकार होकर सदा प्रसन्न रहनेवाले पुरुष संयमी बनते हैं । स्त्रियोंके शरीरकी दशा कुछ ऐसी ही होती है कि वे इसतरह निर्विकार होकर नहीं रह सकती हैं । अतः उनके सकलसंयम नहीं बन सकता है । यही आगे बताते हैं—

चित्तसावो तासि सिथिल्लं अत्तवं च पक्खलणं ।

विजदि सहसा तासु च उपादो सहममणवाणम् ॥३६॥

लिङ्गे हिय इत्थीणं थण्ठरे नाहि करवपदेसेसु ।  
 भणिदो सुहमप्पादो तासिं कह संजमो होदि ॥३७॥  
 जदि दंसणेण सुद्धा सुत्तज्जयणे ण चावि संजुत्ता ।  
 घोरं चरदिव चरियं इत्थिस्स ण णिज्जरा भणिदा ॥३८॥  
 तम्हा तं पडिरुवं लिंगं तासिं जिणेहि णिहिटुं ।  
 कुलरुववओजुत्ता समणी ओतस्समाचारा ॥३९॥

चापल्यमपि शैथिल्य-मार्चवस्त्रवणं पुनः ।  
 तथा सूक्ष्ममनुष्याणा—मुत्पादोऽपि मुहुर्मुहुः ॥३६॥  
 गुहदेशे स्तने नाभौ कक्षायामपि योषिताम् ।  
 सूक्ष्मजीव समुत्पादः तासां स्यात् संयमः कुतः ॥३७॥  
 एकादशाङ्गशास्त्राणां ज्ञानमाप्त्वा सुदर्शनम् ।  
 घोरं तपोऽपि कुर्वन्ती कर्मणां न क्षयं ब्रजेत् ॥३८॥  
 कुलरुपवयोयुक्ताऽपि सती द्विजनुष्करम् ।  
 समाचारमुरीकुर्या — देकशाटक धारिणी ॥३९॥

चित्तचपलता गात्रशिथिलता आर्तवरज स्त्रवण जिनके ।  
 योनि आदिमें सूक्ष्म डिम्भ उत्पत्ति हुआ करती उनके ॥  
 गुह्य जगह कुचदेश नाभिमें अथवा जिनकी कांखोंमें ।  
 कीट जन्तु उत्पत्ति सदा फिर क्या संयम महिलाओंमें ॥१८॥  
 सम्यग्दर्शन एकादशाङ्गबोध घोरउपवासादी ।  
 कर सकती है किन्तु पूर्ण निर्जरा न वह रतिकीगादी ॥  
 इसीलिये वनिताके बारे में ऐसा जिन शासन है ।  
 कुलरुपावस्थायुतभी वह एकाम्बर धारिणी रहे ॥१९॥

**शङ्का:**—सुना जाता है कि श्वेताम्बर शास्त्रोंमें स्त्रीके लिए उसी शरीरसे मुक्तिका विधान पाया जाता है, यह कहाँ तक ठीक है ?

**उत्तरः**—श्वेताम्बर सम्प्रदाय मान्य उवाई सूत्रमें सूत्र नं० १२ पृ. २०५में लिखा हुआ है कि स्त्रीके वज्रवृषभनाराच संहनन नहीं होता है । वज्रवृषभनाराचसंहननधारी पुरुष ही मोक्ष पासकता है । श्वेताम्बरोंके

ही विमलसूरी रचित पउमचरियमें पर्व ७७ में श्रेणिक राजासे गोतम गणधरके प्रति प्रश्न करवाया गया है कि हे प्रभो ! तपस्या करके भी नारी कौनसी गतिको प्राप्त कर सकती है ? इस पर उत्तर मिलता है कि सीता जैसी धोरसे धोर तप करनेवाली स्त्री भी अपने उस पुण्यसे स्वर्गमें जासकती है, आगे नहीं ।

अण्णंपि सुणसु सामिय ! जाहर्वै पङ्ख्या इहं णारी ।  
सा सील संजमरया साहुसु कवणं गई लहड ॥  
तो भण्डै इवं भूई जा दढसीला पङ्ख्या महिला ।  
सीया य हवयि सरिसी सा सगं लहड़े सुक्यतथा ॥

इन्हींके आगम ग्रंथोंमें स्त्रीके अधिकसे अधिक ग्यारह अंगका ज्ञान होना लिखा हुआ है । ऐसा ही दिग्म्बर सम्प्रदायमें एवं सर्व सम्मान्य तत्त्वार्थसूत्र महाशास्त्रमें लिखा हुआ है कि विना पूर्वज्ञानके शुक्लध्यान नहीं हो सकता है और शुक्लध्यानके विना मुक्ति नहीं होती है, यह अटल नियम है । यह बात दूसरी है कि श्वेताम्बर सम्प्रदायके कथादि ग्रंथोंमें कहीं कहीं और तरहसे भी कथन पाया जाता है परन्तु ज्ञानीको ठीक आगमानुकूल अर्थ ही समझना चाहिये । मूलभूत आगमदृष्टि रखने से श्वेताम्बर सम्प्रदायमें भी दिग्म्बराम्नाय जैसा विधान पाया जाता है । कोई भेद नहीं है । अस्तु । राजमार्गसे कर्मक्षय करनेका अधिकारी कौन होसकता है ? ऐसा आगे बताते हैं—

वरणेषु तीमु एकको कल्लाणं गोतबोसहोवयसा ।  
मुमुहो गुञ्जा रहिदो लिङ्गमग्नहणे हवदि जोग्गो ॥४०॥  
जो र्यणत्यणासो सो भङ्गो जिणवरेहिं णिदिद्वो ।  
सेसं भंगेण पुणो ण होदि सल्लेहणा अरिहो ॥४१॥

त्रैवर्णिको द्वाङ्गो यो वयस्यापि समन्वितः ।

बृणाहीनः प्रसन्नास्यो लिङ्गमादातुमर्हति ॥४०॥

बृणादौ दोपयुक्तो नरोप्येत्यपवादिताम् ।

रत्नव्रयं निष्चयाख्यं न कदापि समर्हति ॥४१॥

तीनों वर्णोंका साज्जव ही जो कि अविकलाङ्गी होवे ।  
गलानिरहित वह जिनलिंगी होकर निजकर्म धूलि धोवे ॥  
बृषणादिमें दोषयुत नर भी अपवादी हो रहता है ।  
निश्चय रत्नत्रय न उसे भी जिनशासन यों कहता है ॥२०॥

**सारांशः**—उपादानरूपमें यह जीव यद्यपि अपने आत्मबलसे ही उन्नतिपथको अपनाकर समुन्नत बनता है । फिर भी निमित्तरूपमें अनिवार्य ऐसी और भी अनेक बातोंकी आवश्यकता होती है जिनके बिना साधक दशामें उन्नति करना चाहते हुए भी यथेष्ट उन्नति नहीं कर सकता है । जैसे उत्तम संहननके बिना तथा समीचीन नर पर्यायके बिना भी शुक्लध्यान नहीं बन सकता है । ऐसे ही यथाजातरूपादि अवस्था धारण किये बिना भी काम नहीं चल सकता है । यही आगे बताते हैं—

उवयरणं जिणमग्गे लिंगं जहजादरूवमिदि भणिदं ।  
गुरुवयणं पि य विणओ सुत्तज्भयणं च णिदिद्वं ॥४२॥  
इहलोगणिरावेक्खो अप्पडिबद्धो परम्मि लोयम्हि ।  
जुत्ताहारविहारो रहिदकसाओ हवे समणो ॥४३॥

वस्तुतयोपकरणं जातरूपत्वमेव तत् ।  
गुर्वाङ्गा विनयः स्त्राध्ययनं यतितां प्रति ॥४२॥  
नात्र यः ख्यातिलाभस्यामुत्र भोगस्य वांछकः ।  
उचिताहार संचारो निष्कपायो यतिर्भवेत् ॥४३॥

शिवपथमें उपयोगी यथाजातपन गुरुवचन श्रद्धा ।  
आगमपठन विनययुत होकर जिसमें कुछ भी नहिं विपदा ॥  
यहाँ ख्यातिलाभादि न चाहे वहाँ न भोगेच्छुक होवे ।  
योग्याहारविहार करे यति निज कषायमलको धोवे ॥२१॥

**शङ्का:**—आपके कहनेमें वस्त्राभूषणोंसे मुनिपनेमें दोष आता है तो फिर ध्यानस्थ पाण्डवोंको उष्ण लोहके आभूषण पहिना दिये गये थे, उस समयमें वे मुनि कैसे रहे थे ? वे तो मुनि ही नहीं किन्तु महान् योगी थे क्योंकि उन आभूषणोंको पहिने हुए भी उनके प्रति उनका किंचित् भी रागद्वेष भाव नहीं था । इसीप्रकार वस्त्रादि पहिनकर भी अपने भावोंमें

उनसे रागद्वेष नहीं रखनेवाला और भी कोई मुनि हो सकता है और कर्मोंका नाश करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है, इसमें क्या वाधा है ?

**उत्तरः—**पाण्डवोंके शरीरों पर पहिनाये हुए उष्ण लोहमय कटक वगैरहको आभूषण कहना ही बड़ी भारी भूल है । वह तो घोर उपसर्ग था । जिसे शांतिपूर्वक सहन करना प्रत्येक साधकका परम कर्तव्य माना गया है । आभूषण तो वे होते हैं जो प्रेमपूर्वक अपने शरीरको अलंकृत करनेके लिए स्वयं धारण किये जाते हैं अतः परिग्रहरूप होते हैं । एक वलात् अनिवार्यरूपसे आई हुई वातके साथमें, स्वेच्छापूर्वक की जानेवाली वातका समन्वय करना तो रात और दिनको एक कक्षामें रखना हो जाता है ।

स्वदारसंतोषी श्री सुदर्शन सेठको दासी द्वारा मंगवाकर अभया रानीने उनके ध्यानस्थ शरीरसे आलिंगन आदि अनेक कुचेष्टायें कीं । ऐसी दशामें इन कुचेष्टाओंको सुदर्शनके लिए वताकर एक परस्त्रीलम्पट व्यभिचारीको निष्पाप ठहरानेका बड़ाभारी दुःसाहस है । वास्तवमें देखा जावे तो न तो किसीसे दूर भागना ही निष्परिग्रहता कही जा सकती है और न किसीको पकड़े रहना ही क्योंकि परिग्रह तो आत्मेतर पदार्थोंमें इष्टानिष्ट कल्पनाका नाम है ।

संसारी जीव संसारके पदार्थोंमेंसे किसीको तो दूरा जानकर उससे दूर भागनेकी चेष्टा करता है और किसीको अच्छा मानकर उसे पकड़े रहने की । इस रागद्वेषभावका नाम ही परिग्रह है । जैसे एक मनुष्य शीतकालमें तो वस्त्रोंको बड़े प्रेमसे पहिने रहता है और जब उष्णकाल आजाता है तब उन्हें दुरे ( असुहावने ) जानकर उनको दूर करनेकी भावना करता है । वह तो दोनोंही दशाओंमें परिग्रहवान है । यदि गर्मी से घवराकर उन्हें उतारकर फेंकदे और नंगा होजाय तब तो वह घोर परिग्रहवान् समझा जाता है क्योंकि उसके उन कपड़ोंसे द्वेषकी मात्रा और मनकी चपलता अत्यधिक होजाती है ।

नरकोंमें नारकियोंके पास कौनसा परिग्रह है ? क्या उनका वहाँ पर कोई भी भाई बंधु है या धन सम्पत्ति मकान वगैरह है ? कुछ भी नहीं है । फिर भी वे लोग उस नरक स्थानसे तथा वहाँ पर रहनेवाले अन्य नारकी लोगोंसे दूर रहना चाहते हैं । इतना ही नहीं किन्तु अपने उस शरीरको भी घोर कष्टदायक समझकर उससे भी मुक्ति चाहते हैं । उनका यह द्वेषभावही उनके लिए महा परिग्रह है परन्तु छद्मस्थ आत्मा ने जिन स्त्री, पुत्र, धन, मकान, आभूषण, वस्त्र आदि को अपने लिए लाभप्रद समझकर धारणकर रखे हैं, इनमें अपनापन न होने पर इनसे मुक्त होजाना सरल कार्य है । इनको धारण करनेवालेको सर्वथा निष्परिग्रही बताकर उसे इस दशामें भी मुक्तिका अधिकारी बताना भारी भूल है । अस्तु । आगे योग्य आहार विहार कैसा होता है ? यह बताते हैं—

**जस्स अणेसणमप्या तं पि तवो तप्पडिच्छगा समणा ।**

**अणणं भिक्खुमणेसणमध ते समणा अणाहारा ॥४४॥**

**कोहदिएहि चउविहि विकहाहि तहिंदियाणमत्थेहि ।**

**समणो हवदि पमतो उवजुतो एहणिद्वाहिं ॥४५॥**

**केवलदेहो समणो देहे ए ममत्ति रहिदपरिकम्मो ।**

**आजुतो तं तवसा अणिगृहिय अप्पणो सत्ति ॥४६॥**

अनेषणं चाविहारमात्मानमभिवांछतः ।

शुद्धैषणासमीर्या च युक्तास्यादप्रमादिनः ॥४४॥

रतो राज्यादि वार्तासु कोपादिपरिणामवान् ।

स्नेहवान्योऽथ निद्रालुः सोऽलसोऽक्षैर्निर्पीडितः ॥४५॥

यथाशक्ति तपः कुर्वन् देहेऽपि ममतातिगः ।

समत्वं शक्तुमित्रादावुद्धन् साधुरिष्यते ॥४६॥

लक्ष्य अनेषणतापर रखकर शुद्ध एषणा किया करे ।

सातिशयाप्रमत्तपनके पानेको अनशनभाव धरे ॥

ऐसेही विहार आदिकमें अविहारी आदिक पनको ।

अनुशीलन करनेवाला यति पा लेता है निज धनको ॥२२॥

कोपादिकमें विकथाओंमें इन्द्रिय विषयोंमें रत हो ।  
 स्नेह और निद्राके वश जो साधु उसे आलसी कहो ॥  
 देहमात्र परिवारी होकर यथाशक्ति तपनिरत रहे ।  
 शुद्धिमित्रमें तुल्य साधु हो नहीं कही ममकार गहे ॥२३॥

**सारांशः—**आहारादिमें प्रवृत्त साधु उस समय तो उस कार्यमें स्नेहयुक्त होनेके कारण प्रमत्त ही होता है । फिर भी उसका वह आहारादिका ग्रहण करना आत्मध्यानकी संपत्तिको लक्ष्यमें रखकर किया जाता है । अतः कारणमें कार्यका उपचार मानकर भविष्यतकी अपेक्षा से उस समय भी वह अप्रमत्त कहा जाता है । यदि शरीरेन्द्रिय सम्पोषणके लिए ही भोजनादि करता है तब तो वह साधु नहीं है किंतु स्वादु है । अतः साधुको युक्ताहार विहारी होना चाहिए । युक्ताहार कैसा होता है ? यह आगे बताते हैं—

एकं स्वर्णं तं भर्तं अप्पडिपुण्डोदरं जहालद्वं ।  
 चरणं भिक्खेण दिवा ए रसावेक्खं ए मधुमंसं ॥४७॥  
 पक्केसु व आमेसु व विपच्चमाणासु मंसपेसीसु ।  
 संततियमुववादो तज्जादीणं णिगोदाणम् ॥४८॥  
 जो पक्कमपक्कं वा पेसीमंसस्सखादिफासदि वा ।  
 सो किल णिहणदि पिंडं जीवाण मेणग्गकोटीणम् ॥४९॥  
 वालो वा बुड्ढो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा ।  
 चरियं चरदु सजोग्गं मूलच्छेदो जधा ए हवदि ॥५०॥

मधुमांसं मधीनं दिनेऽत्तु महीमेकदा ।  
 भिक्षयात्तं यथालव्यं साधुना नीरसं पुनः ॥४७॥  
 पक्वे वा ५५मे पच्यमाने भृशमुत्पच्चिरिष्यते ।  
 मांसखण्डे किलाभिज्ञस्तज्जाति तनुधारिणाम् ॥४८॥  
 अति पक्वमपक्वं वा ५५मिषं स्पृशति चापि यः ।  
 अनेककोटि जीवानां हन्ता भवति स ध्रुवम् ॥४९॥

वालो वृद्धः श्रमात्तेवा रुणो वापि च यो मुनिः ॥  
 मूलच्छेदो यथा न स्यात् तथा चर्या समाचरेत् ॥५०॥  
 मद्य मांस आदिक विहीन नीरस दिनमें एक ही दफा ।  
 अल्परूप मुनिका भोजन भिक्षोचित हों यों कहा सका ।  
 कच्चे पक्के पच्चमान पलमें भी हे बुध याद रहो ।  
 उसी जातिके निगोदिया जीवोंका सन्तत जन्म अहो ॥२४॥  
 यों बहुजीवोंकी हिंसासे वह तो नहीं अछूता है ।  
 हर हालतमें पलपेशी जो खाता है या छूता है ॥  
 वाल वृद्ध वा रुण खिन्न मुनि जैसा अपनेसे होवे ।  
 बैसा करे आचरण फिर भी मूलको न विलकुल खोवे ॥२५॥

**सारांशः**—मुनिको चाहिए कि स्वयं न बनाकर तथा न किसी दूसरेसे भी बनवाकर, विना याचना किये, भिक्षावृत्तिसे जैसा भी अपने अन्तराय कर्मके क्षयोपशमानुसार मिल जावे, वह भी जो मद्य मांसादि दोषोंसे सर्वथा रहित शुद्ध हो, ऐसे अन्नका आहार दिनमें एकबार कर लेवे । वह भी पूरा पेट भरकर न खावे तथा स्वादके लालचसे न खावें क्योंकि मुनिके भोजन करनेका हेतु केवल ध्यानसिद्धि ही रहता है । वह ध्यान जिह्वालम्पटतासे बारबार या एकही बारमें भी खूब ठूसकर खानेवाले, इन्द्रियाधीन, आलसी जीवसे कभी नहीं बन सकता है ।

याद रहे कि भिक्षाका वास्तविक अर्थ है, दाताके द्वारा दीर्घ वस्तुको ग्रहण करना । न कि किसीसे मांगना क्योंकि मांगना तो याचना शब्दका अर्थ होता है जो उससे भिन्न है । जैसे प्रसिद्ध कहावत है कि— माँगनेसे तो भीख भी नहीं मिलती है अर्थात् मांगना तो भिक्षुको दूषित करनेवाला है ।

बहुत दिन पहिलेकी बात है शीतकालका समय था अतः किसी धर्मात्मा वहिनजीने मेरे पास बैठे हुए एक नैषिक ब्रह्मचारीसे कहा कि बाबाजी ! सर्दी पड़ रही है । यदि आपको वस्त्रकी आवश्यकता हो तो मैं ला देऊँ । उस ब्रह्मचारीने उत्तरमें कहा कि वहिनजी ! मुझे इस समय कोई आवश्यकता नहीं है । मेरे पास तो मेरे योग्य वस्त्रादि सब हैं । इतनेमें ही वहीं बैठा हुआ एक दूसरा ब्रह्मचारी बोला कि—

वहिनजी ! मुझे चाहिए, मेरे लिये ला दो । यह सुनते ही वहिनजीका उपयोग बदल गया । उन्होंने सोचा कि यह कोई लालची (संग्राहक) ब्रह्मचारी हो सकता है । अतः बहाना बनाकर बोली कि—अच्छी बात है, बुननेको दिया हुआ है सो आने पर देखूँगी मतलब यह है कि आरंभ परिग्रहवाला गृहस्थ अपने सम्मुख उपस्थित हुए व्यक्तिके गुणोंसे प्रसन्न होकर या दयाभावके द्वारा स्वयं प्रेरित होकर मैं इसे देऊंगा तो मेरी कठिन कमाईके इस संविभागांशका सद्व्युपयोग होगा । ऐसा सोचकर भिक्षा देता है । भिक्षा देना गृहस्थका कर्तव्य है और यथाभाग्य प्राप्त हुई भिक्षा से निर्वाहि करना आरंभत्यागीका तथा अनाथका कर्तव्य है किन्तु मांगना एवं सामनेवाले व्यक्तिके तथा अपने आपके भी संकलेशका साधन होना तो नीचता है, पापवृत्ति है । अस्तु ।

हमारे यहाँ विधेय मार्ग दो तरहके बतलाये गये हैं । एक आम (साधारण) दूसरा सामयिक विशेष । ये दोनों किसप्रकार अविरोधरूप से काममें लिए जाते हैं, यह अब बताते हैं—

आहारे व विहारे देसं कालं समं खमं उवधिं ।  
जाणित्ता ते समणो वदृदि जदि अप्पलेवी सो ॥५१॥  
एयगदो समणो एयगं णिञ्चिदस्स अत्थेषु ।  
णिञ्चित्ती आगमदो आगमचेटा तदो जेटा ॥५२॥

देशं कालं श्रमं स्वस्य क्षमतामुपधिं तथा ।  
विहाराहारयोज्ञत्वा वर्तते सोऽल्पदोपवान् ॥५१॥  
मुनिरेकाग्रतामाप्त एकाग्र्यं निश्चितार्थिनः ।  
आगमान्निश्चयोऽर्थस्य सर्वश्रेष्ठ किलागमः ॥५२॥

देशकालको लेकर तनु बल या थकानके विचारसे ।  
समुचित चर्या करनेवाला लिप पावेगा न पापसे ॥  
स्थिरमनवाला यति हो स्थिरता निश्चितार्थके होती है ।  
निश्चय आगमसे अर्थोंका यों आगमही ज्योती है ॥२६॥

**सारांशः—** भगवान् महावीरके अनेकान्तात्मक शासनमें हर प्रसंगके विषयमें दो प्रकारका विधान है। एक तो प्रवेशेच्छु या अल्पशक्तिक लोगोंके द्वारा आचरण करने योग्य सुकोमल। दूसरा दक्षताको प्राप्त हुए शक्तिशाली महापुरुषोंके द्वारा अपनाने योग्य कठिन। जैसे ध्यान करनेके विषयमें कहीं तो लिखा हुआ है कि सिंह, व्याघ्र, रीछ वगैरहसे व्याप्त, निर्जन, भयंकर बनमें बैठकर ध्यान करना चाहिये और कहीं लिखा हुआ है कि जहाँ न तो अधिक ठंड हो, न अधिक गर्मी, न डांस मच्छरादिका ही अधिक संचार हो, ऐसे सुहावने एकान्त चैत्यालय आदिमें बैठकर ध्यान करे।

जो सहिष्णु है वह भी यदि सरलमार्ग पर ही लगा रहे तो सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? किन्तु यदि साधारण साधक भी उसीकी बराबरी करने लगे तो वह ऋषभदेवकी बराबरी करना चाहने वाले कच्छादिकी तरह पथभ्रष्ट ही हो जावे। अतः ज्ञानीको चाहिए कि अपने देश काल और शरीरकी स्थितिको सँभालते हुए जैसा अपनेसे बन सके वैसा आचरण करे। अपने मनको स्थिर बनानेकी चेष्टा करे। ‘अपनेसे बन सके’ इसका यह अर्थ नहीं है कि आगमको भूलकर मनुष्य स्वेच्छाचारी बन जावे। आगमके आदेशको तो हर ग्रवस्थामें अपने सम्मुख रखकर ही चलना चाहिये क्योंकि पथप्रदर्शक तो आगम ही होता है। यही आगे बताते हैं—

**आगमहीणो समणो ऐवप्पाणं परं वियाणादि ।**

**अविजाणंतो अट्टे खवेदि कम्माणि किध भिकखू ॥५३॥**

**आगमचकखू साहू इंदियचकखूणि सव्वभूदाणि ।**

**देवा य ओहिचकखू सिद्धा पुण सव्वदो चकखु ॥५४॥**

आत्मानं च परं कस्मात् पश्येदागमतोऽतिंगः ।

येन कर्मक्षयं कुत्वा भिन्नरानन्दमाश्रयेत् ॥५३॥

आगमो हि यतेश्चक्षुः चर्मचक्षु शरीरिणाम् ।

देवानामवधिश्चक्षुः परमात्माभितोऽभिमान् ॥५४॥

आगमविना स्वपरका निर्णय कभी नहीं होने पावे ।  
आगमावहेलक नर किर क्यों निजातन्द पद अपनावे ॥  
क्योंकि नयन है शास्त्र साधुका कैसे इन्द्रिय लोगोंका ।  
अवधि देवताओंका जैसे सकल वोध शिव भोगोंका ॥२७॥

सब्बे आगमसिद्धा अत्था गुणपञ्जएहिं चित्तोहिं ।  
जाएंति आगमेण हि पेच्छित्ता ते वि ते समणा ॥५४॥  
आगमपुव्वा दिट्ठी ए भवदि जस्सेह संजमो तस्स ।  
एत्थीदि भणदि सुत्तं असंजदो होहि किध समणो ॥५५॥

अनेकगुणपर्याय—युक्ता जीवादयो हमी ।  
आगमेन प्रसिद्धयन्ति तान्त्रि जानन्तु साधवः ॥५५॥  
यस्यागमातिगा दृष्टिस्तस्य संयमिता कुतः ।  
असंयतस्य साधुत्वं नैव भवितुमर्हति ॥५६॥  
नाना गुण पर्यवाले जीवादि पदार्थोंको जाने ।  
आगमके द्वारा ही मुनिजन और भाँति कैसे माने ॥  
यदि न आगमानुकूल चर्चा तो किर कैसा संयम भी ।  
संयमके अभावमें जगमें साधुपना हो नहीं कभी ॥५८॥

**सारांशः**—आगमपूर्वक तत्वार्थश्रद्धानके साथ साथ ही संयतपना होता है और संयतपना होनेसे ही सफलता मिलती है । इन तीनोंमेंसे यदि एक भी न हो तो कार्य नहीं वन सकता है । यही आगे वता रहे हैं—

एहि आगमेण सिजभादि सद्हरणं जदि वि एत्थि अत्थेषु ।  
सद्हरमाणो अत्थे असंजदो वा ए णिव्वादि ॥५७॥  
जं अणाणी कर्म खवेदि भवसयसहस्रकोडीहिं ।  
तं णाणी तिहिं गुत्तो खवेदि उस्सासमेत्तेण ॥५८॥

शुक्रपाठेन को लाभः श्रद्धानेन च केवलम् ।  
सितास्ति मधुरेत्येवं मुखं सुस्वादु किं भवेत् ॥५७॥  
वज्ञानतपसा कोटि-जन्मनापि न सिद्धयति ।  
त्रिगुसिगुणतो ज्ञानी क्षणादेनोक्षयं त्रजेत् ॥५८॥

आगमज्ञ हो किन्तु वस्तु पर ला विश्वासं नहीं रीझे ।  
तो क्या लाभ तथा विश्वासी संयम विना नहीं सीझे ॥  
मूढभावसे कोटि जन्म तक तपकर कर्म नहीं छूटे ।  
ज्ञानीके उच्छ्रवासमात्रमें तीनगुप्तिसे वह टूटे ॥२६॥

**सारांशः**—द्रव्यलिंगी मुनि श्री जिनवाणीके ग्यारह अंग और नौ पूर्वतकके पढ़नेवाले तथा घोर आतपनादि योगरूपसे तपस्या करनेवाले होकर भी भवत्रिच्छेद नहीं कर सकते क्योंकि आगमका व्याख्यान करते हुए भी उनके अंतरंगमें तदनुकूल समुचित श्रद्धान नहीं होता है । समुचित श्रद्धान और द्वादशांगका ज्ञान होकर भी यदि चारित्र धारण नहीं किया जावे तो मुक्ति नहीं मिल सकती है ।

श्री तीर्थकर भगवान्को भी चारित्र धारण करना पड़ता है । संसारके सभी पदार्थोंसे सम्बन्धका विच्छेद करना पड़ता है । यदि किसी भी पदार्थके साथ किंचित् भी मोह चित्तमें शेष रह जाता है अर्थात् सम्यगदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये तीनों होकर भी जब तक चारित्रकी पूर्णता नहीं होजाती है तबतक पुनर्जन्मका अभाव नहीं हो सकता है । यही आगे स्पष्ट करते हैं—

परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो ।  
विज्जदि जदि सो सिद्धिं ए लहदि सव्वागमधरो वि ॥५६॥  
पंचसमिदो तिगुत्तो पंचेदियसंबुडो जिदकसाओ ।  
दसणणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥५७॥  
समसत्तुवंधुवग्गो समसुहदुक्खो पसंसिंदसमो ।  
समलोट्ठुकंचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥५८॥  
दंसणणाणचरित्तेसु तीसु जुगवं समुट्ठिदो जो दु ।  
एयगगदो त्ति मदो सामणणं तस्स पडिपुणणं ॥५९॥

लेशमात्रं च मूढत्वं देहादिषु समस्ति चेत् ।

सिद्धिं न सोऽहंतीत्यत्र सर्वागमधरोऽपि सन् ॥५९॥

त्रिगुसिः पंचसमितिः निष्कपायो यतोऽक्षजित् ।  
 सुदृष्टिज्ञानसम्पन्नो लभते संयतामिथाम् ॥६०॥  
 निन्दा प्रशंसयो दुःख-सुखयोः शत्रुमित्रयोः ।  
 तृणकंचनयोर्मृत्यु - जनुयोः समधीर्यतिः ॥६१॥  
 सुदृगज्ञानचरित्राणां युगपत्वितये स्थितः ।  
 एकाग्रतामवासोऽपि पूर्ण आमण्यमस्य हि ॥६२॥  
 अंशमात्र भी देहादिकमें जिसके समता वाकी हो ।  
 वह न सिद्धि पा सके भले ही आगमका व्याख्याकी हो ॥  
 पंच समिति गुप्तित्रययुत पंचेन्द्रिय निप्रहकारक हो ।  
 निष्कपाय सद्दृष्टिवोधयुत उस मुनिको संयमी कहो ॥३०॥  
 तृण कंचन, मरना जीना, अरि मित्र, दुःख सुख सम जाने ।  
 निन्दा और प्रशंसाको भी जो यतिवर समान माने ॥  
 दर्शन घोब वृत्त तीनोंको एकसाथ सम्पन्न किये ।  
 हुए रहे निश्चल उसके तब पूरा यतिपन कहो हिये ॥३१॥

सारांशः—संसारके अन्य पदार्थोंकी तो बात ही क्या किन्तु अपने साथमें एकमेक होकर रहनेवाले शरीरके प्रति भी जिसके उपयोगमें लगाव होता है—इस शरीरसे मैं तपस्या कर रहा हूँ अतः मेरे लिए यह शरीर बड़ा उपयोगी है, इत्यादि रूपसे किंचित् भी ममत्व वना रहता है तो वह भी साधककी सफलतामें बाधक होजाता है । जिसकी दृष्टिमें न तो कोई शत्रु ही है और न कोई मित्र ही है, जो तृणको व्यर्थ समझकर कंचनको मूल्यवान् न समझता हो, जिसके लिए अपनी निन्दा और प्रशंसा भी समान ही हो, जो जीवन और मरणमें कुछ भी अन्तर न समझता हो और जिसकी दृष्टिमें सांसारिक सुख वथा दुःखमें भी कोई अन्तर न रह गया हो, इसप्रकार की अटल समता प्राप्त हो चुकी हो, वही सच्चा साधक संयमी कहलाने का अधिकारी होता है । इसीका नाम वास्तविक मुनिदशा है । इसीको चित्तकी एकाग्रता कहते हैं । इसीका नाम निष्कपायता (वीतरागता) है । इस अवस्थाको प्राप्त होनेवाला महाशय ही कर्मसे छुटकारा (मुक्ति) पा सकता है । यही आगे बताया जा रहा है—

मुजभदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दव्वमण्णमासेज्ज ।  
 जदि समणो अणाणी बज्मदि कम्मेहिं विविहेहिं ॥६३॥  
 अट्टेसु जो ए मुजभदि ण हि रज्जदि एव दोषमुवयादि ।  
 समणो जदि सो णियदं खवेदि कम्माणि विविहाणि ॥६४॥

अन्यद्वद्वयं समासाद्य द्वेष्टि मुहति रज्यते ।  
 श्रमणोऽपि भवन्नज्ञो वध्यते भूरि कर्मभिः ॥६३॥  
 न मुहति नवा द्वेष्टि रज्यते न मनागपि ।  
 स एव श्रमणोऽसौ हि कर्मनाशकरो भवेत् ॥६४॥  
 किसी वस्तुके निमित्तसे हो मूढ राग या रोष करे ।  
 यति होकर भी वह अज्ञानी कर्मवंध क्यों नहीं करे ॥  
 निर्मोही होकर न कहीं भी राग और न द्वेष करे ।  
 वही साधु होता है जगमें वही नियमसे कर्म हरे ॥३२॥

**सारांशः**—ग्रंथकारका कहना है कि जो राग द्वेष और मोहसे सर्वथा रहित होकर कर्मनाश करनेवाला है वही मुनि कहलानेका अधिकारी है । इस पर शंका होसकती है कि आपने ही जो श्रमणोंके अट्टाईस मूलगुण बताये हैं उनमें षडावश्यक कर्म भी हैं । उनमें अरहंतों की वन्दना भक्ति आदि करते समय धर्मनुराग रहा करता है तो उस समय उनके मुनिदशा है या नहीं ? इसका उत्तर आगे दे रहे हैं—

समणा सुदृधुवज्जुत्ता सुहोवज्जुत्ता य होंति समयम्हि ।  
 तेसु वि सुदृधुवज्जुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥६५॥  
 अरहंतादिसु भत्ती वच्छलदा पवयणाभिजुत्तेसु ।  
 विज्जदि जदि सामणे सा सुदजुत्ता भवे चरिया ॥६६॥  
 वंदणणमंसणेहिं अब्मुट्टाणाणुगमणपडिवत्ती ।  
 समणेसु समावणओ ए णिदिंदा रायचरियम्हि ॥६७॥  
 दंसणणाणुवदेसो सिस्सग्गहणं च पोसणं तेसिं ।  
 चरिया हि सरागाणं जिणिंदपूजोवदेसो य ॥६८॥

यद्यपि श्रमणाः शास्त्रेऽप्युक्ताः शुभोपयोगिनः ।  
 किन्तु ते सास्त्राः शुद्धो-पयोगा हि निराश्रवः ॥६५॥  
 अर्हदादिषु या भक्तिः प्रीतिः प्रवचनाङ्गिषु ।  
 शुभोपयोगयुक्ताऽसौ श्रामणेऽस्तु परिस्थितिः ॥६६॥  
 अस्युत्थानानुगमन वन्दनादि प्रवृत्तिभिः ।  
 पादसंवाहनाद्यं च श्रमणेषु प्रयत्नते ॥६७॥  
 सन्मतज्ञानसन्देशः शिष्यग्रहणपोषणम् ।  
 जिनपूजावृपदेशोऽप्यस्तु चर्या सरागिणाम् ॥६८॥  
 शुद्धोपयोगवाले यतिपति शुभोपयोगी भी यति हो ।  
 वे हो आस्त्रवहीन और वे यहाँ शुभास्त्रव संगति हो ॥  
 यतिपत्तमें भी स्वालस्त्रतसे जबकि शांत हो रहा चित्त ।  
 प्रवचन वत्सलता जिनस्त्रवादिकमय शुभोपयोगी वृत्त ॥३३॥  
 वन्दन नमनाभ्युत्थानादिक गुणियोंके प्रति सच्चारित्र ।  
 गुणगाहकपत्तको लेकरके साधिगमोंके लिए पवित्र ॥  
 शिष्यानुग्रह संग्रह करना सदर्शनबोधाभिनन्दी ।  
 सराग संयमियोंकी चर्या जिनपूजावृपदेशमयी ॥३४॥

**सारांशः**—जो लोग शुद्धोपयोगके लक्ष्यसे यति परिणतिकी प्रतिज्ञा लेकर तथा संसारके कार्योंसे सर्वथा दूर होकर भी कषायांशके उदयसे निर्मल ज्ञान दर्शनमय आत्मद्रव्यमें तल्लीनतारूप शुद्धोपयोग दशाको प्राप्त करनेमें असमर्थ हैं किन्तु मनकी चंचलताके कारणसे अपनेको नीचे न गिरजे देनेके लिए श्री अरहंत भगवान्दकी भक्ति करना, साधर्मी जनोंके साथ धर्मचर्चा करना, अपनेसे विशिष्ट गुणवान्दको देखकर उठकर खड़े होना, नमस्कार करना, उनके सम्मुख विनम्र होकरके रहना, उनकी पगचंपी आदि करना, अपनेसे अल्पशक्तिवालोंको सँभाले रहना, उन्हें समुचित धार्मिक शिक्षा देना, श्रावकोंको दान पूजा आदिका उपदेश देना इत्यादि कार्योंमें रुचि रखते हैं वे शुभोपयोगी मुनि होते हैं ।

इस अवस्थामें वे मुनि नहीं होते, ऐसा नहीं कहा जा सकता है किन्तु ये शुद्धोपयोगी मुनिकी तरह पूर्णरीत्या निरास्त्र नहीं होते हैं और धोर वंधाभावके साथ किंचित् शुभवंधके करनेवाले भी होते हैं ।

‘धम्मेण परिणदप्पा’ इत्यादि ग्यारहवीं गाथामें लिखे अनुसार ये लोग सम्पन्न धर्मात्मा न होकर परिणमनशील धर्मात्मा होते हैं। साक्षात् मोक्षके न पानेवाले होकर लौकान्तिकादि स्वर्गीय अवस्थाके अधिकारी बनते हैं।

यद्यपि शुभोपयोगी गृहस्थ भी हो सकता है परन्तु गृहस्थमें और मुनिमें यह विशेषता होती है कि शुभोपयोगी गृहस्थ दान पूजादि शुभोपयोगके कार्योंमें प्रवृत्त होता हुआ प्रासंगिकरूपसे बाह्य षट्कायिक जीवोंकी विराधना भी करता है परन्तु मुनि वैयावृत्य आदि शुभोपयोगरूप कार्योंमें भी इसप्रकार प्रवृत्ति करता है कि उसमें किसी भी जीवकी विराधना न हो। यदि शुभोपयोगरूप कार्यके सम्पादनके प्रलोभनमें फँसकर किसी भी प्रकारसे बाह्य हिंसामय प्रवृत्तिको अपना लेवे तो उस समय वह मुनि न रहकर गृहस्थ ही कहा जावेगा। यही आगे बताते हैं—

उवकुण्डि जो वि णिच्चं चादुव्वरणस्स समणसंघस्स ।  
कायविराधणरहिदं सो वि सरागप्पधाणो से ॥६९॥  
जदि कुण्डि कायखेदं वेजजावच्चत्थमुज्जदो समणो ।  
ए हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाणं से ॥७०॥

उपर्कुर्वन्नपि किल साधु संघं चतुर्विधम् ।  
प्राणिवाधातिगत्वेन वर्तते मुनिराङ्गसौ ॥६९॥  
वैयावृत्यादि वृत्तेऽपि प्राणिवाधाकरो भवन् ।  
गृहितामेति साधुश्च कार्यं तद् गृहिणां हि यत् ॥७०॥

जो कि चतुर्विध संघशिरोमणि होता है सुविशुद्धमति ।  
षट्कायिक जीवोंका रक्षक सरागचारित्राधिपति ॥  
सेवा करनेमें भी यदि कुछ जन्तु विराधक रहता है ।  
तो गृहस्थ है क्योंकि उसीका धर्म उसे यों कहता है ॥३५॥

वैयावृत्यके पात्र कौन कौन होते हैं? किन किनका वैयावृत्य करना चाहिये? यह अब बताते हैं—

जोखहाणं णिख्वैकखं सागारणगारचरियजुक्ताणं ।  
अएुकंपयोवयारं कुब्बदु लैवो जदि वि अपो ॥७१॥  
रोगेण वा छुधाए तखहाए वा समेण वा रुढं ।  
दिट्ठा समणं साहू पडिवज्जदु आदसत्तीए ॥७२॥

जैन सागार साधुनां निस्स्वार्थमनुकम्पया ।  
वैयावृत्यं विधातव्य—मेनोऽप्यल्पं यदीह च ॥७१॥  
रुजा छुधा तृष्णया वा परिश्रान्त तयार्दितम् ।  
दृष्ट्वा साधुरात्मशक्त्या श्रमणं प्रतिपद्यताम् ॥७२॥  
यद्यपि आशिक हिंसा फिर भी करुणासे उपकार करे ।  
त्वार्थरहित सागार तथा अनगार जनोंका कष्ट हरे ॥  
भूख प्यास रोगश्रमादियुत यतिको जहाँ देख पावे ।  
धर्म वहाँ है साधुका कि भरसक उसका कष्ट हटावे ॥३६॥

**सारांशः**—यहाँ मूल गाथाओंमें लिखा हुआ है कि—जैन गृहस्थ और साधुओं पर दया दिखलाते हुए यथासाध्य उनकी सेवा करना चाहिये । इस पर यह शंका हो सकती है कि किसी अजैन भाईको सेवा करना या उस पर दया दिखलाना बुरी बात है क्या ? किन्तु ऐसा नहीं है । दया तो सभी पर करना चाहिये ।

**उत्तरः**—तुम्हारा कहना ठीक है । श्री महावीर स्वामीके शासन में दयाके पात्र तो प्राणी मात्र ही हैं । सबको सभी पर दयालु होना चाहिये । किसीको भी कोई कष्ट न हो इसप्रकारका सर्वोदयी सुन्दर विचार तो जैनधर्मका प्राण है, स्वागत करने योग्य है, किन्तु यहाँ प्रसंग वैयावृत्यका है । सेवा सुश्रूपा करनेका सामनेवालेके कार्यमें सहयोग प्रदान करनेका है । सो अब अजैन कौन और उसके कार्यमें सहयोग देना कैसा, वह देखना है ।

भगवान्‌का धर्म अहिंसामूलक है, अतः जहाँ तक हो सके अहिंसा का व्यवहार करनेवाला हो और असमर्थ अवस्थामें भी कमसे कम अहिंसाका पक्षपाती तो अवश्य हो, वह जैन है । इसके विपरीत जो हिंसा करनेमें ही प्रवृत्त हो रहा हो वह अजैन होता है । इसके कार्यमें

सहायक होना तो किसी भी अच्छे मनुष्यका काम कभी भी नहीं कहा जा सकता है। यदि कोई अच्छा मनुष्य समुचित कार्य कर रहा हो और आपका उपयोग आत्मध्यान निभग्न न हो तो आपको उसके कार्यमें अपनी पूर्ण शक्तिसे सहायता देकर उसे सम्पन्न करा देना चाहिए; ऐसा ग्रंथकारका कथन है, सो ठीक ही है। ग्रंथकार तो कहते हैं कि आपकी यदि सामर्थ्य भी न हो किन्तु आपके कहनेसे उस कार्यको सम्पन्न कर सकने वाला कोई दूसरा मनुष्य हो तो उसे कह करके भी वह कार्य करा देना चाहिये। अपने आपके लिये किसीसे किसी भी प्रकार की याचना करना मुनिका अपराध माना जाता है परन्तु परोपकारके लिये दूसरेसे प्रार्थना करनेमें भी कोई हानि नहीं है। यही आगे बताते हैं—

**वैज्ञावच्चणिमित्तं गित्ताणगुरुबालवृद्धसमणाणं ।**

**लोगिगजणसंभासा ण णिंदिदा वा सुहोवज्जुदा ॥७३॥**

**एसा पसत्थभूदा समणाणं वा पुणो धरत्थाणं ।**

**चरिया परेति भणिदा ताएव परं लहदि सोक्खं ॥७४॥**

बालवृद्धगुरुलान वैयावृत्यनिमित्तः ।

लौकिकैः सह संभाषा निनिदता नास्तु योगिनः ॥७३॥

संयताय प्रशस्तेयं चर्या गेहभृतेत्वसौ ।

**परमेत्युदिता १ मुष्यात्मशान्तिरनया यतः ॥७४॥**

हेय नहीं जो ग्लानादिकके वैयावृत्य निमित्त कहो।

लौकिक जनसे भी सम्भाषण शुभोपयोग विशिष्ट कहो॥

अमणेंके तो लिए शस्त यह वैयावृत्य कहाता है।

गेहिजनोंके लिए किन्तु उत्तम शुचि सुखका दाता है॥३७॥

**सारांशः—** संघमें एक मुनि बीमार है, इसके वायु प्रकोपसे सन्धिव्यथा होरही है। ऐसी अवस्थामें उसके पैर दबा देना जैसा कार्य तो वैयावृत्य करनेवाले मुनिकी स्ववशकी बात है परन्तु इतनेसे ही उसकी वह पीड़ा दूर नहीं होसकती है। अतः उसे दूर करके रोगीको शांति पहुँचानेकी उष्टिसे किसी सद्गृहस्थसे कहा जाता है कि भैयाजी! आपके ध्यानमें कोई भी वातनाशक प्रासुक तेल यदि हो तो लाकर महाराजके

शरीरमें मलदो, ऐसा कहना मुनिके लिए अनुचित नहीं है, किन्तु उसका कर्तव्य है।

इसीप्रकार गृहस्थोंके भी वैषयिक कार्योंमें नहीं किन्तु दानपूजादिरूप धार्मिक कार्योंमें मुनि यथासंभव भाग लेता है तो इसमें कोई बुराईकी बात नहीं है। हमको हमारे इतिहासमें ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि गृहस्थोंको अपने धर्मकी प्रभावना करनेके लिये, उसकी महिमाको बनाये रखनेके लिये कहीं कहीं विरोधियोंसे युद्ध भी करने पड़े हैं। ऐसी बातके लिए भी परिस्थितिवश होकर मुनियोंको उन्हें प्रोत्साहन देना पड़ा है। इसके लिये प्रभावना अंगमें वज्रकुमार मुनिकी कथा सुप्रसिद्ध है।

मुनिके लिए ये सब शुभोपयोगकी बातें निद्य न कही जाकर प्रशंसा योग्य मानी गई हैं। गृहस्थावस्थामें तो इन शुभोपयोगकी बातों का करना ही परम कर्तव्य कहा गया है क्योंकि गृहस्थदशामें शुद्धोपयोगका होना सर्वथा असंभव ही है। मुनिके लिये शुभोपयोग गौणरूप है किन्तु गृहस्थके लिए तो वही मुख्यरूप कहा गया है। उनके चित्तकी प्रसन्नताके लिए तो शुभकार्य ही होता है। यह एक तो सत्य श्रद्धा युक्त होता है जो साक्षात् स्वर्ग सम्पदाप्रदायक होकर परम्परा मुक्तिदायक बनता है। दूसरा दुःश्रद्धानयुक्त होता है, यह केवल सात बंध करनेवाला ही होता है, कभी भी मुक्तिदायक नहीं होता है। यही आगे बतारहे हैं—

**रागो पसत्थभूदो वत्थुविसेसेण फलदि विवरीदं ।**

**एणाणभूमिगदाणिह वीजाणिव सस्सकालम्हि ॥७५॥**

**छदुमत्थविहिदवत्थुसु वदणियमज्भयणभाणदाणरदो ।**

**ण लहदि अपुणव्भावं भावं सादप्पगं लहदि ॥७६॥**

एष धर्मानुरागोऽपि यथापात्रमिहार्थं कृत् ।

विभिन्न क्षेत्र सम्बन्धादीजवत् परिगीयते ॥७५॥

दुःश्रद्धात्मव्रतादीनि सात वन्धाय केवलम् ।

कदाचिदपि नैतानि संसारच्छेदकानि वै ॥७६॥

यह कारुणिकयोग जीवोंमें भिन्न भिन्न फल करता है ।

जैसी भूमि वीज बैसा ही हीनाधिक विस्तरता है ॥

दुःश्रद्धानयुक्त नियमत्रत तप आदिक जो करता है ।

सात वंध करता है उससे शिव न कभी पा सकता है ॥३८॥

**सारांशः**—जो मुनि जैन शास्त्रानुसार व्रत नियम आदिका यथा शक्ति पालन करनेमें संलग्न हैं फिर भी हृदयकी कुटिलताके कारण अपने श्रद्धानको यथार्थ करनेमें असमर्थ हैं, ऐसे द्रव्यलिंग अवस्थाके धारक जैन साधु भी अपने आचरणमात्रसे केवल पुण्यवंध करके स्वर्ग सम्पदा प्राप्त कर लेते हैं । वहाँसे आकर उन्हें संसार भ्रमण ही करना पड़ता है । कभी भी संसारसे मुक्त होनेमें समर्थ नहीं हो सकते हैं ।

जो परमार्थका तो स्पर्श भी नहीं करते हैं किन्तु विषय कषायको पुष्ट करनेवाले मार्गका ही समर्थन करते हैं, ऐसे पाखण्डी लोग तो अपनी कायक्लेशरूप चेष्टाके द्वारा पुण्यवंध करके भवनत्रिक देवोंमें ही जन्म धारण करके अपने किये हुए सुकृतका फल भोगकर संसार भ्रमण करते ही हैं । इन्हें आदरपूर्वक दान देनेवालेकी क्या दशा होती है सो अब बताते हैं—

अविदिदपरमत्थेसु य विषयकषायाधिगेसु पुरिसेसु ।

जुटुं कदं व दत्तं फलदि कुदेवेसु मणुवेसु ॥७७॥

जदि ते विषयकसाया पाव त्ति परूविदा व सत्थेसु ।

किह ते तप्पडिबद्धा पुरिसा णित्थारगा होंति ॥७८॥

ये सन्ति विषयाधीन कुमारं परिपोपकाः ।

तेषां पाखण्डनां सेवा कुदेव नर नामकृत् ॥७७॥

विषयाश्च कपाया ये पापनाम्नानिरूपिताः ।

तनिलीनकुलिंगानां सेवा किं स्याच्छवप्रदा ॥७८॥

विषयासत्त्वं कृपथं परिपोपक लोगोंकी परिचर्यादेः ।

नीच देव या नीच मनुजभव पावे सुकृतसपर्यादेः ॥

विषय कपायोंको आगममें नवकि पाप वतलाया है ।

तव उनयुत नर निस्तारक हो यह न समझमें आया है ॥३८॥

**सारांशः—** जो लोग गृहस्थाश्रमसे मुक्त होकर अपने आपको साधु मानते हुए भी विषय कपायोंको पुष्ट करनेवाले सांसारिक कार्योंमें ही फँसे रहते हैं, जादू टोना आदि करके साधारण (भीले) लोगोंको प्रसन्न करना ही जिन लोगोंका धंधा है, जो रसायन सिद्धि आदिसे लगकर हिंसा करते हुए पापार्जन करने वाले हैं, ऐसे ऐसे लोगोंको ही प्रभावक (चमत्कारी) तपस्वी मानकर उन्हींकी सेवा सुश्रूषा करनेवाले लोग अपनी भद्रचेष्टाके द्वारा जो साधारण पुण्यार्जन करते हैं उसके फलसे आभियोग्य और किल्विषक देवोंमें जन्म लेते हैं।

इनको वहाँ भी निरन्तर अन्य देवोंकी सेवामें संलग्न रहकर पराधीन जीवन विताना पड़ता है। वहाँसे आकर भाग्यसे यदि मानव जन्म भी मिल जावे तो चांडाल आदिके कुलमें उत्पन्न होकर पराधीनतामें जन्म विताते हुए पापार्जन करके फिर नरकादि कुरुतियोंमें जन्म लेते हैं। विषयानुरागी कुगुरुओंकी सेवा करनेवाला कभी भी संसारसे मुक्त नहीं हो सकता है। विषयानुराग पाप है। पापीका साथ देनेवाला पापके फलसे कैसे वच सकता है? अब संसारतारक गुरुभावसे सेवा करने योग्य कौन पुरुष है? यही बता रहे हैं—

उवरंदपावो पुरिसो समभावो धम्मिगेसु सव्वेसु ॥

गुणसमिदिदोवसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स ॥७९॥

असुभोवयोगरहिदा सुद्धुवजुचा सुहोवजुत्ता वा ॥

णित्यारयंति लोगं तेसु प्रस्तथं लहदि भक्तो ॥८०॥

शुद्धोपयोगतोयुक्ता यद्वागुभोपयोगतः ॥

अगुभाद्रहितास्तेषां भक्तः सत्सुकृतं ब्रजेत् ॥७९॥

पापातिगः स्वयं सर्वं जीवेषु समताश्रयः ॥

सुगुणग्राहको योगी निस्तारयतु सेवकान् ॥८०॥

पापपंक से रहित हुआ समझे समान सब लोगोंको ।

वह सुमार्गगामी होता पाकर गुणमय उपयोगोंको ॥

जो कि अशुभसे दूर शुद्ध या शुभ उपयोग शुक्त होवे ।

वह निस्तारक उसके सेवक उच्चम पुण्यपुंज जोवे ॥८०॥

**सारांशः—** जो यह तेरा है और यह मेरा है, इसप्रकारकी धुद्रवृत्ति का त्याग करके समताभावको धोरण किये हुए हो, जो प्राणी मात्रको अपने ही समान अनन्त ज्ञानादिके प्राप्त करनेका अधिकारी समझता हो, आप स्वयं सम्यग्ज्ञान आदि गुणोंका ग्राहक बनकर अपनेसे अधिक गुणवान् के प्रति समादरभाव रखता हो, जहाँ तक हो सके परमात्म चिन्तनमें तद्वीन रहनेवाला हो और कदाचित् इससे उपयोग हट जावे तो इसीमें संलग्न अन्य परमात्मचिन्तक महात्माओंकी सुश्रूषामें लगा रहनेवाला हो, मिथ्यात्व अन्याय अभक्ष्यादि पापवृत्तियोंसे सर्वथा दूर रहनेवाला हो, ऐसा महा योगिराज आप भी संसारसे पार होनेवाला है और अपने भक्तोंको भी निमित्तरूपमें संसारसे पार करनेवाला होता है। वह स्वयं उसी शरीरसे मुक्त बन सकता है। उसकी श्रद्धापूर्वक हृदयसे सेवा करने वाला भी एक दो प्रशस्त जन्म धारण करके सदाके लिये अशारीरी हो जाता है। इसीलिये—

दिट्ठा पगदं वथुं अब्भुट्टाणप्पधाणकिरियाहिं ।

बहुदु तदो गुणादो विसेसिद्व्वो त्ति उवदेसो ॥८१॥

अब्भुट्टाणं गहणं उवासणं पोषणं च सक्कारं ।

अंजलिकरणं पणमं भणिदं इह गुणाधिगाणं हि ॥८२॥

निर्ग्रन्थं यतिनं दृष्ट्वाभ्युत्थान नमनादिभिः ।

गुणोत्कर्पं विधातव्यं स्वस्येति जिनदेशना ॥८३॥

गुणाधिकानां कर्तव्यं संघेऽपि प्रायतीश्वरैः ।

पवित्र मनसा सेवा नमनस्तवनादिभिः ॥८४॥

उसे देखकर चाहिये कि मानव होवे विनयाचारी ।

निजमनमें उसके सुगुणोंकी श्रद्धा रखे सुखकारी ॥

गुणियोंके बाने पर उठना स्वागत करना नमना भी ।

यथाशक्ति सेवा करना फैलाना यशः कीर्तिका भी ॥८५॥

**सारांशः—** आत्महितेच्छु सोधुको चाहिये कि अंतरंगमें प्रसफुट होने

वाली वीतरागता को प्रगट कर दिखानेवाले निविकार निर्ग्रन्थ दिग्म्बर

वेशके धारक किसी भी तपोधनको अपने सम्मुख आते हुए देखे तो

प्रसन्नता पूर्वक उठकर खड़ा होवे, उसके समुख जावे, हाथ जोड़कर उसे नमस्कार करे, रत्नत्रयकी कुशलता आदि प्रश्नों द्वारा उनकी सुश्रुषा करे। इसप्रकार सत्कारपूर्वक उसे अपने पास स्थान देवे और उसके आसन शयनादिकी समुचित व्यवस्था करे।

फिर तीन दिनके सहवाससे उसके आचार विचार और अपने आचार विचारमें कोई खास अन्तर न पावे तो सदा के लिये भी उसे अपने साथमें रख सकता है, ऐसी जिनशासनकी आज्ञा है। अपने पासमें रहनेवाले साधुओंमेंसे भी अपनेसे अधिक गुणवानोंको प्रथम प्रणाम आदि करना चाहिये। साधुको साधुके अतिरिक्त और किसीको नमस्कार करना ठीक नहीं है। यही आगे बता रहे हैं—

अवभुद्धेया समणा सुक्तत्थविसारदा उवासेया ।

संजमतवणाणड्डा पणिवदणीया हि समणेहिं ॥८३॥

ण हवदि समणो ति मदो संजमतवसुक्तसंपञ्जुतो वि ।

जदि सद्वहदिण अथे आदपधाणे जिणकखादे ॥८४॥

थ्रमणः थ्रमणा एव सम्मान्या नाथ गेहिनः ।

न च ते थ्रमणाभासा गुणग्रहणवांछकैः ॥८३॥

तपसा व्रतविद्याभ्यामपि युक्तो धरातले ।

जिनोक्ततत्वं श्रद्धातोऽतीतश्चेच्छमणो न सः ॥८४॥

जबकि आप हैं साधु साधुकी विनय करे तनु वच मन से ।

किन्तु नहीं पाखण्डीकी जिससे कि न गुणगौरव विनसे ॥

जिसे न हो श्रद्धान् जिनोदित जीवादिकका ज्ञिज मनमें ।

वह पाखण्डी श्रुतविद्यातपयुत होकर भी भव वनमें ॥४२॥

सारांशः—गृहस्थोंको तो लौकिक तथा पारमार्थिक कई तरहके प्रयोजन रहा करते हैं अतः गृहस्थ तो धार्मिक सम्पर्कको लेकर जिसप्रकार धर्मगुह श्री मुनियोंको नमस्कार करता है, उसीप्रकार माता, पिता, राजा और शिक्षक आदिको भी अपनेसे बड़े मानकर नमस्कार किया करता है। उसका ऐसा करना उचित ही है।

मुनिका संबंध केवल एक धर्मचिरणसे रहता है । अन्य सब संबंध उसके समाप्त हो जाते हैं । अतः वह धर्मचिरणमें अपनेसे विशिष्ट या अपने समकक्ष होगा, उसीके सामने नत मस्तक होगा । गृहस्थ जीवनमें पुत्र पिताको और पत्नी पतिको नमस्कार करे ऐसी लोक मर्यादा है किन्तु पुत्र यदि पितासे पहिले ही साधु होजावे तो उससे आशीर्वाद लेकर अपने कर्मोंको हलका करनेके लिये पिता पुत्रको नमस्कार करता है ।

इसीप्रकार पति यदि गृहस्थकी भंभट्टमें ही फँसा रहे और पत्नी आर्थिका होजावे तो पतिको उसके आगे सिर झुकाना पड़ता है क्योंकि विनयके लिए धर्मचिरण ही मुख्य माना गया है । जब ऐसी बात है तब एक उत्तम धर्मचिरणी साधु पुरुष होकर धर्मचिरणसे भ्रष्ट रहनेवाले हीनाचारी साधुको नमस्कार करे यह कैसे हो सकता है ? परन्तु—

**अववददि सासणत्थं समणं दिट्टा पदोसदो जो हि ।  
किरियासु णाणुमणिदि हवदि हि सो णटुचारित्तो ॥८५॥  
गुणदोधिगस्स विणयं पडिच्छगो जो वि होमि समणो त्ति ।  
होज्जं गुणाधरो जदि सो होदि अणंतसंसारी ॥८६॥**

श्रमणं शासनस्थं च दृष्ट्वा प्रद्वेष्टो यदि ।  
न नमेद् दूष्येदेनं स भ्रष्टाचरणः स्वयम् ॥८५॥  
गुणाधिकात् पुरा स्वयं समिच्छुर्विनयं यदि ।  
साधुरस्मीति गर्वेणा—नन्तसंसारभृद्धि सः ॥८६॥

जो कि सत्पथाश्रित श्रमणकी ईर्षावश हो काट करे ।  
धीरे धीरे सच्चरित्रपरसे वह खुद हो जाय परे ॥  
मैं भी तो मुनि हूँ यों कहकर गुणाधिकोंसे भी पहिले ।  
अपना विनय चाहता हो वह भव वन मैं ही डुलेहिले ॥८३॥

**सारांशः—**आगमानुकूल चलनेवाले साधुका भी यदि कोई समुचित सत्कार नहीं करता है प्रत्युत ईर्षा द्वेषके वश होकर तिरस्कार करता है तो वह स्वयं चरित्रभ्रष्ट है, ऐसा समझना चाहिये । इतना ही नहीं किन्तु मैं भी तो साधु हूँ, मैं कोई कम थोड़ा ही हूँ, इसप्रकार धमण्ड

करते हुए जो कोई अपनेसे अधिक गुणवान् साधुओंसे भी पहिले अपना विनय कराना चाहता हो तो वह चरित्रभ्रष्ट ही नहीं किन्तु सम्यगदर्शनसे भी भ्रष्ट है। और जो—

अधिगुणा सामणे बहुंति गुणाधरेहिं किरियासु ।  
जदि ते मिच्छुवजुत्ता हवंति पब्भट्टुचारित्ता ॥८७॥  
णिच्छदसुत्तथपदो समिदकसाञ्चो तवोधिगो चावि ।  
लोगिगजणसंसग्ं ए चयदि जदि संजदो णत्थि ॥८८॥

गुणेऽधिकोऽधरानेवं प्रणमन्वपि संयतः ।

च्युत्वा चारित्रितो मोह-मपि गच्छति शीघ्रतः ॥८७॥

स्वयं सम्भावितात्मापि जलवद्वह्नियोगतः ।

लौकिके न समं तिष्ठन् विकारमधिगच्छति ॥८८॥

गुणहीनोंको नमस्कार आदिक करता यति होकर भी ।

ब्रतभ्रष्ट तो है ही किन्तु न उसके है सम्यक्त्व कभी ॥

श्रुतपाठी उपशमित कषायी आतापनादि तपकारी ।

यदि लौकिकजन संसर्ग करे वह भी हो विकारधारी ॥४४॥

**सारांशः**—कार्यके प्रति उपादान ही नहीं किन्तु निमित्त भी अपना कुछ अधिकार रखता है। जैसे अग्निके ऊपर रखा हुआ जल अवश्य उष्ण होजावेगा। निमित्तकारणकी इसप्रकारकी अटलताको ध्यानमें रखते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि भाई! यदि तुम सत्य संयमके धारक हो तो भ्रष्टचरित्रोंके साथ कभी सम्पर्क मत करो, उनसे वच कर रहो। अन्यथा तो फिर तुम चाहे कितने ही शास्त्रके पारगामी ज्ञाता हो, कितने ही निष्कपाय शांत परिणामी हो, घोरसे घोर तपश्चरण करनेवाले हो, उन भ्रष्टचरित्रोंके सम्पर्क में रहकर एक न एक दिन तुम भी भ्रष्ट होजाओगे। इसमें संशय मत समझो। इसप्रकार कहकर वे कौनसे लोग हैं? जिनसे वचकर रहना चाहिये और किनके साथमें रहना चाहिये, यही आगे स्पष्ट कहते हैं—

णिगग्ंथं पञ्चइदो बहुदि जदि एहिगेहि कम्मेहिं ।

सो लोगिगो त्ति भणिदो संजमतवसंपजुत्तोवि ॥८९॥

तम्हा समं गुणादो समणो समणं गुणेहिं वा अहियं ।  
अधिवसदु तम्हि णिच्च इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्खं ॥६०॥

निर्गन्थत्वमपि प्राप्य लगेदैहिककर्मसु ।

तपः संयमयुक्तोऽपि लौकिक एव किं परैः ॥८९॥

समशीलान्वितर्नित्यं गुणमेवाभिलिप्तुभिः ।

सम्पर्कमधिगच्छेत् स य इच्छेदात्मनो हितं ॥९०॥

जिनदीक्षाधारक होकर भी ऐहिक कर्म कमाता है ।

जादू टोणादिकके द्वारा लौकिक साधु कहाता है ॥

अतः गुणाधिकसे अथवा तो स्वसदृश गुणवालेसे ही ।

आदान प्रदान रखता है जो दुःख क्षयकर देही ॥४५॥

**शब्दः**—गाथामें बताया गया है कि अपने समान गुणवालेके साथ तथा अधिक गुणवालेके साथ सम्पर्क रखना चाहिये । अल्प गुणवालेके साथ नहीं रखना चाहिये । यदि कोई अधिक गुणवालेके साथ अपना सम्पर्क रखना चाहेगा तो उस गुणाधिकके लिए यह भी तो अल्पगुणी ही रहा । फिर वह इसके साथ सम्पर्क क्यों करेगा ? ऐसे व्यवस्था कैसे बन सकेगी ?

**उत्तरः**—आपने कहा सो ठीक है परन्तु ग्रंथकारका ऐसा कथन नहीं है । यहाँ यह कहा गया है कि मोक्षमार्गी साधकको या तो समगुणी ( मार्ग गामी ) या अधिक गुणी ( मार्ग प्रदर्शक ) इन दो के साथमें अपना सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये । श्रद्धापूर्वक इन दो को ही अपनाना चाहिये । इनके अतिरिक्त हीन गुणी ( कुमार्गी ) को कभी नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि कुमार्गीको श्रद्धापूर्वक अपनानेसे तो तुम्हें भी कुमार्ग पर ही चलना पड़ेगा, जिससे तुम भ्रष्ट होजाओगे ।

यदि कोई कुमार्गी भी अपनी भूल सुधारने के लिए तुम्हारे पास आवे और तुम इस योग्य हो कि उसे बता सकते हो तो उसकी भूल समझाकर सुमार्ग पर लेग्रावो । उसे भी अपने समान मार्गगामी बना लो । इसमें कोई बुराई नहीं है । यह तो अच्छी ही बात है, मार्ग प्रभावना है । हानि तो तब है कि तुम भी लौकिक चमत्कार करनेमें निरत, किसी भी साधुको देखकर इस प्रलोभनमें आजाओ कि—

— अहो ! देखो, इन्होंने अपनी तपस्या या चातुरीसे कैसे कैसे गुण प्राप्त कर लिये हैं जिससे अनेक लोग इनके पास आकर आजिजी (खुशामद) करते हैं और इनकी सेवामें उपस्थित रहते हैं । इनका ढंग तो हमारेसे भी अच्छा है । इसमें क्या बुराई है ? अस्तु ! इसप्रकार समुचित सदाचारका वर्णन करके अब ग्रंथकार उपसंहार करते हुए कहते हैं कि इस ग्रंथका अनुशीलन करके मुख्य बार बातें जानने योग्य हैं । १ संसार परिभ्रमण, २ संसार परिभ्रमणसे छूटना, ३ संसार भ्रमणसे छूटनेका उपाय और ४ संसारसे छूटे हुए महानुभाव कौन कैसे होते हैं ? ये ही क्रमसे आगे बता रहे हैं—

जे अजधागहिदत्था एदे तच्च त्ति णिच्छिदा समये ।  
 अच्चंतफलसमिद्धं भमंति ते तो परं कालं ॥९१॥  
 अजधाचारविजुतो जधत्थपदणिच्छिदो पसंतप्पा ।  
 अफले चिरं ण जीवदि इह सो संपुण्णसामणणो ॥९२॥  
 सम्मं विदिदपदत्था चत्ता उवहिं बहित्थमज्भक्त्यं ।  
 विसयेसु णावसत्ता जे ते सुद्ध त्ति णिदिट्ठो ॥९३॥  
 सुद्धस्स य सामणणं भणियं सुद्धस्स दंसणं णाणं ।  
 सुद्धस्स य णिव्वाणं सो चिच्य सिद्धो णमो तस्स ॥९४॥

समये स्थितिमाप्यापि विपरीतार्थवेदिनः ।  
 संसारेऽस्मिन् सुदाकालं मुग्धचित्ता भ्रमन्ति ते ॥९१॥  
 प्रशान्तात्मोचिताचारी यथार्थं परिणामवान् ।  
 श्रामण्यं सफलं कुर्वन् स चिरं नेह तिष्ठति ॥९२॥  
 द्वेष्या संगं परित्यज्य विषयेभ्यो विरुद्ध्य च ।  
 स्थितिरात्मन्यहो भूयान् मुक्तेरेषा हि पद्धतिः ॥९३॥  
 एवं शुद्धस्य श्रामण्यं पूर्णं ज्ञानं सुदर्शनम् ।  
 यच्चिवं तल्लव्यवते सिद्धायास्तु नमोनमः ॥९४॥  
 विपरीताभिनिवेशयुक्तं जो जीवं जैन कहलाकर भी ।  
 भव भ्रमणसे मुक्त हन्त । वह हो सकता है नहीं कभी ॥९५॥

जो यथार्थ विश्वासयुक्त उचिताचारी प्रशान्तमन हो ।  
 ऐसा साधु शीघ्र ही इस दुनियांके हो उस पार अहो ॥४६॥  
 बहिरभ्यन्तर संगरहित तत्वश्रद्धान् सहित मनमें ।  
 अनासक्त उपयोगयुक्त हो वही शुद्ध निज जीवनमें ॥  
 शुद्धदशामें सच्ची यतिता ज्ञान दृष्टि भी वास्तवमें ।  
 होकर जीव सिद्ध बन जावे उसको यह कवि सदा नमें ॥४७॥

**सारांशः**—कोई जीव जैन हो या अजैन हो परन्तु यदि वह गता-नुगतिकतादिको लेकर जैनदर्शनका अनुयायी बन रहा हो और जैन शास्त्रानुसार तत्वोंका विश्वास न करके अपनी स्वच्छंदतासे जो औरका और ही मान रहा हो अर्थात् जिस जीवका मत भी अभी तक ठीक न हो पाया हो वह जीव तो अनंत संसारी होता है। उसके संसारका अभाव नहीं हो सकता है क्योंकि संसारके कारण मोहमें वह फँसा हुआ है।

जो मनुष्य अपने मोहकी मंदतासे पदार्थोंके स्वरूपको ठीक ठीक मानने लग गया है, जिसका चित्त शांतदशाको प्राप्त होनुका है अतः जो उचित अनुचितका विचार करते हुए उचित कार्य करनेमें ही अग्रसर होना चाहता है, जो गृहस्थकी भंझटसे उन्मुक्त होकर या तो साधु बन चुका है या साधु बननेको उत्सुक है, साधु दशाको ही सफल मान कर उसको धारण करना चाहता है, ऐसा जीव यद्यपि कुछ समयके लिए संसारमें है परन्तु वह अवश्य मुक्ति प्राप्त करनेवाला है, मुक्ति उससे दूर नहीं है।

जब यह बाह्य परिग्रहकी तरह अभ्यन्तर परिग्रहसे भी सर्वथा उन्मुक्त हो जावेगा, बाह्य परिग्रहका परित्याग कर देने पर भी चिरंतन अभ्यासके कारणसे उन्हीं बाह्य बातोंकी तरफ दौड़ लगानेके लिये परिणमनशील अपने मनको एकान्त आत्म तल्लीन कर लेगा, रागद्वेषसे सर्वथा रहित शुद्ध हो जावेगा तब पुनर्जन्म भी धारण नहीं करेगा। अपने आपको विल्कुल रागद्वेषसे रहित शुद्ध बना लेना ही मुक्तिका साक्षात् उपाय है।

इस उपायके द्वारा परिशुद्ध होकर अपने सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्रको पूर्णतया प्राप्त हो जानेका नाम ही मुक्ति है। इसको प्राप्त कर लेनेवाले सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार हो। इस परमात्म दशाको प्राप्त करनेका साधन इस शास्त्रका अध्ययन करना है। ऐसा आगे बता रहे हैं अर्थात् इस ग्रंथकी सफलता दिखा रहे हैं—

**बुजभूदि सासणमेयं सागारणगारचरिया जुत्तो।  
जो सो पवयणसारं लहुणा कालेण पप्पोदि ॥१५॥**

शास्त्रमेतद् पठेद्यस्तु साधु श्रावक चर्यया ।  
सारं प्रवचनस्याप्त्वा शीघ्रं याति परं पदं ॥१५॥

दोहा

जो इस पुस्तकको पढ़े मुनि श्रावकाचार ।  
पालन कर वह पासके झटसे प्रवचनसार ॥४८॥

**सारांशः—**—ग्रंथकार कहते हैं कि जो कोई भी भाई श्रद्धापूर्वक इस शास्त्रको पढ़ेगा वह प्रवचन अर्थात् जैनागमके सारभूत तत्त्वज्ञानको प्राप्त कर श्रावक या साधुके आचरण को स्वीकार करके, उसके द्वारा शीघ्र ही परमपदको भी प्राप्त कर लेगा। अतः प्रत्येक आत्महितैषी भव्यको इसे अवश्य पढ़ना चाहिये। अन्तमें—

भूला हूँ यदि मैं कहीं राधान्तोचितलेख ।  
च्छापुरुष सोधें उसे लघुमति मुझको देख ॥४६॥  
कृपासिन्धु जिनदेवके चत्वों पर विश्वास ।  
प्रजा करे जिससे टरे व्यहिरात्म प्रतिभास ॥४०॥  
चरित महा उद्गवल बने न हो मूढता लेश ।  
स्त्राम्य सदा बढ़ता रहे रहे न ईर्षा द्वेश ॥४१॥  
हिंसा चोरी जारी चुगलीसे हटकर रहना ।  
दीन्दि दुखियोंकी सहाय करनेको श्रम सहना ॥  
छँडे गुस्तोगोंके चलकर अपनाओ गहना ।  
द्वया क्षमा संतोष भावको सब भाई वहिना ॥४३॥

## ❖ अनुवादककी अन्तिम शुभ भावना ❖

❖

भूतभाविवर्तमाना,  
 राजन्ते जिननायकाः ।  
 ममस्मृतिं गता आत्म-  
 लब्धये स्युः सहायकाः ॥९६॥

कृतार्थः सम्भविष्यामि,  
 तथाहं लगतीतले ।  
 प्रयोजनं न मे किञ्चित्  
 वर्तते । स्यां कृतौ परम् ॥९७॥

चतुराराधनारूपं,  
 नर्म सम्भवतामटेत् ।  
 साक्षाच्चिक्षयपदप्राप्ते,  
 रदः कारणमिष्यते ॥९८॥



## परिशिष्ट

( पूज्य श्री १०८ मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा गद्यानुवाद )

### प्रथम अधिकार—

- पृष्ठ ४—** \* चारित्र ही धर्म है। उस धर्मको 'सम' ( समभाव ) इस नामसे जिनेन्द्रदेव ने निर्देशित किया है। वस्तुतः मोह क्षोभ अर्थात् मिथ्यात्व रागद्वेषादि विभाव परिणामोंसे विहीन आत्माके परिणाम को ही समभाव कहते हैं ॥ गाथा ७ ॥
- \* जब यह आत्मा जिसरूपसे परिणमनको प्राप्त होता है तब वह तन्मय अर्थात् उसीरूप हो जाता है अतः निर्मल धर्मरूप परिणत आत्मा को धर्म मानने में कोई बाधा नहीं है ॥ ८ ॥
- पृष्ठ १३—** \* ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातिया कर्मों को नष्ट करके अनन्तवीर्यको प्राप्त होते हुये उस अतुलनीय, अतीन्द्रिय, ज्ञानरूपी सुखामृतका पान वे सर्वज्ञ वीतराग देव करते हैं ॥ १६ ॥
- \* ऐसे सुरासुरपतियों से नमस्कृत, पूज्य, इष्टसुखप्रदायक, वीतरागसर्वज्ञदेव पर श्रद्धा रख कर जो जीव उनका ध्यान करता है उसका दुःख शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है ॥ २० ॥
- पृष्ठ १५—** \* अतीन्द्रिय ज्ञानकी उपलब्धि के फलस्वरूप उन सर्वज्ञ देवों के लिए अब ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रही, जो प्रत्यक्ष न हो क्योंकि इन्द्रियज्ञान क्षायोपशमिक होता है अतः सावरण एवं परसापेक्ष । किन्तु उनका ज्ञान क्षायिक निरावरण, पर निरपेक्ष होता है अतः उस ज्ञान के लिए कोई भी वस्तु परोक्ष नहीं रहती ॥ २३ ॥
- \* आत्मा ज्ञानके वरावर रहता है क्योंकि ज्ञान आत्माका गुण है और आत्मा गुणी । गुणको छोड़कर गुणीका परिणमन अन्यत्र नहीं होता है । उसीप्रकार ज्ञानको भी ज्ञेयके वरावर जिनेन्द्रदेवने बताया है । वह ज्ञेय लोक अर्थात् पट द्रव्यका पुञ्ज और केवल आकाशमय अलोक है-अतः यह निर्भ्रान्तरूपसे सिद्ध होता है कि वीतराग जिनेन्द्रदेवका वह अतीन्द्रिय परनिरपेक्ष क्षायिकज्ञान सर्वगत है ॥ २४ ॥
- पृष्ठ १७—** \* ज्ञानी पुरुष ज्ञेय पदार्थोंमें न तो सर्वथा प्रविष्ट होकर ही रहता है और न सर्वथा उनसे पृथक् ही रहता है । जिसप्रकार रूपीपदार्थोंमें विना

प्रवेश किए आँख पदार्थोंको जानती है, देखती है किर भी हम लोग कहा करते हैं कि तुम्हारी इष्टि किस पदार्थमें निहित है ? यद्यपि नेत्र अपने स्थानको छोड़कर जहाँ पदार्थ व्यवस्थित है वहाँ जाते नहीं तथापि इसप्रकारका व्यवहार होता है । इसीप्रकार इन्द्रियज्ञानसे रहित जो केवलज्ञानी है, लोकालोक को जानता है और देखता है ॥ २६ ॥

\* \* \* जिसप्रकार दूधमें प्रक्षिप्त नीलमणि स्थियं प्रकाशित होते हुए उस सारे दूध को भी अपनी प्रभासे प्रकाशित कर देती है अर्थात् उस श्वेत दुर्घट को भी नीलमय बना देती है, उसीप्रकार ज्ञान भी ज्ञेय पदार्थोंको जानते हुए उन सबको अपने रूप बना लेता है ॥ २० ॥

**पृष्ठ ३४—** \* इस अतीनिद्रिय ज्ञानमें पट द्रव्योंकी भूतकालकी व भविष्यत्कालकी सब पर्यायं वर्तमानकालकी पर्यायोंकी भाँति प्रतिफलित होती हैं, जो आज तक नहीं उत्पन्न हुई हैं और जो उत्पन्न होकर नष्ट हुई हैं ये सब असद्भूत पर्यायं इस अतीनिद्रिय ज्ञान की सुरूपष्ट विषय होती हैं ॥ ३७-३८ ॥

**पृष्ठ ३५—** \* भूत, भविष्यत्, वर्तमान पर्याय सहित सब पदार्थोंको एक साथ केवल-ज्ञान जानता है जिसकी महिमा इन पुद्गलात्मक शब्दों द्वारा कैसे गाई जा सकती है अर्थात् नहीं गाई जा सकती है ॥ ४१ ॥

\* \* वह केवलज्ञानी शुद्धात्मा इन सब पदार्थोंको जानता हुआ भी उनरूप परिणामन नहीं करता है, उनको ग्रहण भी नहीं करता है और उनमें उत्पन्न भी नहीं होता है । इसलिए वह अवधंक कहलाता है क्योंकि वह रागद्वेषादि विभावपरिणामोंसे रहित होकर जानता है । यदि जानने मात्रसे वंध हो जावे तो आत्मा कभी भी निर्वन्धक नहीं होगा क्योंकि आत्माका तो स्वभाव ही जानना और देखना है । यह बात सत्य है कि हम लोगोंका जानना और केवली भगवानका जानना भिन्न २ है, हम जानते हुए ज्ञेयपदार्थोंको रागद्वेषमार्बोंके द्वारा पकड़ लेते हैं किन्तु केवलज्ञानी केवल मात्र जानते हैं, रागद्वेष नहीं करते हैं । इसलिए केवलज्ञानी अवन्धक है और हम वंधक हैं, यदि हम भी रागद्वेष छोड़ दें तो निर्वन्ध और केवलज्ञानी बन सकते हैं ।

### द्वितीय अधिकार ( ज्ञेयाधिकार )

**पृष्ठ ३७—** \* यद्यपि द्रव्य छह कहे गए हैं, किर भी यहाँ पर कुन्दकुन्दाचार्य ने मुख्य रूपसे उनको जीव और अजीवके भेद से दो भागोंमें विभक्त किया है । जीव चेतनात्मक, ज्ञान-दर्शनोपयोगवाला है और पुद्गलादि शेष पाँच

अजीव जड़ अचेतन हैं। सब द्रव्योंको अवकाश देनेमें समर्थ जो आकाश है वह भी दो भागोंमें विभक्त है। जहाँ सब द्रव्योंका निवास है उसको लोक कहते हैं और जहाँ आकाश मात्र है उसे अलोक कहते हैं ॥३५-३६॥

**पृष्ठ १००—** # स्थानसे स्थानान्तर जानेमें समर्थ जीव, पुद्गल द्रव्योंके गमनमें हेतु धर्मद्रव्य है। अर्धम द्रव्य उन्हीं जीव, पुद्गलोंकी रितिमें हेतु है। सब द्रव्य परिणमनशील हैं, उनके परिणमनमें कालद्रव्य हेतु है। जीवका विशेषगुण उपयोग है—इसप्रकार जिनेन्द्रदेवने अमूर्त पाँच द्रव्योंका संक्षेपमें वर्णन किया है ॥ ४१-४२ ॥

**पृष्ठ १०६—** # इन छह द्रव्योंसे ओतप्रोत लोकाकाश है जो अनादि अनन्त है। उसको जो जानता है वह जीव है। यह चार प्राणोंसे युक्त है। इन चार प्राणोंके उत्तरभेद दस हैं—५ इन्द्रिय, ३ वल, १ आयु, १ स्वासोच्छ्वास ॥ ५३-५४ ॥

**पृष्ठ १०६—** # इन चार प्राणोंके द्वारा जो भूतकालमें जी चुका है, वर्तमानमें जी रहा है और भविष्यत् कालमें जीयेगा, वह जीवद्रव्य है किन्तु ये चारों प्राण पुद्गलद्रव्य निर्मित हैं ॥ ५५ ॥

# यह संसारी आत्मा मोह, रागद्वेषमय भावोंको सदैव करता रहता है इसलिए इन पुद्गलात्मक चार प्राणोंको धारण कर लेता है और धारण करके उदयागत कर्मफलको इन चारोंके द्वारा रागद्वेषपूर्वक भोगता रहता है अतः अन्य पुद्गलकर्मोंसे वँधता है ॥ ५६ ॥

**पृष्ठ ११०—** # जीव यद्यपि ज्ञानदर्शनोपयोगवाला है तथापि इस संसारी जीवका उपयोग शुभरूप और अशुभरूप ही है। जब इस आत्माका उपयोग शुभ होता है तब पुण्यरूप पुद्गल कर्मोंके द्वारा यह आत्मा वँधता है और जब उपयोग अशुभ होता है तब पापमय पुद्गल कर्म आकर वँधते हैं। किन्तु जब यह संसारी जीव शुभाशुभोपयोगोंको त्यागकर निज शुद्धात्मतत्वका श्रद्धान करता है और उसीको जानते हुए उसीरूप आचरण करता है तब पुद्गल कर्मोंसे नहीं वँधता है ॥ ६३-६४ ॥

# कोई जीव जब परमपूज्य वीतराग जिनेन्द्र भगवानके स्वरूपको जानता है अर्थात् उनका ध्यान करता है, समस्तकर्मोपाधि से रहित सिद्ध परमेष्ठी को देखता है अर्थात् उनके स्वरूपका भी ध्यान करता है और वाह्याभ्यन्तर परिप्रहविहीन साधु-परमेष्ठीका भी ध्यान करता है तथा

समर्थ जीवों पर अनुकरण रखता है, तब वह शुभोपयोगी होता है अर्थात् उसका वह उपयोग शुभ है ॥ ६५ ॥

\*\*\* इन्द्रियविषयोंमें जो तल्लीन हैं, कषायों से जो संतप्त हैं और विषयवासना को उत्तेजित करनेवाले शास्त्रोंको पढ़नेमें जो रुचि रखते हैं तथा वीतराग सर्वज्ञदेवनिर्दिष्ट मार्गसे विपरीत चलनेवाले हैं ऐसे मार्गभ्रष्ट जीवोंका उपयोग अशुभ होता है अर्थात् वे जीव अशुभोपयोगी कहलाते हैं ॥ ६६ ॥

### तृतीय अधिकार ( चारित्राधिकार )

पृष्ठ १४८— \* मुनियोंके द्वारा जो हिंसा होती है वह भिन्न जाति की है। यदि कोई मुनि प्रमादयुक्त होकर शयन करता है, ईर्यापथ समिति विहीन होकर चलता है और पिच्छकादि उपकरणों को देखे शोधे बिना रखता उठाता है, तो उसकी यह चेष्टा या प्रवृत्ति ही हिंसा है अर्थात् उस मुनिके द्वारा सर्वदा हिंसा होती ही रहती है ॥ १७ ॥

\*\* जीव मरे अथवा न मरे इससे हिंसा व अहिंसा नहीं जानी जाती है किन्तु असंयत भाव अर्थात् प्रमादपूर्वक आचरण करना ही उस श्रमण को हिंसक बनाता है। समितिके साथ आचरण करते हुए मुनिके द्वारा किसी जीवका वध हो भी जाये तो भी वह श्रमण हिंसक नहीं ॥ १८ ॥

पृष्ठ १६९— \* वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत द्वादशाङ्गरूप द्रव्यश्रुत का जो अध्ययन नहीं करता है, द्रव्यकर्म, भावकर्म और नो कर्मसे रहित शुद्धात्मा को जो नहीं जानता है, वह मुनि अर्थ परिज्ञानके बिना कर्मोंका क्षय कैसे कर सकता है ? अर्थात् नहीं कर सकता है ॥ ५८ ॥

\*\* सब जीवोंके चक्षु समान नहीं होते। सामान्य शरीरधारियोंके चक्षु चर्म चक्षु हैं, देवताओंका चक्षु अवधिज्ञान है तथा परमात्मा का, ज्ञान ही चक्षु है किन्तु साधुपरमेष्ठियों के लिए तो आगम ही चक्षु है ।



# शुद्धि-पत्र

पृष्ठ सं०	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
७	१२	जैनाचार्यो ने	जैनाचार्यों ने
१७	३	सर्वा नात्मार्थीन्	सर्वानात्मार्थीन्
१७	२६	ज्ञेयेसु	ज्ञेयेपु
२१	१८	स्पष्टदृष्टा	स्पष्टद्रष्टा
२२	२३	प्रथक्	पृथक्
२५	८	दीव्यता	दिव्यता
३५	२१	रहा रहा है	रहा है
३८	२३	ओगगहादिहि	ओगगहादिहिं
३९	२२	दृष्टा	द्रष्टा
४२	२४	यत्तलव्यं	यत्तल्लव्यं
४२	२५	निश्चास्यापि	निश्चास्यापि
४७	२१	निरावरण	निरावरण
५७	५	पश्चासौ	यश्चासौ
५७	६	रागदोषौ	रागद्वेषौ
५८	२४	रागरोपाभ्यां मस्य	रागरोपाभ्यामस्य
७३	८	अन्यथा तो फिर सब	अन्यथा सब
७६	१४	वैक्रियक	वैक्रियिक
८५	१६	विधियः	विधेय
११८	२७	दृ	दृ



